



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 22—अक्टूबर 28, 2016 (आश्विन 30, 1938)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 22—OCTOBER 28, 2016 (ASVINA 30, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	757	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	935	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2379	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1441
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	555
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	2041
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	757	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	935	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	2379	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	1441
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	555
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	2041
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

**भाग I — खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2016

सं. 103-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2016 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं:-

1. श्री पाटनला वेंकट राधा कृष्ण, पुलिस अधीक्षक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
2. श्री बी. चिट्टी बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
3. डॉ. लाज्जा राम बिश्नोई, अपर महानिदेशक पुलिस (रेलवे) और प्रभारी महानिरीक्षक पुलिस (बीटीएडी), असम कोकराझार, गुवाहाटी, असम-781007
4. श्री अभय कुमार उपाध्याय, महानिदेशक-सह-सीएमडी, बीपीबीसीसी पटना, बिहार
5. श्री सैयद रफत कमाल, निरीक्षक, सीआईडी, पटना, बिहार
6. श्री तालियाखुम जॉन लॉगकुमेर, अपर महानिदेशक पुलिस, रेल यातायात पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
7. श्री गिरधारी सिंह, उप निरीक्षक, एफआरआरओ, पूर्वी खण्ड- VIII, आर.के. पुरम, सेक्टर-1 नई दिल्ली-110066, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
8. श्री उमेश गांवकर, पुलिस अधीक्षक (उत्तर), पोरवारिम, गोवा
9. श्री प्रमोद कुमार, पुलिस महानिदेशक, सीआईडी (अपराध और रेलवे), गांधीनगर, गुजरात
10. श्री जाभा सिराज, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय लूनावाडा, लूनावाडा, जिला महिसागर, गुजरात
11. श्री राजबीर सिंह देसवाल, पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन, हरियाणा
12. श्री श्याम भगत नेगी, अपर पुलिस महानिदेशक (एसवी और एसीबी), शिमला, हिमाचल प्रदेश
13. श्री सैयद जावेद मुजतबा गिलानी, महानिरीक्षक (पु.), कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
14. श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, उप पुलिस महानिरीक्षक, यूडीआर-रियासी रेंज, जम्मू और कश्मीर
15. श्री अजय भटनागर, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय झारखंड, रांची, झारखंड
16. श्री ए.एस.एन. मूर्थी, पुलिस महानिरीक्षक, आईएसडी, 60, रिचमंड रोड, बेंगलुरु-560025, कर्नाटक
17. श्री विजय कुमार जी दामबल, अपर पुलिस अधीक्षक, बेल्लारी जिला, कर्नाटक
18. डॉ. शेख दरवेश साहेब, अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता, तिरुवनंतपुरम, केरल
19. श्री राजेश चावला, अपर पुलिस महानिदेशक जेएनपीए, सागर, मध्य प्रदेश
20. श्री अशोक अवस्थी, अपर पुलिस महानिदेशक एसपीई लोकायुक्त संगठन मध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश
21. श्री क्षितीन्द्र प्रकाश खरे, पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन, सागर, मध्य प्रदेश
22. श्री घनेन्द्र सिंह बुंदेला, सहायक कमांडेंट आरएपीटीसी, इंदौर, मध्य प्रदेश
23. श्री कुलवंत करतारचंद सारंगल, अपर पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक और सतर्कता अधिकारी ब्रिकी कर अनुभाग एमएस मुंबई, महाराष्ट्र

24. श्री संजय लक्ष्मण कदम, सहायक पुलिस आयुक्त, बांद्रा डिवीजन, मुंबई शहर, महाराष्ट्र
25. श्री रामेश्वर मोहन थोराट, पुलिस निरीक्षक, पुलिस स्टेशन एमआईडीसी वालुज, औरंगाबाद शहर, महाराष्ट्र
26. श्री अधिकारीमयूम घनश्याम शर्मा, एसडीपीओ, इम्फाल, मणिपुर
27. श्री एल.टी. रांगचल, उप महानिरीक्षक (उत्तरी रेंज) आइजोल, मिजोरम
28. श्री विनयतोश मिश्र, पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे), कटक, ओड़शा, ओड़शा
29. श्री प्रसन्न कुमार दास, निरीक्षक, सीआईडी, कटक, ओड़शा
30. श्री रोहित चौधरी, अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, पंजाब, पटियाला, पंजाब
31. श्री कुलदीप सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब अकादमी, फिल्लौर, पंजाब
32. श्री अर्पित शुक्ला, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जालंधर, पंजाब
33. श्री भूपेन्द्र कुमार डाक, अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो राजस्थान जयपुर, राजस्थान
34. श्री उमेश मिश्रा, अपर पुलिस महानिदेशक, सिविल राइट्स राजस्थान जयपुर, राजस्थान
35. श्री कन्हू चरण महाली, अपर पुलिस महानिदेशक, कल्याण, मैलापुर, चेन्नई, तमिलनाडु
36. श्री सू. अरूणाचलम, अपर पुलिस आयुक्त, मुख्यालय गेटर चेन्नई पुलिस, तमिलनाडु
37. श्री जी. शंकर, पुलिस अधीक्षक, विशेष डिवीजन एसबीसीआईडी चेन्नई, तमिलनाडु
38. श्री राजीव रतन, महानिदेशक अग्निशमन सेवा, बी.आर.के. भवन, हैदराबाद, तेलंगाना
39. श्री राकेश रंजन, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, अगरतला, त्रिपुरा-799001
40. श्री गिरीश प्रसाद शर्मा, अपर महानिदेशक (अग्निशमन सेवा मुख्यालय), लखनऊ, उत्तर प्रदेश
41. श्री आलोक शर्मा, अपर महानिदेशक (पीटीएस), मेरठ, उत्तर प्रदेश
42. श्री सत्य प्रकाश सिंह यादव, उप पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
43. श्री श्रीराम, रेडियो उपनिरीक्षक, रेडियो मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश
44. श्री हीरा सिंह रौथाण, पुलिस उपाधीक्षक, पीटीसी नरेन्द्र नगर, उत्तराखंड-249175
45. श्री गंगेश्वर सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक आसूचना शाखा पश्चिम बंगाल, लॉर्ड सिन्हा रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
46. श्री जयन्त कुमार बसु, विशेष पुलिस आयुक्त (II), 18, लालबाजार एसटी कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल
47. श्री करनैल सिंह, निरीक्षक (ओआरपी), फोटो अनुभाग पुलिस स्टेशन काम्पलेक्स, सेक्टर उन्नीस, चंडीगढ़
48. श्री के. गुणसेगरन, पुलिस अधीक्षक, नॉर्थ सब डिवीजन, कराइकल, पुडुचेरी
49. श्री अनिल कुमार, महानिरीक्षक, रसद निदेशालय, एफएचक्यू बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल
50. श्री अनिल पालीवाल, महानिरीक्षक, फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जालंधर, पंजाब, सीमा सुरक्षा बल
51. श्री रमेश चन्द्र ध्यानी, उप महानिरीक्षक, एसटीसी सीमा सुरक्षा बल चाकुर, जिला-लातूर, महाराष्ट्र, सीमा सुरक्षा बल
52. श्री संजीव भनोट, उप महानिरीक्षक (पीएसओ), फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जालंधर, पंजाब, सीमा सुरक्षा बल
53. श्री हरिओम दफ्तरी, उप कमांडेंट, 57 बटालियन सीमा सुरक्षा बल, प्रहरी नगर, तुरा, मेघालय, सीमा सुरक्षा बल
54. श्री रतन कुमार, उप निरीक्षक (जीडी), एफएचक्यू सीमा सुरक्षा बल सिलचर, मासिमपुर, असम, सीमा सुरक्षा बल
55. श्री हरीश चन्दर शर्मा, पुलिस अधीक्षक, एसीबी जोधपुर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
56. श्री बालासुब्रामनी एस, अपर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस महानिरीक्षक ॥ नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
57. श्री विजय कुमार शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक, एससी ॥, सीबीआई, नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
58. श्री कृष्णास्वामी कुमारेसन, पुलिस निरीक्षक, ईओडब्ल्यू, सीबीआई, चेन्नई, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
59. श्री रावेल सिंह, सहायक उप निरीक्षक, सीबीआई एसयू नई दिल्ली, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

60. श्री समीर कुमार कर्माकर, कांस्टेबल, बीएस एवं एफसी कोलकाता, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
61. श्री उदयन बनर्जी, उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ यूनिट डीएसपी दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
62. श्री अजय कुमार नाग, सहायक कमांडेंट, सीआईएसएफ यूनिट आईएसपी नासिक (महाराष्ट्र), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
63. श्री अतुल करवल, महानिरीक्षक, महानिरीक्षक श्रीनगर सेक्टर, ब्रेडन निशात, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)-191121, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
64. श्री अरुण कुमार, महानिरीक्षक, ओ/ओ महानिरीक्षक, त्रिपुरा सेक्टर पी.ओ.-उषा बाजार, एयरपोर्ट रोड, अगरतला (त्रिपुरा)-799009, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
65. श्री चामु सिंह कठैत, उप महानिरीक्षक, जी.सी. काठगोदाम, नैनीताल, उत्तराखंड, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
66. श्री रनवीर सिंह, कमांडेंट, 38 बटालियन, स्माइलपुर, साम्बा, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)-181133, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
67. श्री अशोक कुमार दास, उप कमांडेंट, जी.सी. भुवनेश्वर, ओडिशा-751011, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
68. श्री अरविन्द कुमार, विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
69. श्री विनायक प्रभाकर आपटे, संयुक्त निदेशक, एसआईबी, शिलांग, गृह मंत्रालय
70. श्री अनुराग कुमार, संयुक्त निदेशक, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय भारत सरकार
71. सुश्री कला रामचन्द्रन, संयुक्त निदेशक, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय भारत सरकार
72. श्री योगेश कुमार यादव, संयुक्त उप निदेशक/तकनीकी, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
73. श्री सुनील शर्मा, सहायक निदेशक, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
74. श्री विजय कुमार, सहायक निदेशक, एसआईबी, कोहिमा, गृह मंत्रालय
75. श्री विरेन्द्र कुमार, उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, एसआईबी, दिल्ली, गृह मंत्रालय
76. श्री दिपेश जुनेजा, महानिरीक्षक (मुख्यालय), आईटीबीपी महानिदेशालय सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
77. श्री आनंद स्वरूप, महानिरीक्षक (रसद), आईटीबीपी महानिदेशालय सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
78. श्री प्रेमलाल, द्वितीय कमान अधिकारी, उत्तरी फ्रंटियर आईटीबीपी जिला देहरादून उत्तराखंड, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
79. श्री राकेश अग्रवाल, महानिरीक्षक (रसद), मुख्यालय एनएसजी, मेहराम नगर, पालम नई दिल्ली-110037, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद
80. श्री श्याम सिंह, महानिरीक्षक, फ्रंटियर मुख्यालय रानीखेत उत्तराखंड, सशस्त्र सीमा बल
81. डॉ. निर्मल कुमार आजाद, महानिरीक्षक, बीपीआर एंड डी, दिल्ली, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
82. श्री आलोक मिश्र, महानिरीक्षक, एनआईए मुख्यालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी
83. श्री सुरजीत सिंह गुलेरिया, उप महानिरीक्षक (प्रो.), मुख्यालय महानिदेशक एनडीआरएफ, सीजीओ काम्पलेक्स नई दिल्ली-110003, एनडीआरएफ
84. श्री राजीव सभरवाल, संयुक्त निदेशक, एसवीपी एनपीए हैदराबाद, एसवीपी एनपीए
85. श्री पी. नगभूषणम्, उप निरीक्षक (जीडी), एसवीपी एनपीए हैदराबाद, एसवीपी एनपीए
86. श्री अखिल कुमार, निदेशक, एमईए, 3079, बी, जेएनबी, जनपथ, एमईए, नई दिल्ली, विदेश मंत्रालय
87. श्री गोला वालेपु संजीव रायडु, निरीक्षक, सीआईबी, सिकन्दराबाद, रेल मंत्रालय
88. श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर, उप निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

2. ये पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक की मंजूरी को विनियमित करने वाले नियमों के नियम 4(ii) के तहत प्रदान किए जाते हैं।

सं. 104-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2016 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

1. श्री करियप्पा जगन्नाथा रेड्डी, अपर पुलिस अधीक्षक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
2. श्री दुदेकुला चिन्ना हुसैन, अपर पुलिस अधीक्षक, गुंटूर, आंध्र प्रदेश
3. श्री बादिपल्ली श्रीनिवासुलु, उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश, गुडुर, आंध्र प्रदेश
4. श्री के. प्रकाश राव, उप पुलिस अधीक्षक, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश
5. श्री जी. राजीव कुमार, पुलिस सहायक आयुक्त (एयरपोर्ट), विजयवाडा, आंध्र प्रदेश
6. श्री वी. गणेश बाबू, अपर कमांडेंट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
7. श्री टी. पाल राज, रिजर्व उप निरीक्षक, वेंकटगिरी, आंध्र प्रदेश
8. श्री कर्णम चन्द्रशेखर पिल्लई, उप निरीक्षक, तिरुपति, आंध्र प्रदेश
9. श्री एम गिरीनिवासा राव, ऑर्डर रिजर्व उप निरीक्षक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
10. श्रीमती एम. सरोज, महिला सहायक उप निरीक्षक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
11. श्री जाबापोलु रामचन्द्ररैय्या, ऑर्डर रिजर्व उप निरीक्षक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
12. श्री मेरुगुमुव्वला धनाराजु, सहायक उप निरीक्षक, घागल्लू, आन्ध्र प्रदेश
13. श्री चि. पापा राव, हेड कांस्टेबल, विजयानगरम, आंध्र प्रदेश
14. श्री रामा कोटी नायक, हेड कांस्टेबल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
15. श्री अपुबितिन, उप पुलिस महानिरीक्षक, नामसई, अरुणाचल प्रदेश
16. श्री तब तेचि, उप पुलिस अधीक्षक, जिरो, अरुणाचल प्रदेश
17. श्री दुर्गा मोहन वैश्य, पुलिस अधीक्षक, (संचार) एपीआरओ, मुख्यालय, उलुबाड़ी, गुवाहाटी-781007, असम
18. श्री अश्वनी नर्जरी, पुलिस अधीक्षक, एपीआरओ, गुवाहाटी, असम
19. श्री अनिल चन्द्र शर्मा, उप पुलिस निरीक्षक (यूबी), धेमाजी, असम
20. श्री ताहेरउद्दीन अहमद, उप निरीक्षक (आरएम), एपीआरओ मुख्यालय गुवाहाटी, असम
21. श्री किशोर सिंह राय, उप पुलिस निरीक्षक एबी, 1 ए.पी बटालियन, लिगिरिपुखुरी, नजिरा-785685, असम
22. श्री प्रफुल्ला बरुआ, सहायक उप निरीक्षक (प्रचालन), शंकर, टिल्ला बीओपी, दिफू कार्बी-आंगलांग, असम
23. श्री भगवान तालुकदार, सहायक पुलिस उप निरीक्षक (यूबी), पुलिस आयुक्तालय, गुवाहाटी, असम
24. श्री रिपुन दत्ता, सहायक पुलिस उप निरीक्षक (यूबी), पीटीसी डेरगाव, असम
25. श्री जतिन चन्द्र डेका, सहायक उप निरीक्षक लिपिक, 3 ए.पी बटालियन तिताबार जोरहट, असम
26. श्री सत्यजीत दे, सहायक पुलिस उप निरीक्षक (यूबी), सीआईडी, उलुबाड़ी, गुवाहाटी, असम
27. श्री धर्मेन्द्र बोरा, सहायक उप निरीक्षक (लिपिक), 1 ए.पी बटालियन लिगिरिपुखुरी, नजिरा-785685, असम
28. श्री कैलाश शर्मा, हवलदार एबी, पीटीसी डेरगांव, असम
29. श्री थानेश्वर गोगोई, हवलदार एबी, गोलाघाट, असम
30. श्री कुमुद रंजन दास, कांस्टेबल (प्रचालन), सुखचर पुलिस रेडियो स्टेशन, धुबडी, असम
31. श्री अबन खानिकर, एबी कांस्टेबल, 3 ए.पी बटालियन तिताबार जोरहट, असम
32. श्रीमती माधुरी मेच, महिला पुलिस कांस्टेबल (एबी), पुलिस आयुक्तालय गुवाहाटी, असम
33. श्री घन कांत बरुआ, यूबी कांस्टेबल, विशेष शाखा मुख्यालय, असम, काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी, असम

34. श्री अश्विनी कुमार, पुलिस अधीक्षक, सहरसा, बिहार
35. श्री पद्माकर पाण्डेय, आशुलिपिक उप निरीक्षक बीपीए, पटना, बिहार
36. श्रीमती सुनिता कुमारी, उप निरीक्षक, सीआईडी, पटना, बिहार
37. श्री मुसाफिर सिंह यादव, उप निरीक्षक (ऑर्म्स), बीएमपी-16, पटना, बिहार
38. श्री मुख्तार सिंह, उप निरीक्षक (ऑर्म्स), बीएमपी-16, पटना, बिहार
39. श्री राजाराम तिवारी, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, पुराना सचिवालय, पटना-800015
40. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, हवलदार, बीएमपी-14, पटना, बिहार
41. श्री राघव मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक, सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो पटना-800001, बिहार
42. श्री संतोष कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक, सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, 6, सर्कुलर रोड, पटना, बिहार
43. श्री अजय प्रताप सिंह, हवलदार, सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, 6, सर्कुलर रोड, पटना, बिहार
44. श्री कमलोचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक, दंतेवाडा, छत्तीसगढ़
45. श्री बुधान सिंह ध्रुव, पुलिस अधीक्षक, कोरिया, छत्तीसगढ़
46. श्री मोती लाल कोटवानी, पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, रायपुर, छत्तीसगढ़
47. श्री बृजेश पथरोलिया, निरीक्षक फिंगर प्रिन्ट, सीआईडी पीएचक्यू नया रायपुर, छत्तीसगढ़
48. श्रीमती नमिता टेकम, उप निरीक्षक, दंतेवाडा, छत्तीसगढ़
49. श्री दिलीप कुमार राणा, प्लाटून कमांडर, 1 बटालियन भिलाई, छत्तीसगढ़
50. श्री छित्तर सिंह जाट, सहायक उप निरीक्षक, कबीरधाम, छत्तीसगढ़
51. श्री जुगल किशोर सपाहा, हेड कांस्टेबल, रायपुर, छत्तीसगढ़
52. श्री लेखमणि सिंह, हेड कांस्टेबल, रायपुर, छत्तीसगढ़
53. श्री परेज लाल सिन्हा, हेड कांस्टेबल, पीटीएस राजनंदगाव, छत्तीसगढ़
54. श्री रविन्द्र कुमार त्यागी, सहायक पुलिस आयुक्त, सब डिविजन मॉडल टाउन, उत्तर पश्चिम जिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
55. श्री ललित मोहन नेगी, निरीक्षक, एनडीआर विशेष सेल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
56. श्री हृदय भूषण, निरीक्षक, एनडीआर विशेष सेल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
57. श्री रमेश कुमार शर्मा, उप निरीक्षक, विशेष सेल उत्तरी रेंज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
58. श्री धर्मवीर भारद्वाज, उप निरीक्षक, सुरक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
59. श्रीमती कौशल पाण्डेय, उपनिरीक्षक (निरीक्षक पद के प्रभारी), पुलिस थाना विवेक बिहार, पूर्वी जिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
60. श्री रमेश कुमार, उप निरीक्षक, यातायात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
61. श्री करतार सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस नियंत्रण कक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
62. श्री धर्मवीर सिंह, उप निरीक्षक (तदर्थ), सी.ए.डब्ल्यू. उत्तर पश्चिम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
63. श्री अवतार सिंह, हेड कांस्टेबल, वैयक्तिक अनुभाग पुलिस आयुक्त कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
64. श्री नरेन्द्र पाल सिंह, हेड कांस्टेबल, अपराध शाखा पुलिस थाना कमला मार्केट, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
65. श्री बाला नाथ, हेड कांस्टेबल, पीआरओ शाखा पुलिस मुख्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
66. श्री श्याम बाबू, हेड कांस्टेबल, अपराध शाखा दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
67. श्री सतेन्द्र कुमार, कांस्टेबल, पुलिस नियंत्रण कक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
68. श्री सज्जाद अली, कांस्टेबल, विनय मार्ग नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

69. श्रीमती जसबीर कौर, महिला कांस्टेबल, दक्षिण जिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
70. श्री विशराम यू. बोरकर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, पणजी, गोवा
71. श्री महेश गांवकर, एसडीपीओ, मापुसा, गोवा
72. श्रीमती सुनीता सावलो सावंत, उप पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ, पोनडा, एसडीपीओ पोनडा, गोवा
73. श्री बी एस जेबालिया, पुलिस महानिरीक्षक (कारागार), अहमदाबाद, गुजरात
74. श्री विजयपाल सिंह रामजीलाल यादव, उप पुलिस अधीक्षक, एसआरपीएफ, भचाउ, कच्छ, गुजरात
75. श्री मधुसुदन एम दामोर, उप पुलिस अधीक्षक (बेतार), अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवा) गांधीनगर, गुजरात
76. श्री मारू पालजीभाइ प्रेमजीभाइ, निरीक्षक, एसआरपीएफ जीआर 15, ओएनजीसी, मेहसाना, गुजरात
77. श्री महेंद्र सिंह सरदार सिंह गोहिल, उप निरीक्षक, एसओजी, जूनागढ़, गुजरात
78. श्री पुनिया राजेन्द्र सिंह सरदार सिंह, उप निरीक्षक, एसआरपीएफ, मेहसाना, गुजरात
79. श्री नानालाल कर्मशी मणवर, सहायक उप निरीक्षक, एलसीबी, पोरबन्दर, गुजरात
80. श्री अनावडिया शान्तिलाल मेवाभाइ, सहायक उप निरीक्षक, एसआरपीएफ, ओएनजीसी, मेहसाना, गुजरात
81. श्री वसंतराय कांतिलाल मेहता, सहायक उप निरीक्षक, एसीबी, अमरेली, गुजरात
82. श्री दशरथभाइ बिचेरभाइ सोलंकी, सहायक उप निरीक्षक, गुजरात पुलिस अकादमी, कराई, गांधीनगर, गुजरात
83. श्री परमार भगवानभाई, हेड कांस्टेबल, गांधीनगर, गुजरात
84. श्री सैयद अख्तर हुसैन जलालुद्दीन, हेड कांस्टेबल, अपराध शाखा, अहमदाबाद सिटी, गुजरात
85. श्री अजित दलपतराम दुबल, हेड कांस्टेबल, पंचकोशी जामनगर, गुजरात
86. श्री जमनभाइ मेघाजीभाइ कंजारिया, हेड कांस्टेबल, एसआरपीएफ, चेला, जामनगर, गुजरात
87. श्री गुणवन्तसिंह हामिर सिंह राठोड़, कांस्टेबल, एसआरपीएफ, नडियाड, गुजरात
88. श्री दिलीप मणिलाल अग्रावत, आसूचना अधिकारी, पुलिस महानिदेशक आसूचना, गांधीनगर, गुजरात
89. श्री गुरदीप सिंह शंकर सिंह सैनी, आसूचना अधिकारी, पुलिस महानिदेशक, आईबी, गांधीनगर, गुजरात
90. डॉ. कुशल पाल सिंह, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकुला, हरियाणा
91. डॉ. एम. रवि किरण, पुलिस महानिरीक्षक (एसवीबी), पंचकुला (एचआर), हरियाणा
92. श्री संजय कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक रेंज (एचआर), हरियाणा
93. श्री धर्मवीर, उप पुलिस अधीक्षक (सीआईडी), मानेसर, गुड़गांव (एचआर), हरियाणा
94. श्री राज रूप, निरीक्षक, एचपीए, मधुबन (एचआर), हरियाणा
95. श्री इन्द्र पाल, निरीक्षक (ओ आर पी), सीआईडी, सोनीपत (एचआर), हरियाणा
96. श्री सत पाल, उप निरीक्षक, एचपीए, मधुबन (एचआर), हरियाणा
97. श्री कृपाल सिंह, उप निरीक्षक (एक्जेम्टी), अम्बाला (एचआर), हरियाणा
98. श्री रणजीत सिंह, सहायक उप निरीक्षक, एससीआरबी, मधुबन (एचआर), हरियाणा
99. श्री राजवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक (एक्जेम्टी), एसवीबी, पंचकुला (एचआर), हरियाणा
100. श्री विनोद कुमार धवन, पुलिस अधीक्षक, राज्य सीआईडी, हिमाचल प्रदेश
101. श्री मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल, राज्य सीआईडी, हिमाचल प्रदेश
102. श्री नंदलाल, हेड कांस्टेबल, मंडी, हिमाचल प्रदेश
103. श्री मोहम्मद शफी साह, उपनिरीक्षक, पुलिस थाना हंदवाडा, जम्मू और कश्मीर



104. श्री डिपटी लाल सलोत्रा, उप पुलिस अधीक्षक, तकनीकी मुख्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
105. श्री अब्बास अली शाह, सहायक उप निरीक्षक, जैडएपीएचक्यू, जम्मू, जम्मू और कश्मीर
106. श्री तरसेम सिंह छिब, निरीक्षक (एस), जैडएपीएचक्यू, जम्मू, जम्मू और कश्मीर
107. श्री रेयाज अहमद शाह, सहायक उप निरीक्षक, जैडएपीएचक्यू, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
108. श्री कुलदीप राज, सहायक उप निरीक्षक, आईआरपी 19 कठुआ, जम्मू और कश्मीर
109. श्री प्रिदमन कुमार टीकू, उप पुलिस अधीक्षक, सीआईडी एसबी जम्मू, जम्मू और कश्मीर
110. श्री विरेन्द्र कुमार भट्ट, उप पुलिस अधीक्षक, वीओजे, जम्मू और कश्मीर
111. श्री मोहम्मद सलीम खान, अपर पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर
112. श्री बोध राज, उप पुलिस अधीक्षक, सीडी उधमपुर, जम्मू और कश्मीर
113. श्री रवेल सिंह चौधरी, उप पुलिस अधीक्षक, आईआर 19 कठुआ, जम्मू और कश्मीर
114. श्री पवन कुमार गुप्ता, निदेशक अभियोजन, पुलिस मुख्यालय जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर
115. श्री फारूख अहमद खान, उप निरीक्षक पीसी श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
116. श्री भगवंत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, रेलवे मुख्यालय जे एंड के, जम्मू और कश्मीर
117. श्री गुलाम रुबानी शाह, सहायक उप निरीक्षक, डीपीओ श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
118. श्री विजय पाल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, एसकेपीए उधमपुर, जम्मू और कश्मीर
119. श्री गुलजार अहमद शेख, सहायक उपनिरीक्षक, अपराध कश्मीर, जम्मू और कश्मीर
120. श्रीमती आशा मिश्रा, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक, देवघर, झारखंड
121. श्री सामु तिऊ, हवलदार, पुलिस लाइन, देवघर, झारखंड
122. श्री महेश सिंह, सहायक उप निरीक्षक, रांची, पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर, रांची, झारखंड
123. श्री बिनोदानंद झा, सहायक उप निरीक्षक, सदर न्यायालय, हजारीबाग, झारखंड
124. श्रीमती विष्णु कुमारी, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, हजारीबाग, झारखंड
125. श्री सुशील साह, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस थाना बडकागाव, हजारीबाग, झारखंड
126. श्री सुनील कुमार सिंह, हवलदार, पी. लाइन, हजारीबाग, झारखंड
127. श्री ब्रह्मदेव महतो, कांस्टेबल, 968, पुलिस थाना दारू, हजारीबाग, झारखंड
128. श्री मिथलेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक, जेजे (एसटीएफ) धुर्वा, रांची-834004, झारखंड
129. श्री कमल बहादुर लिम्बु, पुलिस उपनिरीक्षक (ऑर्ड), झारखंड ऑर्ड पुलिस 1 बटालियन, झारखंड
130. श्री बुद्धराम थापा, हवलदार, झारखंड ऑर्ड पुलिस 1 बटालियन, झारखंड
131. श्री आनंद कुमार सिंह, हवलदार, झारखंड ऑर्ड पुलिस, 6 बटालियन, झारखंड
132. श्री प्रहलाद सिंह, हवलदार, इंडिया रिजर्व 3 बटालियन, झारखंड
133. श्री एम एन नागराज, पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस कार्यालय नवानगर, बगलकोट, कर्नाटक
134. श्री मंजूनाथ अन्नीगिरी, पुलिस अधीक्षक एसआईटी केएलए, बेंगलुरु, कर्नाटक
135. श्री एस बद्रीनाथ, सहायक पुलिस आयुक्त, के आर पुरम सब डिवीजन बेंगलुरु, कर्नाटक
136. श्री विनय अनंत गांवकर, सहायक पुलिस आयुक्त, कुब्बोन पार्क सबडिवीजन, प्रथम तल, अशोक नगर पुसि थाना, कमिश्नरेट रोड, बंगलुरु, कर्नाटक
137. श्री वी मरियप्पा, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात दक्षिण सबडिवीजन, साउथ इंड सर्कल, बेंगलुरु, कर्नाटक

138. श्री सोमलिंगप्पा, सहायक पुलिस आयुक्त, उत्तर सबडिवीजन हुबली सिटी, कर्नाटक
139. श्री सिद्धालिंगैय्या सी ए, पीआई, केएलए कोलार, कर्नाटक, कर्नाटक
140. श्री एम शांताराज, पीआई बेतार, जांच कार्यालय, बेतार मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक
141. श्री प्रमोद एस धागे, पीआई बेतार, नियंत्रण कक्ष बेंगलुरु जिला, कर्नाटक
142. श्री श्रीधर दोडोडी, उप पुलिस निरीक्षक, टाउन पुलिस थाना होसपेट बेल्लारी जिला, पिन-5832001, कर्नाटक
143. श्री के. एस प्रणेशमू, उप पुलिस निरीक्षक, राज्य आसूचना बेंगलुरु, कर्नाटक
144. श्री पी नागाराजा, सहायक उप निरीक्षक, गनदासी पुलिस थाना हासन जिला, कर्नाटक
145. श्री एल टी मुद्दुराजु उर्स, एआरएसआई, चिक्कामंगलुरु जिला, कर्नाटक
146. श्री पदमानाभा सी के, सहायक उप निरीक्षक, डीसीबी चिक्कमगलूर जिला, कर्नाटक
147. श्री ए एम पालागाप्पा, एआरएसआई, 3 बटालियन, केएसआरपी बेंगलुरु, कर्नाटक
148. श्री के ई मैथ्यू, एएचसी, डार शिमोगा जिला, कर्नाटक
149. श्री हिरियानैया सी जी, एएचसी, डार चिक्कमगलूर जिला, कर्नाटक
150. श्री जैकब थोमस, निदेशक सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो, तिरुवनंतपुरम-695033, केरल
151. श्री पी ए वर्गीस, उप पुलिस अधीक्षक, पेरिन्थालमन्ना सब डिवीजन, मल्लापुरम-679322, केरल
152. श्री टी मोहनन नायर, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, उत्तर सब डिवीजन तिरुवनंतपुरम सिटी, केरल
153. श्री कुरिकेश मैथ्यू, उप कमांडेंट, एमएसपी, मल्लापुरम, केरल
154. श्री वी. अजित, उप पुलिस अधीक्षक एसबी सीआईडी, कोट्टायाम, केरल
155. श्री वी.वी त्रिविक्रमण नम्बथिरी, उप निरीक्षक, एस बी सीआईडी, कोट्टायाम, केरल
156. श्री के एल अनिल, वरिष्ठ सिविल पुलिस अधिकारी, एससीआरबी पाट्टुम, केरल
157. श्री एन जयचन्द्रन, (झाड़वर) एचसी टी 9073 (सहायक उप निरीक्षक जीआर.), पुलिस मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, केरल
158. श्री आर. महेश, उप पुलिस अधीक्षक, वीएसीबी टीवीपीएम तिरुवनंतपुरम, केरल
159. श्री एम.जे एंटोनी, सहायक उप निरीक्षक, वीएसीबी अलाप्पुझा यूनिट, केरल
160. श्री प्रीतम सिंह उईके, कमांडेंट 8 बटालियन एसएएफ, छिंदवाडा एमपी, मध्य प्रदेश
161. श्री अविनाश सिंह, कमांडेंट 25 बटालियन एसएएफ, भोपाल, मध्य प्रदेश
162. श्री राम कीर्ति शुक्ला, सहायक कमांडेंट 7 बटालियन एसएएफ, भोपाल, मध्य प्रदेश
163. श्री शारदा प्रसाद चौधरी, निरीक्षक क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय एसबी, जबलपुर, मध्य प्रदेश
164. श्री आलोक वर्मा, निरीक्षक रेडियो, भोपाल, मध्य प्रदेश
165. श्री नंदलाल यादव, प्लाटन कमांडर आरएपीटीसी, इंदौर, मध्य प्रदेश
166. श्री वीरबहादुर सिंह, प्लाटन कमांडर 9 बटालियन एसएएफ, रीवा, मध्य प्रदेश
167. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, सेक्शन कमांडर 29 बटालियन एसएएफ, दतिया, मध्य प्रदेश
168. श्री ओंकार सिंह, हेड कांस्टेबल-639 डीआरपी लाइन, सिहोर, मध्य प्रदेश
169. श्री दिनेश प्रसाद शुक्ला, हेड कांस्टेबल-118, 23 बटालियन एसएएफ, भोपाल, मध्य प्रदेश
170. श्री राजेन्द्र सिंह कुशवाहा, हेड कांस्टेबल-616, पुलिस थाना कोतवाली, गुना, मध्य प्रदेश
171. श्री वेद प्रकाश शर्मा, हेड कांस्टेबल-646, 5 बटालियन एसएएफ, मोरेन, मध्य प्रदेश
172. श्री अशोक कुमार तिवारी, कांस्टेबल एसपीड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

173. श्री राम सिया बघेल, कांस्टेबल 361, 2 बटालियन एसएएफ, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
174. श्री मोहम्मद अफसार खान, निरीक्षक (एम), अपर महानिदेशक (शिकायत) के वैयक्तिक सहायक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश
175. श्री सतीश कुमार मिश्रा, निरीक्षक (एम) एसबी, इंदौर, मध्य प्रदेश
176. श्रीमती शोभा गढ़पाण्डे, सुबेदार एम प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश
177. श्री संजय हिन्दुराव शिंदे, पुलिस उप आयुक्त, जोन III थाणे शहर, महाराष्ट्र
178. श्री श्रीप्रकाश मारुति वाघमारे, पुलिस उप आयुक्त, ऑम्ड पुलिस II तारदेव मुंबई सिटी, महाराष्ट्र
179. श्री राजेन्द्र गणपत दाभाडे, पुलिस उप आयुक्त, जोन-1, नासिक शहर, महाराष्ट्र
180. श्री रविन्द्रसिंह संतोषसिंह परदेशी, कमांडेंट, एसआरपीएफ जीआर XI नवी मुंबई, महाराष्ट्र
181. श्री भगवान गोपाजी यशोद, अपर पुलिस अधीक्षक, पालघर, महाराष्ट्र
182. श्री बालकृष्ण मोतीराम यादव, पुलिस उप आयुक्त, बेतार मुंबई, महाराष्ट्र
183. श्री श्रीधर गोपालराव खंदारे, सहायक कमांडेंट, एसआरपीएफ जीआर-IV नागपुर, महाराष्ट्र
184. श्री नितिन चम्पतराव कोसडीकर, सहायक पुलिस आयुक्त, नियंत्रण कक्ष नवी मुंबई, महाराष्ट्र
185. श्री सुनील सदाशिव बाजारे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, पनवेल शहर पुलिस थाना नवी मुंबई, महाराष्ट्र
186. श्री फिरोज मुबारक पटेल, सहायक पुलिस निरीक्षक, पुलिस आयुक्त का कार्यालय मुंबई सिटी, महाराष्ट्र
187. श्री नारायण नामदेव वारे, पुलिस उप निरीक्षक, सफले पुलिस थाना जिला पालघर, महाराष्ट्र
188. श्री अरविन्द देवमन देवरे, पुलिस उप निरीक्षक, चालिसगांव पुलिस थाना जिला जलगांव, महाराष्ट्र
189. श्री विद्याधर जयसिंह घोडपडे, पुलिस उप निरीक्षक, सीएसटी रेलवे पुलिस थाना मुंबई, महाराष्ट्र
190. श्री दादा जगन्नाथ अवघडे, उप पुलिस निरीक्षक, अपराध शाखा नवी मुंबई, महाराष्ट्र
191. श्री अबासाहेब जिजाबा सुमबे, उप पुलिस निरीक्षक (बेतार), अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस निदेशक बेतार पुणे, महाराष्ट्र का कार्यालय
192. श्री उत्तम तुकाराम जाधव, सहायक उपनिरीक्षक, नियंत्रण कक्ष जिला लातूर, महाराष्ट्र
193. श्री दामोदर सोनू मोहिते, सहायक उपनिरीक्षक, मोटर परिवहन प्रभाग पुणे शहर, महाराष्ट्र
194. श्री प्रकाश गंगाधर तरडेकर, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना किनवात नांडेड, महाराष्ट्र
195. श्री शांताराम रामदास वानखेडे, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक, रीडर बीआर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय जलगांव, महाराष्ट्र
196. श्री अनिल मधुकरराव डांगट, सहायक उपनिरीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय गडचिरोली, महाराष्ट्र
197. श्री संभाजी नारायण देशमुख, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक, विशेष शाखा ठाणे, महाराष्ट्र
198. श्री प्रकाश दत्तात्रे कोकाटे, पुलिस हेड कांस्टेबल (झाड़वर), पुलिस मुख्यालय कोल्हापुर, महाराष्ट्र
199. श्री रविन्द्र भगवान मयेकर, हेड कांस्टेबल, दिनदोषी ट्रैफिक डिवीजन मुंबई शहर, महाराष्ट्र
200. श्री हृदयनाथ नारायण सालवी, हेड कांस्टेबल, मोटर परिवहन विभाग नासिक, महाराष्ट्र
201. श्री गंगाधर पंडित चौधरी, हेड कांस्टेबल, मुख्यालय अकोला, महाराष्ट्र
202. श्री संजय बालाजी सिंदे, आसूचना अधिकारी/हेड कांस्टेबल, एसआईडी मुंबई, महाराष्ट्र
203. श्री शारदाचरण हरिनारायण तिवारी, हेड कांस्टेबल, पुलिस मुख्यालय, अमरावती शहर, महाराष्ट्र
204. श्री संदीपकुमार भिकुराव रायकर, हेड कांस्टेबल, कालवा पुलिस थाना, ठाणे शहर, महाराष्ट्र
205. श्री संजय इरणा हुंडेकरी, हेड कांस्टेबल, सोलापुर शहर, महाराष्ट्र
206. श्री राजु शामराव बनसोडे, हेड कांस्टेबल (राइटर), अपराध अन्वेषण शाखा मुंबई, महाराष्ट्र

207. श्री प्रहलाद उत्तम मदन, हेड कांस्टेबल, एमआरए पुलिस थाना मुंबई शहर, महाराष्ट्र
208. श्री प्रदीप विश्वनाथ बडगुजर, हेड कांस्टेबल, बीडीडीएस जलगाव, महाराष्ट्र
209. श्री रमेश पांडुरंग शिन्दे, हेड कांस्टेबल, ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष, एच मुंबई, महाराष्ट्र
210. श्री अरुण दादा जाधव, हेड कांस्टेबल, अपराध अन्वेषण शाखा मुंबई, महाराष्ट्र
211. श्री नामदेव निवृत्ती रेनुसे, हेड कांस्टेबल, विशेष शाखा पुणे शहर, महाराष्ट्र
212. श्रीमती संगीता वसंत सावरकर, हेड कांस्टेबल, सीआईडी (अपराध), पुणे, महाराष्ट्र
213. श्री गुरुनाथ पांडुरंग माली, हेड कांस्टेबल, एटीएस मुंबई, महाराष्ट्र
214. श्री व्यंकटेश दिनकर कुलकर्णी, पुलिस नायक, भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो, नासिक रेंज, महाराष्ट्र
215. श्री हीजम गयानेश्वर सिंह, उप कमांडेंट, 7वीं एमआर खाबेईसोई, मणिपुर
216. श्री एस. गुनी सिंह, उपनिरीक्षक, सीआईडी (एसबी), मणिपुर
217. श्री सोंगलीयानथाड भाइफड, निरीक्षक, एमपीटीसी, पानगेई-795114, मणिपुर
218. श्री लुनखोसड हावकीप, हवलदार, 2 बटालियन एमआर, इंफाल, मणिपुर
219. श्री खुनदराकपम देवानंद सिंह, उपनिरीक्षक, सीआईडी (एसबी), इंफाल, मणिपुर
220. श्री ए एस मोसोंगम सीमरे, निरीक्षक, सेनापति जिला, मणिपुर
221. श्री रिमफांग पडे, उप पुलिस अधीक्षक, आरआई-भोई (मुख्यालय), मेघालय
222. श्री एडोर्मा किंडिया, रिजर्व निरीक्षक, प्रथम एमपीएल बटालियन, मेघालय
223. श्री जॉनसन मारक, सुबेदार मेजर (एसएम), प्रथम एमपीएल बटालियन, मेघालय
224. श्री जनार्दन एपी, एबी निरीक्षक, कमांडेंट कार्यालय गोरगारे, मेघालय
225. श्री लचई बसुमतारी, हेड कांस्टेबल, लाइतुमखराह ट्रैफिक शाखा, मेघालय
226. श्री सी. लालझानगोवा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कोलासिब जिला, मिजोरम
227. श्री सी लालनुमाविया, पुलिस अधीक्षक मामित, पिन-796441, मिजोरम
228. श्री जोसांग लियाना, पुलिस अधीक्षक, लुंगलेई जिला, मिजोरम
229. श्री जोरमसंगा रालटे, सहायक कमांडेंट, प्रथम बटालियन एमएपी, ऑमर्ड वेंग, आईजल पिन: 796008, मिजोरम
230. श्री सी लालरिमलियाना, पुलिस निरीक्षक, गोपनीय शाखा, पुलिस मुख्यालय, अपर महानिरीक्षक पुलिस-1 का कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, मिजोरम, खातला, आईजल, मिजोरम
231. श्री अजित कुमार दास, पुलिस उपाधीक्षक (हेडराइटिंग), सतर्कता निदेशालय, कटक, ओडिशा
232. श्री संजीव कुमार शतपथी, निरीक्षक, भुवनेश्वर, खारावेलंगर पुलिस थाना, ओडिशा
233. श्री विश्वनाथ तारिणि, निरीक्षक, विशेष शाखा, भुवनेश्वर, ओडिशा
234. कुमारी भार्गवि पृष्टि, उपनिरीक्षक, सतर्कता निदेशालय, कटक, ओडिशा
235. श्री अंजन कुमार मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक, सतर्कता निदेशालय, कटक, ओडिशा
236. श्री विजय कुमार साहु, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस आयुक्त का कार्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा
237. श्री चितरंजन नायक, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस आयुक्त का कार्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा
238. श्री बन बिहारी महान्ति, कांस्टेबल, पीएमटी कटक, ओडिशा
239. श्री महम्मद मात्युर रहेमान, कांस्टेबल, सीपी मुख्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा
240. श्री गहिरूद्दीन खान, कांस्टेबल, डीपीओ खोरधा, ओडिशा

241. श्री सिल्भेरियस लाक्रो, सिपाही 7वीं बटालियन ओएसएपी बटालियन, भुवनेश्वर, ओडिशा
242. श्री जसकरण सिंह, उपमहानिरीक्षक, अपराध, पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब
243. श्री भुपिन्द्र सिंह, अपर महानिरीक्षक, पंजाब राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो लुधियाना, पंजाब
244. श्री अरुण सैनी, अपर महानिरीक्षक, प्रशासन पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब
245. श्री परमजीत सिंह गोराया, पुलिस अधीक्षक, अन्वेषण पटियाला, पंजाब
246. श्री गुरचरण सिंह, निरीक्षक, इंचार्ज सीआईए स्टाफ एस ए एस नगर मोहाली, पंजाब
247. श्री तरलोचन सिंह, निरीक्षक, एस ए एस नगर मोहाली, पंजाब
248. श्री नरिन्दर पाल, निरीक्षक, आसूचना मुख्यालय, चंडीगढ़, पंजाब
249. श्री लखवीर सिंह, उपनिरीक्षक, सीआईडी यूनिट अमृतसर, पंजाब
250. श्री इंद्रजीत सिंह, उपनिरीक्षक, एसएचओ पुलिस थाना जीआरपी लुधियाना, पंजाब
251. श्री मंगल सिंह, उपनिरीक्षक, आईएसटीसी कपूरथला, पंजाब
252. श्री गुरचरण सिंह, उपनिरीक्षक, आरटीसी पीएपी जालंधर कैंन्ट, पंजाब
253. श्री हरजिन्दर सिंह, उपनिरीक्षक (एलआर), उपमहानिरीक्षक पटियाला रेंज पटियाला के रिडर, पंजाब
254. श्री जगमेल सिंह, सहायक उपनिरीक्षक, ट्रैफिक पुलिस मांसा, पंजाब
255. श्री बलविन्दर कुमार, सहायक उपनिरीक्षक, ओएसआई 7वीं बटालियन पीएपी जालंधर, पंजाब
256. श्री कुलविन्दर सिंह, सहायक उपनिरीक्षक, आरटीसी पीएपी, जालंधर कैंन्ट, पंजाब
257. श्री मदन लाल, हेड कांस्टेबल, पीआरटीसी जहान खेलान, पंजाब
258. श्री भंवरलाल मीणा, उप पुलिस उपमहानिरीक्षक, आतंकवाद रोधी दस्ता जयपुर, राजस्थान
259. श्री विशाल सिंह, पीसी, 13वीं बटालियन आरएसी चैनपुरा जयपुर, राजस्थान
260. श्री केशव कुमार, उपनिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार जयपुर, राजस्थान
261. श्री रविन्द्र कुमार, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस लाइन कोटा ग्रामीण, राजस्थान
262. श्री मांगी लाल बिश्नोई, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना पिपर जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान
263. श्री मोहन सिंह भाटी, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना शंकरा जैसलमेर, राजस्थान
264. श्री अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल, 13, 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर, राजस्थान
265. श्री भंवर सिंह, हेड कांस्टेबल, 42, 10वीं आरएसी बिकानेर, राजस्थान
266. श्री रामबाबू सिंह, हेड कांस्टेबल, 11वीं बटालियन वजीराबाद दिल्ली
267. श्री धारू राम, हेड कांस्टेबल, पीटीसी जोधपुर, राजस्थान
268. श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर, हेड कांस्टेबल, सीआईडी एसएसबी जयपुर, राजस्थान
269. श्री राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल, उप पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) का कार्यालय जयपुर, राजस्थान
270. श्री घीसा लाल बाजिया, कांस्टेबल, प्रथम आरएसी जोधपुर, राजस्थान
271. श्री मांगू सिंह, कांस्टेबल, द्वितीय आरएसी कोटा, राजस्थान
272. श्री प्रहलाद चन्द शर्मा, कांस्टेबल 37, एससीआरबी जयपुर, राजस्थान
273. श्री अचल सिंह राजपूत, कांस्टेबल, पीटीएस बीकानेर, राजस्थान
274. श्री सोनम तेनजिंग भूटिया, एसएसपी, सीआईडी, पुलिस मुख्यालय, गंगटोक, सिक्किम
275. श्री छुंग छुंग भूटिया, उपनिरीक्षक, 3वीं आईआर बटालियन, बटालियन मुख्यालय रानीपूल, 737135, सिक्किम

276. श्री एच एम जयराम, पुलिस महानिरीक्षक, ऑपरेशन चेन्नई, तमिलनाडु
277. श्री ए अरुण, उप पुलिस महानिरीक्षक, त्रिची रेंज त्रिची, तमिलनाडु
278. श्री सी चन्द्रशेकर, उप महानिरीक्षक मुख्य सतर्कता अधिकारी, तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर लिमिटेड कागिथापुरम करूर जिला, तमिलनाडु
279. श्री जे रविन्द्रन, कमांडेंट, तमिलनाडु विशेष पुलिस XVवीं बटालियन सेवुर वेलोर, तमिलनाडु
280. श्री वी जयकुमार, उप पुलिस आयुक्त, ऑमर्ड रिजर्व II एसटी थोमस माउंट चेन्नई, तमिलनाडु
281. श्री एम रंगाराजन, अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु
282. श्री एन राजाराजन, अपर पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा शाखा में कोर प्रकोष्ठ, सीआईडी चेन्नई, तमिलनाडु
283. श्री एस मरिराजन, अपर पुलिस अधीक्षक, एसआईडी अपराध शाखा सीआईडी मदुरे, तमिलनाडु
284. श्री ए.वी. माथि, उप पुलिस अधीक्षक, अपराध रिकार्ड ब्यूरो त्रिची, तमिलनाडु
285. श्री के प्राणथामन, सहायक पुलिस आयुक्त, एसआरएमसी रेंज पश्चिम जोन ग्रेटर चेन्नई, तमिलनाडु
286. श्री आर विजया रागवन, उप पुलिस अधीक्षक, सीसी-11 सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-रोधी चेन्नई, तमिलनाडु
287. श्री एम मुथु शंकरालिंगम, सहायक पुलिस आयुक्त, आसूचना अनुभाग मदुरे शहर, तमिलनाडु
288. श्री के अरुल अमरान, सहायक पुलिस आयुक्त, केन्टोनट क्राइम रेंज, सोची शहर,
289. श्री के. राजशेखर, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य अधिकारी नियंत्रण कक्ष चेन्नई, तमिलनाडु
290. श्री एस. मुथुकुमार, उप पुलिस अधीक्षक (शेष शाखा), सीआईडी मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु
291. श्री के. रवि, उप पुलिस अधीक्षक, एसआईसी सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-रोधी चेन्नई, तमिलनाडु
292. श्री बी. परमाशिवन, उप पुलिस अधीक्षक, एसआईयू कोयम्बटूर, तमिलनाडु
293. श्री सुब्रमणियम मरुगेशन, पुलिस निरीक्षक, कोदुमुदि पुलिस थाना इरोड जिला, तमिलनाडु
294. श्री एस. कृष्णामुर्ति, पुलिस निरीक्षक, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-रोधी विल्लुपुरम, तमिलनाडु
295. श्री पी. पेरियासामी, पुलिस निरीक्षक एमटीओ, तमिलनाडु विशेष पुलिस XIVवीं बटालियन पलानी, तमिलनाडु
296. श्री एम. वास्करन, तकनीकी पुलिस निरीक्षक, पुलिस दूरसंचार शाखा चेन्नई, तमिलनाडु
297. श्री टी.आर. केशवरम, विशेष पुलिस उपनिरीक्षक, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-रोधी रामनाथपुरम, तमिलनाडु
298. श्री येरवति श्रीनिवास राव, कमांडेंट, 7वीं बटालियन, टीएसएसपी, निजामाबाद डिचपल्ली, तेलंगाना
299. श्री चिंताकुन्ताला नरोत्तम रेड्डी, अपर पुलिस अधीक्षक, वी एवं ई अधिकारी का क्षेत्रीय कार्यालय, रामाचन्द्रपुरम, मेडक, तेलंगाना
300. श्री कृष्णा स्वामी नटाराजन बालाजी, सहायक कमांडेंट, 15वीं बटालियन, टीएसएसपी, सत्तुपल्ली खम्मम, तेलंगाना
301. श्री पोथारलंका मुरली कृष्णा, सहायक पुलिस अधीक्षक, एसआईबी, हैदराबाद, तेलंगाना
302. श्री शेख मोहम्मद निजामुद्दीन, सहायक पुलिस आयुक्त, पासपोर्ट वेरिफिकेशन सेल, हैदराबाद, तेलंगाना
303. श्री अमगोथ बालाकोटी, उप पुलिस अधीक्षक, गडवाल, महबुबनगर, तेलंगाना
304. श्री अंगारा वेंकाटा सत्यानारायन, एसबी निरीक्षक, साइबराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना
305. श्री धालाधुल वीरानागय्या, सहायक उपनिरीक्षक आसूचना, हैदराबाद, तेलंगाना
306. श्री वी.पांडुरंगा राव, सहायक उपनिरीक्षक 3000, सीआई सेल, हैदराबाद, तेलंगाना
307. श्री मोहम्मद अब्दुल नईम, हेड कांस्टेबल 448, 01 बटालियन टीएसएसपी, हैदराबाद, तेलंगाना
308. श्री दोमकोन्द बालाकृष्णा, एससी 340, आसूचना, हैदराबाद, तेलंगाना
309. श्री कृष्णनकुट्टी विजयम श्रीजेश, उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) एवं (सीआईडी), अग्रताला, त्रिपुरा-799001, त्रिपुरा

310. श्री संधिराम देबवर्मा, सुबेदार (जीडी), 7वीं बटालियन टीएसआर (आईआर-VI) मुख्यालय, संगकुम्बारी, जम्पुईजाला सेपाहिजाला, त्रिपुरा-799102, टीएसआर जम्पुईजाला, त्रिपुरा
311. श्री गेन्दनलाल ग्वारी, सुबेदार (जीडी), सुबाषनगर, कंचनपुर, उत्तर त्रिपुरा-799270
312. श्री नारायण चन्द्र घोष, उपनिरीक्षक, उदयपुर एस बी कैंप, अगरतला पश्चिम, त्रिपुरा-799001
313. श्री फानि भूषण दास, उप पुलिस अधीक्षक (टीपीएस)जीआर-II, विश्रामगंज, त्रिपुरा-799102
314. श्री शांति भूषण भूईया, निरीक्षक, कल्याणपुर पुलिस थाना, खोवाई, त्रिपुरा-799203
315. श्री निलाब्जा चौधरी, उपमहानिरीक्षक रेंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश
316. श्री अरुण कुमार गुप्ता, उपमहानिरीक्षक आईएनटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
317. श्री प्रेम नारायण, उपमहानिरीक्षक, सीबी, सीआईडी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
318. श्री विजय कुमार गौतम, अपर पुलिस अधीक्षक, बरेली, उत्तर प्रदेश
319. श्री मिर्जा मंजर बेग, अपर पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
320. श्री राहुल राज, अपर पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश
321. श्री शफीक अहमद, अपर पुलिस अधीक्षक, बारबंकी, उत्तर प्रदेश
322. श्री राधे श्याम, अपर पुलिस अधीक्षक, सीबी सीआईडी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
323. डॉ. धर्मवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
324. श्रीमती कल्पना सक्सेना, अपर पुलिस अधीक्षक, पीएसी 41वीं बटालियन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
325. श्री अशोक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
326. श्री राधे मोहन भारद्वाज, अपर पुलिस अधीक्षक, कासगंज, उत्तर प्रदेश
327. श्री शिव नारायण, उप पुलिस अधीक्षक, बस्ती, उत्तर प्रदेश
328. श्री दत्तेल सिंह गर्ब्यवाल, उप पुलिस अधीक्षक, एटा, उत्तर प्रदेश
329. श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, उप पुलिस अधीक्षक, जीआरपी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
330. श्री वीरभान सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, एलआईयू, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
331. श्री देवेन्द्र नाथ शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
332. श्री सोमदत्त शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
333. श्री विजय कुमार तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
334. श्रीमती राकेश बाला त्यागी, उप पुलिस अधीक्षक/जेडओ आईएनटी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
335. श्री कल्याण सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, झांसी, उत्तर प्रदेश
336. श्री अजय कुमार कुलश्रेष्ठ, उप पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश
337. श्री पुतान सिंह, निरीक्षक, एसआईटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
338. श्री इरशाद अहमद, कम्पनी कमांडर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
339. श्री फूल चन्द्र यादव, रिजर्व निरीक्षक, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश
340. श्री हरिश चन्द्र यादव, कम्पनी कमांडर, 34वीं बटालियन पीएसी, वराणसी, उत्तर प्रदेश
341. श्रीमती सावित्री यादव, निरीक्षक आईएनटी मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
342. श्री नजमुल हसन, रिजर्व निरीक्षक, हरदोई, उत्तर प्रदेश
343. श्री अवध सिंह, क्वार्टर मास्टर, 49वीं बटालियन पीएसी, जी बी नगर, उत्तर प्रदेश
344. श्री फणीन्द्र नाथ राय, निरीक्षक सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

345. श्री रमेश कुमार, प्लाटून कमांडर, 35वीं बटालियन पीएसी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
346. श्री भगवती चरण बुधौलिया, उपनिरीक्षक, रेडियो मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
347. श्री अमर बहादुर सिंह, उपनिरीक्षक (एपी), 35वीं बटालियन पीएसी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
348. श्री सत्यपाल सिंह राघव, उपनिरीक्षक एचयू, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
349. श्री ब्राह्मदादीन, प्लाटून कमांडर, 33वीं बटालियन पीएसी, झांसी, उत्तर प्रदेश
350. श्री शिव नारायण राय, उपनिरीक्षक, एपी, भदोई, उत्तर प्रदेश
351. श्री श्रीराम, हेड कांस्टेबल, आईएनटी मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
352. श्री सचिदानंद मिश्र, हेड कांस्टेबल, सीबी सीआईडी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
353. श्री छोटा सिंह, हेड कांस्टेबल, 6वीं बटालियन पीएसी, मेरठ, उत्तर प्रदेश
354. श्री राम दरश सिंह, हेड कांस्टेबल, 36वीं बटालियन पीएसी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
355. श्री बैरम सिंह, हेड कांस्टेबल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
356. श्री बृज भूषण राय, हेड कांस्टेबल, जिला-सोनभद्र, उत्तर प्रदेश
357. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, हेड कांस्टेबल, रेडियो मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
358. श्री हीरा लाल, हेड कांस्टेबल, जिला-सीतापुर, उत्तर प्रदेश
359. श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, हेड कांस्टेबल, रेडियो मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
360. श्री विरेन्द्र राय, हेड कांस्टेबल, 48वीं बटालियन पीएसी, एसबीआर, उत्तर प्रदेश
361. श्री सुर्याबक्श सिंह, हेड कांस्टेबल, 12वीं बटालियन पीएसी, एफएचआर, उत्तर प्रदेश
362. श्री तेज नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल, विशेष जांच, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
363. श्री रमेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल, जिला-कौशम्भी, उत्तर प्रदेश
364. श्री संग्राम सिंह यादव, हेड कांस्टेबल, 48वीं बटालियन पीएसी, एसबीआर, उत्तर प्रदेश
365. श्री दुष्यंत, हेड कांस्टेबल (एमटी), जिला-बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
366. श्री राजेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल, 43वीं बटालियन पीएसी, एटा, उत्तर प्रदेश
367. श्री अमरनाथ वर्मा, हेड कांस्टेबल, 35वीं बटालियन पीएसी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
368. श्री विजय प्रताप यादव, हेड कांस्टेबल, जिला- बलरामपुर, उत्तर प्रदेश
369. श्री हनुमंत सिंह, कांस्टेबल (झाड़वर), जिला-रायबरेली, उत्तर प्रदेश
370. श्री राजेश कुमार शर्मा, कांस्टेबल, जिला-अमरोहा, उत्तर प्रदेश
371. श्री सुरेश चन्द्र, कांस्टेबल (झाड़वर), एसटीएफ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
372. श्री मुद्दु यादव, कांस्टेबल, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
373. श्री अमृत लाल, कांस्टेबल, जिला-कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश
374. श्री नाहर सिंह पाल, कांस्टेबल, जिला-कन्नौज, उत्तर प्रदेश
375. श्री राम दयाल उपाध्याय, कांस्टेबल, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
376. श्री रामानंद मिश्रा, कांस्टेबल, जिला-संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश
377. श्री वेद प्रकाश शुक्ला, कांस्टेबल, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश
378. श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, कांस्टेबल, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
379. श्री अमर बहादुर सिंह, कांस्टेबल, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश



380. श्री लालता प्रसाद, कांस्टेबल, जिला-रामपुर, उत्तर प्रदेश
381. श्रीमती गुलाबकली, कांस्टेबल, जिला-महोबा, उत्तर प्रदेश
382. श्री विनय कुमार राय, कांस्टेबल, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
383. श्री किशोर सिन्हा, उपनिरीक्षक (एम), यूपी सतर्कता, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
384. श्रीमती मिथलेश सिंह, निरीक्षक (एम), पीएचक्यू, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
385. श्री महेश कुमार पंत, निरीक्षक (एम)/सीए, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
386. श्री विनोद कुमार तिवारी, निरीक्षक (एम), पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
387. श्री इन्द्रपाल, निरीक्षक (एम)/सीए, तकनीकी सेवा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
388. श्री देवेन्द्र सिंह रावत, पुलिस उपाधीक्षक, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड
389. श्री भूपाल सिंह रावत, पुलिस उपाधीक्षक, जोनल अधिकारी उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड
390. श्री केशव राम टम्टा, उपनिरीक्षक एमटी, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखंड-248001
391. श्री नारायण दत्त, पीसी (वीएस), 31वीं बटा. पीएसी, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड
392. श्री देवेन्द्र लाल, उपनिरीक्षक (वीएस)एपी, पुलिस मुख्यालय, देहरादून उत्तराखंड-248001
393. श्री महेन्द्र सिंह पूनिया, पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) पश्चिम बंगाल, पुलिस निदेशालय, भवानी भवन, अलीपुर, कोलकाता-700027, पश्चिम बंगाल
394. श्री कल्याण कुमार मल्लिक, विशेष महानिरीक्षक एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रवर्तन शाखा, भवानी भवन, अलीपुर कोलकाता, पश्चिम बंगाल
395. श्री आनंद कुमार, विशेष महानिरीक्षक एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) पश्चिम बंगाल, डब्ल्यूबीपीडी भवानी भवन, अलीपुर कोलकाता-27, पश्चिम बंगाल
396. श्री त्रिपुरारी अथर्व, विशेष महानिरीक्षक एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, ऑमर्ड पुलिस, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल
397. श्री सुब्रत कुमार मित्रा, पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रेसिडेन्सी रेंज, भवानी भवन अलीपुर कोलकाता-27, पश्चिम बंगाल
398. श्री राजीव गंगोपाध्याय, सहायक पुलिस आयुक्त, कम्बैट बटालियन पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल
399. श्री काजी अब्दुल कादेर, सहायक पुलिस आयुक्त, केन्द्रीय डिविजन कोलकाता, पश्चिम बंगाल
400. श्री बोधायन राय, सहायक पुलिस आयुक्त, पोर्ट डिविजन कोलकाता, पश्चिम बंगाल
401. श्री सुब्रत महटाचार्य, पुलिस निरीक्षक, बल मुख्यालय लाल बाजार कोलकाता, पश्चिम बंगाल
402. श्री शुभेन्दु बारीक, पुलिस निरीक्षक, दक्षिण डिविजन, 34, पार्कस्ट्रीट, कोलकाता-16, पश्चिम बंगाल
403. श्री सुदर्शन दास, पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा कोलकाता, पश्चिम बंगाल
404. श्रीमती बकुल रानी मित्रा, पुलिस निरीक्षक, गुप्तचर विभाग, 18 लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
405. श्री देवदुलाल घोष, पुलिस उपनिरीक्षक, आईबी पश्चिम बंगाल, 13 लॉर्डसिन्हा रोड कोलकाता-700071, पश्चिम बंगाल
406. श्री किंकर चक्रवर्ती, पुलिस उपनिरीक्षक (एबी), केएमडीए बिल्डिंग नियर हावड़ा रेलवे स्टेशन, कोलकाता बस स्टैंड (सबवे गेट नं.5), हावड़ा-711106, पश्चिम बंगाल
407. श्री महम्मद गुलाम हुसैन, पुलिस उपनिरीक्षक, पोर्ट डिविजन कोलकाता, पश्चिम बंगाल
408. श्री तापस कुमार दुबे, पुलिस उपनिरीक्षक, दुर्गापुर ईएफ लाइन, आसनसोल, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
409. श्री परिक्षित मंडल, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक, आसनसोल ट्रैफिक गार्ड आसनसोल दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
410. श्री सनम कुमार थापा, हवलदार, ईएफआर 2 बटालियन, डाकघर, सालुवा, पीएसएच, एमडीपी, पश्चिम बंगाल
411. श्री प्रदीप सरकार, पुलिस ड्राइवर, बेतार शाखा कोलकाता, पश्चिम बंगाल

412. श्री नीलाद्री सरकार, कांस्टेबल, डीडी सिलीगुड़ी, डीजेजी-734001, पश्चिम बंगाल
413. श्री राम गोपाल, उप पुलिस/ट्रैफिक, सुरक्षा और ट्रैफिक लाइन, सेक्टर 29, चंडीगढ़
414. श्री रघुवीर सिंह गिल, हेड कांस्टेबल, सहायक न्यायालय परिवेय अधिकारी पुलिस मुख्यालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़
415. श्री बिक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल, सीआईडी चंडीगढ़-160009 पुलिस मुख्यालय, सेक्टर19, चंडीगढ़
416. श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा, दादरा एवं नगर हवेली
417. श्री अनिल धर्मशी वाजा, हेड कांस्टेबल, दमण, दमण एवं द्वीव
418. श्री एस वेंकेटासामी, पुलिस अधीक्षक (सीआईडी), ओ/ओ पुलिस महानिरीक्षक, पुडुचेरी
419. श्री चिंता कोडंडा राम, पुलिस निरीक्षक, ग्रांड बाजार पुलिस थाना, ओ/ओ पुलिस महानिरीक्षक, पुडुचेरी
420. श्री अनिल कुमार सिंह, वारंट अधिकारी (जीडी), मुख्यालय आईजीएआर (उत्तर), कोहिमा, नागालैंड, असम राइफल्स
421. श्री धीरेन्द्र सिंह, सुबेदार मेजर (लिपिक), मुख्यालय 6 सेक्टर, दिमापुर नागालैंड, असम राइफल
422. श्री बालवीर राणा, वारंट अधिकारी, 5, जुनहेबोटो, नागालैंड, असम राइफल्स
423. श्री जगदीशसिंह, हवलदार (जीडी), 32, दिमापुर, नागालैंड, असम राइफल्स
424. श्री केदार सिंह, सुबेदार (जीडी), अगरतला, त्रिपुरा, असम राइफल्स
425. श्री कृष्णा बहादुर साही, सुबेदार (जीडी), 39, आइजोल, मिजोरम, असम राइफल्स
426. श्री लक्ष्म सिंह, सुबेदार (जीडी), 2 असम राइफल, मणिपुर-932002, असम राइफल्स
427. श्री वाई. काटोवी सेमा, नायब सुबेदार (जीडी), 34, मुलहोइची, मणिपुर, असम राइफल्स
428. श्री महिमान सिंह, नायब सुबेदार (जीडी), 42, असम राइफल, जयरामपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम राइफल्स
429. श्री वासुदेवन विजयन, नायब सुबेदार (लिपिक), मुख्यालय डीजीएआर, शिलांग, मेघालय, असम राइफल्स
430. श्री गणेश कुमार जासु, अधीक्षक, डीजीएआर मुख्यालय, शिलांग, मेघालय, असम राइफल्स
431. श्री मोहन दास पी., नायब सुबेदार (लिपिक), डीजीएआर मुख्यालय, शिलांग, मेघालय, असम राइफल्स
432. श्री रंजीत कुमार आचारी, द्वितीय-कमान-अधिकारी, डीजीएआर मुख्यालय, शिलांग, मेघालय, असम राइफल्स
433. डॉ. कौशल किशोर, उपमहानिरीक्षक (मेडिकल)/एमएस, सीएच बीएसएफ, आइजोल, मिजोरम, सीमा सुरक्षा बल
434. श्री इन्द्र कुमार मेहता, कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर, ग्वालियर (एमपी)-475005, सीमा सुरक्षा बल
435. श्री सिंधु कुमार, कमांडेंट, 14 बटालियन बीएसएफ, खासियामंगल, तेलियामुडा, त्रिपुरा, सीमा सुरक्षा बल
436. श्री इंद्र प्रकाश भाटिया, कमांडेंट (अब उपमहानिरीक्षक), 132 बटालियन बीएसएफ, माधोपुर, पठानकोट, पंजाब, सीमा सुरक्षा बल
437. श्री राजीव कुमार दुआ, कमांडेंट, मुख्यालय महानिदेशक बीएसएफ, प्रशासन निदेशालय, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003, सीमा सुरक्षा बल
438. श्री अनिल कुमार ठाकुर, कमांडेंट, 181 बटालियन बीएसएफ, पुराना एयर फिल्ड, तुरियाल, आइजोल, मिजोरम, सीमा सुरक्षा बल
439. श्री संदीप कुमार सिन्हा, कमांडेंट, 115 बटालियन बीएसएफ, दातैवाडा, जिला-बानासकांठा, गुजरात, सीमा सुरक्षा बल
440. श्री अजीत सिंह, उप कमांडेंट, 81 बटालियन बीएसएफ, सीमानगर, जिला-नादिया, (पश्चिम बंगाल), सीमा सुरक्षा बल
441. श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, उप कमांडेंट, 168 बटालियन बीएसएफ, गोकुलनगर, डाकघर-विशालगढ़, त्रिपुरा, सीमा सुरक्षा बल
442. श्री जॉर्ज जे टिकी, उप कमांडेंट, 09 बटालियन बीएसएफ, सांबा (जे एंड के)-184121, सीमा सुरक्षा बल
443. श्री ओम प्रकाश चाहर, उप कमांडेंट, 112 बटालियन बीएसएफ, श्रीकरणपुर, जिला-श्रीगंगानगर (राज.), सीमा सुरक्षा बल
444. श्री राम अवतार सिंह, उप कमांडेंट, 52 बटालियन बीएसएफ, रायसिंहनगर, (राजस्थान)-335057, सीमा सुरक्षा बल
445. श्री अमल कुमार साहा, उप कमांडेंट, 144 बटालियन बीएसएफ, काल्यानी, जिला-नादिया, पश्चिम बंगाल, सीमा सुरक्षा बल

446. श्री अरुण कुमार पाण्डेय, उप कमांडेंट, 90 बटालियन बीएसएफ, अबोहर, जिला-फाजिल्का, पंजाब, सीमा सुरक्षा बल
447. श्री अवनीन्द्र कुमार यादव, उप कमांडेंट, 83 बटालियन बीएसएफ, रोशनबाग, जिला-मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल), सीमा सुरक्षा बल
448. श्री दर्शन सिंह, उप कमांडेंट, 154 बटालियन बीएसएफ, खासा, जिला-अमृतसर, पंजाब, सीमा सुरक्षा बल
449. श्री महेश चन्द, सहायक कमांडेंट (जीडी), 19 बटालियन बीएसएफ, मौपट, शिलांग, मेघालय-793012, सीमा सुरक्षा बल
450. श्रीमती सुशील गिरधर, वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्यालय महानिदेशक बीएसएफ, नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल
451. श्री विजय सिंह चौहान, सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय), सेक्टर मुख्यालय बीएसएफ बाडमेर, राजस्थान, सीमा सुरक्षा बल
452. श्री पृथीपाल सिंह सन्धु, सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय), फ्रंटियर मुख्यालय बीएसएफ जालंधर, पंजाब, सीमा सुरक्षा बल
453. श्री पुखाराम बिश्नोई, सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय), फ्रंटियर मुख्यालय बीएसएफ कश्मीर, सीमा सुरक्षा बल
454. श्री महेन्द्र सिंह, निरीक्षक, 110 बटालियन बीएसएफ, जवाहरनगर, त्रिपुरा, सीमा सुरक्षा बल
455. श्री सुमेर सिंह, निरीक्षक (जीडी), 99 बटालियन बीएसएफ मेलतेराम, लुंगलेई, सीमा सुरक्षा बल
456. श्री खुशकरण सिंह, निरीक्षक (जीडी), 70 बटालियन बीएसएफ, अजनाला, पंजाब, सीमा सुरक्षा बल
457. श्री सुरेन्द्र बहादुर गुरूंग, निरीक्षक (बैण्ड), टीसीएंडएस बीएसएफ हजारीबाग, झारखंड, सीमा सुरक्षा बल
458. श्री शम्भु सिंह, निरीक्षक (जीडी), सहायक प्रशिक्षण केंद्र बीएसएफ बैंगलूरु, सीमा सुरक्षा बल
459. श्री कृष्णा बिरुआ, निरीक्षक, 74 बटालियन बीएसएफ, नालकाटा, त्रिपुरा, सीमा सुरक्षा बल
460. श्री पुरण सिंह, निरीक्षक (जीडी), 48 बटालियन बीएसएफ, खासिमंगल, त्रिपुरा, सीमा सुरक्षा बल
461. श्री जय सिंह सहारन, निरीक्षक (अनुसचिवीय), सहायक प्रशिक्षण केंद्र बीएसएफ उधमपुर, सीमा सुरक्षा बल
462. श्री अरुनेश कुमार शर्मा, निरीक्षक (अनुसचिवीय), 126 बटालियन बीएसएफ, पैंथी, सांबा, (जे एंड के), सीमा सुरक्षा बल
463. श्री संगप्पा अब्याल, निरीक्षक (अनुसचिवीय), सहायक प्रशिक्षण केंद्र बीएसएफ बैंगलूरु, सीमा सुरक्षा बल
464. श्री राज सिंह राठी, निरीक्षक (साइफर), सेक्टर मुख्यालय बीएसएफ किशनगंज, बिहार, सीमा सुरक्षा बल
465. श्री बालाचन्द्रन पी एस, निरीक्षक (साइफर), सेक्टर मुख्यालय बीएसएफ पानीसागर, त्रिपुरा, सीमा सुरक्षा बल
466. श्री तपन कुमार दास, उपनिरीक्षक (जीडी), 9 बटालियन बीएसएफ, सांबा (जे एंड के), सीमा सुरक्षा बल
467. श्री फूल सिंह, उपनिरीक्षक (जीडी), 192 बटालियन बीएसएफ, आर एस पुरा, जम्मू, सीमा सुरक्षा बल
468. श्री प्रेम राम, उपनिरीक्षक (जीडी), 191 बटालियन बीएसएफ, खेमकरण, पंजाब, सीमा सुरक्षा बल
469. श्री दया राम, उपनिरीक्षक (जीडी), 120 बटालियन बीएसएफ, किट्टामपलयाम, कोयम्बतूर (तमिलनाडु), सीमा सुरक्षा बल
470. श्री होशियार सिंह, उपनिरीक्षक (जीडी), 90 बटालियन बीएसएफ, अबोहर (पंजाब), सीमा सुरक्षा बल
471. श्री पाल सिंह, उपनिरीक्षक (जीडी), 70 बटालियन बीएसएफ, अजनाला, पंजाब, सीमा सुरक्षा बल
472. श्री ललन प्रसाद राय, उपनिरीक्षक (जीडी), टीसी एंड एस बीएसएफ हजारीबाग (झारखंड), सीमा सुरक्षा बल
473. श्री रघुवीर सिंह, उपनिरीक्षक (रेडियो मेकेनिक), फ्रंटियर मुख्यालय बीएसएफ, जम्मू, सीमा सुरक्षा बल
474. श्री कंचन कुमार पटंटी, उपनिरीक्षक (साइफर), 53 बटालियन बीएसएफ, मासिमपुर, असम, सीमा सुरक्षा बल
475. श्री जगराज सिंह, उपनिरीक्षक (ऑटो इलेक्ट्रिसियन), सेक्टर मुख्यालय बीएसएफ गुरदासपुर (पंजाब), सीमा सुरक्षा बल
476. श्री स्वपन कुमार चक्रवर्ती, हेड कांस्टेबल (जीडी), 71 बटालियन बीएसएफ, पानवाडी, असम, सीमा सुरक्षा बल
477. श्री हरबंध सिंह रावत, कांस्टेबल (दफ्तरी), सेक्टर मुख्यालय बीएसएफ बांदिपुर, जे एंड के सीमा सुरक्षा बल
478. श्री श्रीराम, कांस्टेबल (रसोईया), 38 बटालियन बीएसएफ, तंगधार, कुपवाडा (जे एंड के), सीमा सुरक्षा बल
479. श्री अश्वनी कुमार चन्द, उपमहानिरीक्षक, एसी । दिल्ली, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
480. श्री नवज्योति गोगोई, उपमहानिरीक्षक, गुवहाटी, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो

481. श्री सुभाष रामरूप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, एससीबी मुंबई, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
482. श्री नागेश मुरलीधर परब, उप पुलिस अधीक्षक, सीबीआई एसयू मुंबई, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
483. श्री सुरेन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, ईओ II, सीबीआई, नई दिल्ली, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
484. श्री नीरज अग्रवाल, उप पुलिस अधीक्षक, बीएस एवं एफसी मुंबई, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
485. श्री अतुल हजेला, उप पुलिस अधीक्षक, एसबी, सीबीआई, नई दिल्ली, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
486. श्री संजय कुमार ढल, उप पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, सीबीआई, नई दिल्ली, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
487. श्री लोवर्सन कुरुविला, उप पुलिस अधीक्षक, एसबी चेन्नई, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
488. श्री महर्षि रे हाजांग, उप पुलिस अधीक्षक, एसबी, सीबीआई, गुवाहाटी, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
489. श्री अरविन्द दादाजी मोरे, निरीक्षक, एसबी, सीबीआई, नागपुर, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
490. श्री सुभाष चन्द्र, निरीक्षक, एसबी, सीबीआई, चंडीगढ़, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
491. श्री तेज प्रकाश देवरानी, निरीक्षक, एसबी, सीबीआई, देहरादून, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
492. श्री संजय शर्मा, पुलिस निरीक्षक, एसबी III, सीबीआई, नई दिल्ली, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
493. श्रीमती गीता पाल, सहायक उपनिरीक्षक, ईओ III, सीबीआई, नई दिल्ली, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
494. श्री कुलजीत सिंह, हेड कांस्टेबल, सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
495. श्री बानी सिंह, कांस्टेबल, सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
496. श्री संदीप कुमार शर्मा, कांस्टेबल, एससी II, सीबीआई, नई दिल्ली, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
497. श्री सतनारायन, कांस्टेबल, एससी I, सीबीआई, नई दिल्ली, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
498. श्री देवाशीष बोस, आशुलिपिक जीआर II, सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
499. श्री निमाई चन्द्र मंडल, हेड कांस्टेबल, एससीबी, सीबीआई, कोलकाता, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
500. श्री रमेश चन्द्र, हेड कांस्टेबल, सूचना अनुभाग, सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
501. श्री राजशेकरा टी, निरीक्षक, एससीबी, सीबीआई, बंगलूरु, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
502. श्री आईकोडन बालाकृष्णन, हेड कांस्टेबल, एससीबी, सीबीआई, गोवा, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
503. श्री गौतम चन्द्र दास, हेड कांस्टेबल, एससीबी, सीबीआई, बीबीएसआर, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो
504. श्रीमती वितसोनेन्यू खामो, उपमहानिरीक्षक, सीआईएसएफ आरटीसी आराकोनम, तमिलनाडु, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
505. श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ कमांडेंट, सीआईएसएफ यूनिट जयपुर एयरपोर्ट राजस्थान, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
506. श्री हरजिन्दर सिंह, कमांडेंट लोकल रैंक, सीआईएसएफ VII आरबी किशतवाडा जे एंड के, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
507. श्री संजय कुमार, सहायक कमांडेंट, सीआईएसएफ यूनिट एनएनपी मैसूर, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
508. श्री परमजीत सिंह, सहायक कमांडेंट, सीआईएसएफ जोनल वर्कशाप गाजियाबाद, यूपी, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
509. श्री महेश प्रसाद मिश्रा, सहायक कमांडेंट जेएओ, सीआईएसएफ 3 आरबी भिलाई, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
510. श्री गौतम हजरा, कार्यकारी निरीक्षक, सीआईएसएफ एनइएस मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
511. श्री विश्वाजीत घोष, कार्यकारी निरीक्षक, सीआईएसएफ एनईजेड मुख्यालय कोलकाता प.बं., केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
512. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, निरीक्षक अनुसचिवीय, सीआईएसएफ VII आरबी किशतवाडा, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
513. श्री एस वेकटसन, उप निरीक्षक अनुसचिवीय, सीआईएसएफ डीओएस मुख्यालय बंगलूरु, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
514. श्रीमती सिप्रा अचार्जी, उपनिरीक्षक अनुसचिवीय, सीआईएसएफ यूनिट डीएसपी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

515. श्री के वडिवलागन, सहायक उपनिरीक्षक, सीआईएसएफ यूनिट इलेक्ट्रानिक शहर बेंगलूरु, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
516. श्री टी एच अर्जुनन, सहायक उपनिरीक्षक, सीआईएसएफ यूनिट एनएलसी नैवेली, तमिलनाडु, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
517. श्री इन्द्र नारायण, सहायक उपनिरीक्षक, सीआईएसएफ यूनिट नई दिल्ली एयरपोर्ट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
518. श्री प्रमोद कुमार अवस्थी, सहायक उपनिरीक्षक, सीआईएसएफ यूनिट बीएसपी भिलाई, छत्तीसगढ़, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
519. श्री परस राम, सहायक उपनिरीक्षक, सीआईएसएफ यूनिट डीएमआरसी दिल्ली, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
520. श्रीमती शिनी डोमिनिक, सहायक उपनिरीक्षक, सीआईएसएफ यूनिट ओएनजीसी नाजिरा, असम, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
521. श्री के शशि कुमार, हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ यूनिट एलपीएससी वालियामाला, केरल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
522. श्री नर्मदा प्रसाद गौड, हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ यूनिट ओएनजीसी अहमदाबाद, (गुजरात), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
523. श्री दीप्ति रंजन महापात्रा, हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ यूनिट वीपीटी विशाखापतनाम, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
524. श्री एस राजशेखरन, हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ यूनिट चेन्नई एयरपोर्ट, तमिलनाडु, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
525. श्री भूपेन्द्र मिश्रा, हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ यूनिट पुणे एयरपोर्ट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
526. श्री जगदीश प्रसाद, हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ यूनिट जयपुर एयरपोर्ट, राजस्थान, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
527. डॉ. (श्रीमती) वनिता मूर्ति, कमांडेंट सीएमओ एसजी, कम्पोजिट अस्पताल, जीसी कैम्पस, अवादी, चेन्नई-65, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
528. श्री शंकर दत्त पाण्डेय, कमांडेंट, 2 सिगनल बटालियन, डाकघर-कशोगिरी, हैदराबाद (तेलांगना)-500005, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
529. श्री सुशील कुमार मिश्रा, कमांडेंट, 70 बटालियन, बवाना दिल्ली-110039, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
530. श्री विनय कुमार सिंह, कमांडेंट, आरटीसी, राजगीर विस्तार जीसी, मोकामाघाट, बिहार-803303, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
531. श्री प्रवीण कुमार सिंह, कमांडेंट, 122 बटालियन, छत्तारपुर मेहरोली, अंधेरिया मोड, नई दिल्ली-110030, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
532. श्री मानस रंजन, कमांडेंट, महानिदेशक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-03, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
533. श्री दलविन्दर सिंह ग्रेवाल, कमांडेंट, 181 बटालियन, सीआरपीएफ, राडार स्टेशन, (कारार-1-शारिफ), बड़गाम (जे एंड के)-191112, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
534. श्री पंकज कुमार, कमांडेंट, 11 बटालियन, नई ब्लॉक कॉलोनी, लाथर (झारखंड)- 829206, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
535. श्री राजेन्द्र प्रसाद, कमांडेंट, महानिदेशक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-03, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
536. श्री जाकिर हसन खान, द्वितीय कमान अधिकारी, 117 बटालियन, होटल शेहजार, वजीरबाग, श्रीनगर (जे एंड के)-190008, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
537. श्री मुकेश कुमार त्यागी, द्वितीय कमान अधिकारी, ओ/ओ उपमहानिरीक्षक, सीआरपीएफ, रेंज रंगकोटा जेटीसी नगरोटा, जम्मू, जे एंड के-181221, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
538. श्री स्वर्ण सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी, ओ/ओ महानिरीक्षक, जम्मू सेक्शन, बनतलाब, जम्मू, (जे एंड के)-181123, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
539. श्री विजय कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी, ओ/ओ उपमहानिरीक्षक, रेंज सिलीगुडी, पश्चिम बंगाल-734012, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
540. श्री दरबारा सिंह, उप कमांडेंट, ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ, हिमशिखा, पिंजौर, पंचकुला, हरियाणा-134104, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
541. श्री रामेश्वर सिंह, उप कमांडेंट, 16 बटालियन, रांच बंजर, मथुरा, उ.प्र.-281006, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
542. श्री सुन्दर लाल यादव, उप कमांडेंट, 27 बटालियन, बवाना, दिल्ली-110039, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
543. श्री श्याम सिंह, उप कमांडेंट, 116 बटालियन, मामाई, पहलगाम, जे एंड के-192126, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
544. श्री रामाश्रय शुक्ल, उप कमांडेंट, 36 बटालियन, खोन्सा, तीरप (अरुणाचल प्रदेश), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

545. श्री अमन सिंह, सहायक कमांडेंट, ग्रुप सेंटर, काठगोदाम, नैनीताल, यूके, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
546. श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक कमांडेंट, 30 बटालियन, असम, कॉटन मील काम्पलेक्स, चारीदुआर, सोनितपुर तेजपुर, (असम)- 784103, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
547. श्री रविन्द्र सिंह, निरीक्षक/जीडी, ग्रुप सेंटर, सराइखास, करतारपुर, जालंधर, पंजाब- 144805, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
548. श्री शेखरानंद शर्मा, निरीक्षक/जीडी, ग्रुप सेंटर, काठगोदाम, नैनीताल यूके, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
549. श्री जगतार सिंह, निरीक्षक/जीडी, ग्रुप सेंटर, कोताह, जीटीसी नागरोटा, सैनिक स्कूल रोड, जम्मू, जे एंड के- 181221, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
550. श्री गोपाल जी यादव, निरीक्षक/जीडी, ग्रुप सेंटर, मोकामाघाट बिहार- 803303, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
551. श्री वेद प्रकाश, निरीक्षक/जीडी, ग्रुप सेंटर, गुडगांव हरियाणा-122001, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
552. श्री राम प्रकाश, निरीक्षक/जीडी, ग्रुप सेंटर, गुडगांव हरियाणा-122001, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
553. श्री समदर सिंह, निरीक्षक/जीडी, 124 बटालियन, सालबगान, अगरतला, त्रिपुरा-799012, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
554. श्री फारूख अहमद, निरीक्षक/जीडी, 185 बटालियन, त्राल, पुलवामा जे एंड के-919213, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
555. श्री मोहम्मद यूसुफ शाह, निरीक्षक/जीडी, ग्रुप सेंटर, गोविन्द अपार्टमेंट, जीवन विहार कॉलोनी, तलाबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़-492007, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
556. श्री प्रबोध कुमार साहा, निरीक्षक/जीडी, 124 बटालियन, सालबगान, अगरतला, त्रिपुरा-799012, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
557. श्री रमेश कुमार पाण्डे, निरीक्षक/जीडी, 10 बटालियन, बी.टी.सी. होवलाई, बारपेटा, असम-781316, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
558. श्री बलबीर सिंह, निरीक्षक/जीडी, 84 बटालियन, एफसीआई कैंप, चाथा, जम्मू (जे एंड के)- 180009, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
559. श्री प्रेम प्रकाश यादव, निरीक्षक/जीडी, 27 बटालियन, बवाना, दिल्ली- 110039, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
560. श्री आँकार चन्द, निरीक्षक/जीडी, 181 बटालियन, राडार स्टेशन, (चरार-ए-शरीफ) बडगाम, जे एंड के-191112, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
561. श्री दिलीप कुमार महान्ती, निरीक्षक/जीडी, ग्रुप सेंटर, भुवनेश्वर, ओडिशा-751011, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
562. श्री रमेश चन्द, निरीक्षक/जीडी, 177 बटालियन, आईटीआई काम्पलेक्स, अमरगढ़, सोपोर, बारामुला, जे एंड के-933177, मार्फत 56 एपीओ, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
563. श्री राजकुमार, निरीक्षक/जीडी, ग्रुप सेंटर, श्रीनगर जे एंड के-190001, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
564. श्री महादेव तिग्गा, उपनिरीक्षक/जीडी, सीटीसी (टी एवं आईटी), तिरिल आश्रम, रांची झारखंड-834004, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
565. श्री प्रहलाद देव वर्मा, उपनिरीक्षक/जीडी, महानिरीक्षक का कार्यालय, त्रिपुरा सेक्टर, डाकघर- ऊषा बजार, एयरपोर्ट रोड, अगरतला, त्रिपुरा-799009, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
566. श्री बिजय कुमार साहु, उपनिरीक्षक/जीडी, 227 बटालियन, करनपुर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)-494001, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
567. श्री जगमाल सिंह, उपनिरीक्षक/जीडी, 27 बटालियन, बवाना, दिल्ली-110039, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
568. श्री कृष्ण स्वरूप, सहायक उप निरीक्षक/जीडी, 23 बटालियन, करमनगर, श्रीनगर, जे एंड के-190010, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
569. श्री राजू एन.एस. हेड कांस्टेबल/जीडी, ग्रुप सेंटर, पल्लीपुरम, त्रिवेन्द्रम केरल-695316, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
570. श्रीमती सुलोचना के.वी; सहायक उप निरीक्षक/जीडी महिला, रिफूट प्रशिक्षण सेंटर, अरवांचल, प्रिंगोम, कन्नुर, केरल-670307, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
571. श्री भगत सिंह, निरीक्षक/तकनीकी, 1 सिगनल बटालियन, जीसी कैंपस, झड़ौदा कलान, नई दिल्ली-110072, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
572. श्री श्रीनिवास, निरीक्षक/क्राइस्टो, सीआरपीएफ महानिदेशालय, नई दिल्ली-03, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
573. श्री के. कुमार, निरीक्षक/आरओ, 2 सिगनल बटालियन, डाकघर- केशोगिरी, हैदराबाद (तेलंगाना)-500005, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

574. श्री जवाहर प्रसाद, निरीक्षक/आरमोर, केन्द्रीय हथियार स्टोर-III, सिलीगुड़ी, डाकघर-सुशराता नगर, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल-734012, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
575. श्री सुरेन चन्द्र गोगोई, उपनिरीक्षक/बैण्ड, ग्रुप सेंटर, लांजिंग, इंफाल, मणिपुर-795113, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
576. श्री नरपत सिंह, उपनिरीक्षक/एमटी, 67 बटालियन, ग्राउंड, शिलांग मेघालय-793001, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
577. श्री टंकेश्वर ग्यान, उपनिरीक्षक/एमटी, विद्रोह रोधी एवं आतंकवाद रोधी स्कूल, उधारबंद, सिलचर असम, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
578. श्री रणधीर सिंह, उपनिरीक्षक/दर्जी, ग्रुप सेंटर, गांव- खेवरा, डाकघर-बहालगढ, सोनीपत, हरियाणा-131021, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
579. श्री वी. राजन, हेड कांस्टेबल/मोची, ग्रुप सेंटर, तारा, यू जीसी कैंपस, यालंका, बेंगलूरु (कर्नाटक-560064), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
580. श्री लक्ष्मी शंकर, कांस्टेबल/बारबर, ग्रुप सेंटर, अमथियो त्रिसुंदी, डाकघर-रामगंज, अमेठी, उ.प्र.-228159, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
581. श्री राममूर्ति तिवारी, कांस्टेबल/रसोईया, केन्द्रीय प्रशिक्षण कॉलेज, मुडखड, नांदेड़, महाराष्ट्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
582. श्री राजदीन, कांस्टेबल/धोबी, संसदीय इयूटी समूह, कालकाजी, ओखला, फेस-I, नई दिल्ली-110019, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
583. श्री बरूण बंदोपाध्याय, सहायक कमांडेंट/अनुसचिव, ग्रुप सेंटर, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल-734012, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
584. श्री सब्यसाची चट्टोपाध्याय, सहायक कमांडेंट/मंत्रालीय, महानिरीक्षक का कार्यालय, पश्चिमी सेक्टर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र-400614, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
585. श्री जसविन्दर सिंह, संयुक्त उप निदेशक, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
586. श्री वसंत कुमार रोबेन, संयुक्त उप निदेशक/एनपी, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
587. श्री संतोष कृष्णन नायर, सहायक निदेशक, बीओई, कोच्चि, गृह मंत्रालय
588. श्री प्रकाश चन्द्र सावजीभाई सोलंकी, सहायक निदेशक, एसआईबी, अहमदाबाद, गृह मंत्रालय
589. श्री अशोक कुमार तंवर, सहायक निदेशक, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
590. श्री रौसांग वाल्टे, सहायक निदेशक, एसआईबी, इंफाल, गृह मंत्रालय
591. श्री रमेश विश्वनाथन, सहायक निदेशक, एसआईबी, चेन्नई, गृह मंत्रालय
592. श्री प्रकाश रामासेषण नेल्लापल्ली, सहायक निदेशक/तकनीकी, एसआईबी, चेन्नई, गृह मंत्रालय
593. श्री राजीव अनंतराव वानखड़े, केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी, एसआईबी, अहमदाबाद, गृह मंत्रालय
594. श्री भारत भूषण गुप्ता, केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी, एसआईबी, भोपाल, गृह मंत्रालय
595. श्री आशुतोष शर्मा, केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी, एसआईबी, मेरठ, गृह मंत्रालय
596. श्री पीयूष रावत, केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
597. श्री राजेश कुमार, केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी, एसआईबी, चंडीगढ़, गृह मंत्रालय
598. श्री कुरुवाडा मुरली मोहन, केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी, एसआईबी, विजयावाड़ा, गृह मंत्रालय
599. श्री हीरा सिंह खाती, केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी, एसआईबी, देहरादून, गृह मंत्रालय
600. श्री अरूण कुमार शुक्ला, केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी, एसआईबी, लखनऊ, गृह मंत्रालय
601. श्री अनूप कटारिया, केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
602. श्री योगेन्द्र पाल सिंह, केन्द्रीय उप आसूचना अधिकारी, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
603. श्री दिनेश कुमार राठी, अनुभाग अधिकारी, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
604. श्री लोकेश कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय

605. श्री विकास नरूला, निजी सचिव, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
606. श्री विजय कुमार नागपाल, निजी सचिव, श्रीनगर, गृह मंत्रालय
607. श्री नवदीप सक्सेना, सहायक अनुभाग अधिकारी, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
608. श्री संजय तलवार, सहायक अनुभाग अधिकारी, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
609. श्री हरेन्द्र दास, कनिष्ठ आसूचना अधिकारी-1/जी, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय
610. श्री बाबू लाल मीणा, कनिष्ठ आसूचना अधिकारी-1/तकनीकी, एसआईबी, जयपुर, गृह मंत्रालय
611. श्री राजेश कुमार पटारिया, उप महानिरीक्षक, आईटीबीपी महानिदेशालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
612. श्री मंथीर एक्का, उपमहानिरीक्षक, आरटीसी किमिन आईटीबीपी, जिला किमिन, अरुणाचल प्रदेश, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
613. श्री संजीव कुमार सिंह, कमांडेंट, 48 बटालियन, आईटीबीपी, सिसिया, जिला कटिहार, बिहार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
614. श्री बनवारी लाल, द्वितीय कमान अधिकारी, आरटीसी शिवगंगई, पदमाथुर, जिला शिवगंगई, तमिलनाडु, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
615. श्री सतविन्द्र सिंह, सहायक कमांडेंट, 15 बटालियन, आईटीबीपी, गढ़ी जिला, उधमपुर, जे एंड के, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
616. श्री भरत सिंह नेगी, सहायक कमांडेंट (कार्यालय), सेक्टर मुख्यालय, देहरादून, आईटीबीपी देहरादून, उत्तराखंड, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
617. श्रीमती रजनी रावत, सहायक कमांडेंट (ईएससी), सेक्टर मुख्यालय ईटानगर जिला ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
618. श्री रमेश चन्द्र, अनुभाग अधिकारी, आईटीबीपी महानिदेशालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
619. श्री किशोरी लाल, निरीक्षक, सीटीसी आईटीबीपी, डाकघर साहडोली, जिला अलवर, राजस्थान, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
620. श्री जयदेव सिंह, निरीक्षक, बीटीसी भानु आईटीबीपी, डाकघर भानु जिला पंचकुला, हरियाणा, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
621. श्री ईश्वर सिंह कुंवर, उपनिरीक्षक, आईटीबीपी महानिदेशालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
622. श्री जयपाल सिंह, सहायक उपनिरीक्षक, 11 बटालियन आईटीबीपी पेगांग, सिक्किम, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
623. श्री मोहसिन शाहेदी, ग्रुप कमांडर, एनएसजी मुख्यालय पालम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद्
624. श्री बहादुर सिंह नेगी, ग्रुप कमांडर, प्रशिक्षण केंद्र, एनएसजी, मानेसर, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद्
625. श्री विरेन्द्र सिंह रावत, टीम कमांडर (एसओ), एनएसजी मुख्यालय, पालम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद्
626. श्री ई. श्रीधर, सहायक कमांडर-1 (मंत्रालीय), एनएसजी मुख्यालय, पालम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद्
627. श्री पी. कलाईयारासन, सहायक कमांडर-1 (मंत्रालीय), एनएसजी मुख्यालय, कैप आर. के. पुरम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद्
628. श्री दलीप सिंह अम्बेश, ग्रुप कमांडर, 11 एसआरजी एनएसजी मानेसर, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद्
629. श्री विकास कुमार अरोरा, उपमहानिरीक्षक, एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, सशस्त्र सीमा बल
630. श्री विनोद कुमार शर्मा, उपमहानिरीक्षक, एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, सशस्त्र सीमा बल
631. श्रीमती सुलेखा दास, क्षेत्र आयोजक, एसएसबी सेक्टर मुख्यालय, पूर्णिया, बिहार, सशस्त्र सीमा बल
632. श्री विजय सिंह जमवाल, उप कमांडेंट, 66 बटालियन एसएसबी (जम्मू), सशस्त्र सीमा बल
633. श्री अजय शर्मा, उप कमांडेंट, एसएसबी, फ्रंटियर मुख्यालय, आर.के. पुरम नई दिल्ली, सशस्त्र सीमा बल
634. श्री धारानी बोरा, सहायक कमांडेंट, 30 बटालियन एसएसबी डिवांग (एपी), सशस्त्र सीमा बल
635. श्री अनिल कुमार ठाकुर, सहायक कमांडेंट, 67 बटालियन एसएसबी, शमसी (एचपी), सशस्त्र सीमा बल



636. श्री जगदीश राम, निरीक्षक (जीडी), प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी कुमारसेन (एचपी), सशस्त्र सीमा बल
637. श्री बलवीर सिंह, उपनिरीक्षक (जीडी), एमटीसी एसएसबी शिमला (एचपी), सशस्त्र सीमा बल
638. श्री अजय कुमार, सहायक उपनिरीक्षक (जीडी), 24 बटालियन एसएसबी केवटी (छत्तीसगढ़), सशस्त्र सीमा बल
639. श्री फू सिरिंग भूटिया, सहायक उपनिरीक्षक (जीडी), सेक्टर मुख्यालय एसएसबी गंगटोक (सिक्किम), सशस्त्र सीमा बल
640. श्री सुरेश चंद्र पंत, उप फील्ड अधिकारी (जी), मुख्यालय फ्रंटियर, एसएसबी. आर. के. पुरम, नई दिल्ली, सशस्त्र सीमा बल
641. श्री धूप सिंह मान, सहायक महानिरीक्षक, विशेष सुरक्षा समूह मुख्यालय, नई दिल्ली, विशेष सुरक्षा समूह
642. श्री सुधांशु सिंह, सहायक महानिरीक्षक, विशेष सुरक्षा समूह मुख्यालय, नई दिल्ली, विशेष सुरक्षा समूह
643. श्री अजय वीर सिंह कलियार, सहायक महानिरीक्षक, विशेष सुरक्षा समूह मुख्यालय, नई दिल्ली, विशेष सुरक्षा समूह
644. श्री अनीश सिरोही, सहायक महानिरीक्षक, नई दिल्ली, विशेष सुरक्षा समूह
645. श्री महेश चन्द्र जोशी, सहायक महानिरीक्षक, विशेष सुरक्षा समूह मुख्यालय, नई दिल्ली, विशेष सुरक्षा समूह
646. श्री आनंद सिंह, एसओ-1, विशेष सुरक्षा समूह मुख्यालय, नई दिल्ली, विशेष सुरक्षा समूह
647. श्री राजीव कुमार, एसएसए, विशेष सुरक्षा समूह मुख्यालय, नई दिल्ली, विशेष सुरक्षा समूह
648. श्री दिनकर कुमार, एसएसए, विशेष सुरक्षा समूह मुख्यालय, नई दिल्ली, विशेष सुरक्षा समूह
649. श्री बिष्णु बहादुर छेत्री, हेड कांस्टेबल (जीडी), नेपा, उमसाव, उमियम, मेघालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी
650. डॉ. सेल्वाराज कार्तिकेन, सहायक निदेशक, बीपीआर एवं डी, दिल्ली, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
651. श्री रणवीर सिंह गहलोत, उप पुलिस अधीक्षक, सीडीटीएस, जयपुर, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
652. श्री देवज्योति रे, उप निदेशक, एनसीबी, मुख्यालय, नई दिल्ली, एनसीबी
653. श्री संजीव कुमार सक्सेना, उप निदेशक, एनसीआरबी, आर.के.पुरम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
654. श्री संजय चक्रवर्ती, सहायक उपनिरीक्षक (अंगुली छाप), एनसीआरबी, आर.के.पुरम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
655. श्री इंचोडिकारन रेमिजियस कुरिलोस, उप पुलिस अधीक्षक, नई दिल्ली, एनएचआरसी
656. श्री सत्या नंद पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक, एनआईए मुख्यालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय जांच एजेंसी
657. श्री विक्रमन पी. उप पुलिस अधीक्षक, एनआईए कोच्चि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी
658. श्री ब्रज भूषण पाठक, निरीक्षक एनआईए मुख्यालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय जांच एजेंसी
659. श्री सतीश कुमार शास्त्री, द्वितीय कमान अधिकारी, 01 बटालियन, एनडीआरएफ, पटगांव, आजरा, कामरूप, गुवहाटी असम, एनडीआरएफ
660. श्री महाशेर हुसैन, सहायक कमांडेंट, 08 बटालियन, एनडीआरएफ, गाजियाबाद, उ.प्र.-201002, एनडीआरएफ
661. श्री एस. राघवेंद्रा, निरीक्षक मंत्रालय, महानिदेशक एनडीआरएफ मुख्यालय, नई दिल्ली, एनडीआरएफ
662. श्री सुरेश कुमार यादव, निरीक्षक, 07 बटालियन, एनडीआरएफ, भटिंडा, पंजाब, एनडीआरएफ
663. श्री भवानी सिंह राठौर, उपनिरीक्षक, 05 बटालियन एनडीआरएफ सुडुमबार, पुणे महाराष्ट्र, पिन-412109, एनडीआरएफ
664. श्री रविन्द्रा एम.एल, सहायक निदेशक (टीएसी), एसवीपी एनपीए, हैदराबाद, एसवीपी, एनपीए
665. श्री प्रकाश चन्द्र राठौर, निरीक्षक (जीडी), एसवीपी एनपीए, हैदराबाद, एसवीपी, एनपीए
666. श्री एम.आर. रेड्डी, हेड कांस्टेबल, एडीआई, एसवीपी एनपीए, हैदराबाद, एसवीपी, एनपीए
667. श्री मान सिंह थापा, हेड कांस्टेबल (बैण्ड), एसवीपी एनपीए, हैदराबाद एसवीपी, एनपीए
668. श्री रिखी राम, उप निरीक्षक, आईटीबीपी, दिल्ली, गृह मंत्रालय
669. श्री अजय सादानी, अपर मुख्य सुरक्षा आयुक्त, उ.प. रेलवे, जयपुर, रेल मंत्रालय

670. श्री विजय कुमार खातरकर, अपर मुख्य सुरक्षा आयुक्त, उ.प. रेलवे, गोरखपुर, रेल मंत्रालय
671. श्री आर.पी. तोमर, सहायक सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ, आगरा, रेल मंत्रालय
672. श्री फरीद अहमद, निरीक्षक, पूर्वी रेलवे, कोलकाता, रेल मंत्रालय
673. श्री विश्वम्भर नाथ द्विवेदी, निरीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, रेल मंत्रालय
674. श्री बिनोद बिहारी सामन्तरा, उपनिरीक्षक (मंत्रालीय), 10 बटालियन, आरपीएसएफ, धनबाद, रेल मंत्रालय
675. श्री आर. सुरेश, उपनिरीक्षक (मंत्रालीय), 07 बटालियन, आरपीएसएफ, मौल्लालि, रेल मंत्रालय
676. श्री वी. सत्यनारायण, उपनिरीक्षक, सिरपुरकागजनगर, सिकन्दराबाद, रेल मंत्रालय
677. श्री मदन लाल, उपनिरीक्षक, अपराध सेल, जोधपुर, रेल मंत्रालय
678. श्री सुभाशीष गुप्ता, सहायक उपनिरीक्षक, पूर्वी रेलवे, चितरंजन, रेल मंत्रालय
679. श्री राजाराम, सहायक उप निरीक्षक, उत्तर पूर्वी रेलवे, इलाहाबाद, रेल मंत्रालय
680. श्री बाल्मिक प्रसाद पटेल, सहायक उपनिरीक्षक, हबीबगंज, भोपाल, रेल मंत्रालय
681. श्री जयन्त कोले, हेड कांस्टेबल, पूर्वी रेलवे, कोलकाता, रेल मंत्रालय
682. श्री सुरेश महतो, एसडब्ल्यू (जीआर-11), 6 बटालियन, आरपीएसएफ, नई दिल्ली, रेल मंत्रालय
683. श्री संजीव कुमार पटजोशी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन प्रकाश भवन, 11वीं तल 25 कस्तुरबा गांधी रोड, नई दिल्ली, पंचायती राज मंत्रालय

2. ये पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक की मंजूरी को विनियमित करने वाले नियमों के नियम 4(ii) के तहत प्रदान किए जाते हैं।

अ. राय  
विशेष कार्य अधिकारी

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 2016

संकल्प

सं. ई-11011/1/2014-हिंदी—वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने, मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन के फलस्वरूप दिनांक 12.03.2015 के अपने समसंख्यक संकल्प का अधिक्रमण करते हुए मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की संरचना में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब इस समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निम्नानुसार होंगे :

- |    |                     |           |
|----|---------------------|-----------|
| 1. | वस्त्र मंत्री       | अध्यक्ष   |
| 2. | वस्त्र राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

गीता नारायण  
संयुक्त सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2016

No. 103-Pres/2016—The President is pleased to award the President's Police Medal for Distinguished Service on the occasion of the Independence Day, 2016 to the under mentioned officers :—

1. SHRI PATNALA VENKATA RADHA KRISHNA, SUPERINTENDENT OF POLICE, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
2. SHRI B. CHITTI BABU, ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
3. DR. LAJJA RAM BISHNOI, ADGP RAILWAYS AND I/C, IGP (BTAD), ASSAM KOKRAJHAR, GUWAHATI, ASSAM-781007
4. SHRI ABHAY KUMAR UPADHYAY, DG CUM CMD, BPBCC PATNA, BIHAR
5. SHRI SYED RAFAT KAMAL, INSPECTOR, CID, PATNA, BIHAR
6. SHRI TALIAKHUM JOHN LONGKUMER, ADGP, RAIL TRAFFIC PHQ, NAYA RAIPUR, CHHATTISGARH
7. SHRI GIRDHARI SINGH, SI, FRRO, EAST BLOCK-VIII, R K PURAM, SECTOR-1 NEW DELHI-110066, NCT OF DELHI
8. SHRI UMESH GAONKAR, SUPERINTENDENT OF POLICE (NORTH), PORVORIM, GOA
9. SHRI PRAMOD KUMAR, DGP, CID (CRIME & RAILWAY), GANDHINAGAR, GUJARAT
10. SHRI ZABHA SIRAJ, DEPUTY SUPTD OF POLICE, POLICE HQ LUNAWADA, LUNAWADA, DISTT MAHISAGAR, GUJARAT
11. SHRI RAJBIR SINGH DESWAL, INSPECTOR GENERAL OF POLICEY, HARYANA POLICE ACADEMY, MADHUBAN, HARYANA
12. SHRI SHYAM BHAGAT NEGI, ADGP (SV & ACB), SHIMLA, HIMACHAL PRADESH
13. SHRI SYED JAVAID MUJTABA GILLANI, IG (P), KASHMIR, SRINAGAR, JAMMU AND KASHMIR
14. SHRI SURINDER KUMAR GUPTA, DIGP, UDR- REASI RANGE, JAMMU AND KASHMIR
15. SHRI AJAY BHATNAGAR, ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, HQRS JHARKHAND, RANCHI, JHARKHAND
16. SHRI A. S. N MURTHY, IGP, ISD, 60, RICHMOND ROAD, BENGALURU-560025, KARNATAKA
17. SHRI VIJAY KUMAR G DAMBAL, ADDL SP, BALLARI DISTRICT, KARNATAKA
18. DR. SHAIK DARVESH SAHEB, ADGP VIGILANCE, THIRUVANANTHAPURAM, KERALA
19. SHRI RAJESH CHAWLA, ADDL DGP JNPA, SAGAR, MADHYA PRADESH
20. SHRI ASHOK AWASTHI, ADDL DGP SPE LOKAYUKTA SANGATHAN MP, BHOPAL, MADHYA PRADESH
21. SHRI KSHITINDRA PRAKASH KHARE, IGP SAGAR ZONE, SAGAR, MADHYA PRADESH
22. SHRI GHANENDRA SINGH BUNDELA, ASST COMMANDENT RAPTC, INDORE, MADHYA PRADESH
23. SHRI KULWANT KARTARCHAND SARANGAL, ADDL DGP, ADDL DGP AND VILIGENCE OFFICER SALE TAX DEPARTMENT MS MUMBAI, MAHARASHTRA
24. SHRI SANJAY LAXMAN KADAM, ASST COMMISSIONER OF POLICE, BANDRA DIVISION, MUMBAI CITY, MAHARASHTRA
25. SHRI RAMESHWAR MOHAN THORAT, POLICE INSPECTOR, POLICE STATION MIDC WALUJ, AURANGABAD CITY, MAHARASHTRA
26. SHRI ADHIKARIMAYUM GHANASHYAM SHARMA, SDPO, IMPHAL, MANIPUR
27. SHRI L.T. HRANGCHAL, DIG, (NORTHERN RANGE) AIZAWL, MIZORAM

28. SHRI VINAYTOSH MISHRA, IGP (RAILWAYS), CUTTACK, ODISHA, ODISHA
29. SHRI PRASANNA KUMAR DASH, INSPECTOR, CID, CUTTACK, ODISHA
30. SHRI ROHIT CHOUDHARY, ADGP, RAILWAYS, PUNJAB, PATIALA, PUNJAB
31. SHRI KULDEEP SINGH, IGP, PUNJAB ACADEMY, PHILLAUR, PUNJAB
32. SHRI ARPIT SHUKLA, IGP, COMMISSIONER OF POLICE, JALANDHAR., PUNJAB
33. SHRI BHUPENDRA KUMAR DAK, ADGP, ANTI CORRUPTION BUREAU RAJASTHAN JAIPUR, RAJASTHAN
34. SHRI UMESH MISHRA, ADGP, CIVIL RIGHTS RAJASTHAN JAIPUR, RAJASTHAN
35. SHRI KANHU CHARAN MAHALI, ADGP, WELFARE, MYLAPORE, CHENNAI, TAMIL NADU
36. SHRI SU. ARUNACHALAM, ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE, HEADQUARTERS GREATER CHENNAI POLICE, TAMIL NADU
37. SHRI G. SANKAR, SUPERINTENDENT OF POLICE, SPECIAL DIVISION SBCID CHENNAI, TAMIL NADU
38. SHRI RAJIV RATAN, DG FIRE SERVICES, B.R.K. BHAVAN, HYDERABAD, TELANGANA
39. SHRI RAKESH RANJAN, ADGP, POLICE HQ, AGARTALA, TRIPURA-799001
40. SHRI GIRISH PRASAD SHARMA, ADG (FIRE SERVICE HQRS), LUCKNOW, UTTAR PRADESH
41. SHRI ALOK SHARMA, ADG (PTS), MEERUT, UTTAR PRADESH
42. SHRI SATYA PRAKASH SINGH YADAV, DY SP, ALIGARH, UTTAR PRADESH
43. SHRI SHRIRAM ., RADIO SUB INSP, RADIO HQRS LKW, UTTAR PRADESH
44. SHRI HEERA SINGH RAUTHAN, DY SP, PTC NARENDRA NAGAR, UTTARAKHAND-249175
45. SHRI GANGESHWAR SINGH, ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL AND INSPECTOR GENERAL OF POLICE INTELLIGENCE BRANCH WEST BENGAL, LORD SINHA ROAD, KOLKATA, WEST BENGAL
46. SHRI JAYANTA KUMAR BASU, SPECIAL COMMISSIONER OF POLICE (II), 18, LALBAZAR ST KOLKATA-700001, WEST BENGAL
47. SHRI KARNAIL SINGH, INSPECTOR (ORP), PHOTO SECTION POLICE STATION COMPLEX, SECTOR NINGHTEEN, CHANDIGARH
48. SHRI K GUNASEGARAN, SUPERINTENDENT OF POLICE, NORTH SUB DIVISION, KARAİKAL, PUDUCHERRY
49. SHRI ANIL KUMAR, INSPECTOR GENERAL, PROV DTE, FHQ BSF, BORDER SECURITY FORCE
50. SHRI ANIL PALIWAL, INSPECTOR GENERAL, FTR HQ BSF JALANDHAR PUNJAB, BORDER SECURITY FORCE
51. SHRI RAMESH CHANDRA DHYANI, DEPUTY INSPECTOR GENERAL, STC BSF CHAKUR, DISTRICT - LATUR, MAHARASHTRA, BORDER SECURITY FORCE
52. SHRI SANJEEV BHANOT, DEPUTY INSPECTOR GENERAL (PSO), FTR HQ BSF JALANDAHR, PUNJAB, BORDER SECURITY FORCE
53. SHRI HARIOM DAFTARY, DEPUTY COMMANDANT, 57 BN, BSF, PRAHARI NAGAR, TURA, MEGHALAYA, BORDER SECURITY FORCE
54. SHRI RATAN KUMAR, SUB INSPECTOR (GD), SHQ BSF SILCHAR, MASIMPUR, ASSAM, BORDER SECURITY FORCE
55. SHRI HARISH CHANDER SHARMA, SP, ACB JODHPUR, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
56. SHRI BALASUBRAMONY S, ADDITIONAL SP, AIGP II NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

57. SHRI VIJAY KUMAR SHUKLA, DSP, SC II, CBI, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
58. SHRI KRISHNASWAMY KUMARESAN, INSPECTOR OF POLICE, EOW, CBI, CHENNAI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
59. SHRI RAWEL SINGH, ASI, CBI SU NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
60. SHRI SAMIR KUMAR KARMAKAR, CONSTABLE, BS & FC KOLKATA, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
61. SHRI UDAYAN BANERJEE, DY INSPECTOR GENERAL, CISF UNIT DSP DURGAPUR (W.B.), CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
62. SHRI AJOY KUMAR NAG, ASST COMMANDANT, CISF UNIT ISP NASIK (MAHARASHTRA), CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
63. SHRI ATUL KARWAL, IG, O/O IG, SRINAGAR SECTOR, BREIN NISHAT, SRINAGAR (J&K)-191121, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
64. SHRI ARUN KUMAR, IG, O/O IG, TRIPURA SECTOR PO -USHA BAZAR, AIRPORT ROAD, AGARTALA (TRIPURA) - 799009, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
65. SHRI CHAMU SINGH KATHAIT, DIG, G.C, KATHGODAM, NAINITAL, UK, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
66. SHRI RANBIR SINGH, COMMANDANT, 38 BN, SMAILPUR, SAMBA JAMMU (J&K)-181133, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
67. SHRI ASHOK KUMAR DASH, DEPUTY COMMANDANT, G.C, BHUBNESWAR ODISHA-751011, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
68. SHRI ARVIND KUMAR, OFFICER ON SPECIAL DUTY, NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
69. SHRI VINAYAK PRABHAKAR APTE, JOINT DIRECTOR, SIB, SHILLONG, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
70. SHRI ANURAG KUMAR, JOINT DIRECTOR, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
71. MS. KALA RAMACHANDRAN, JOINT DIRECTOR, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
72. SHRI YOGESH KUMAR YADAV, JOINT DEPUTY DIRECTOR /TECH, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
73. SHRI SUNIL SHARMA, ASSISTANT DIRECTOR, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
74. SHRI VIJAY KUMAR, ASSISTANT DIRECTOR, SIB, KOHIMA, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
75. SHRI VIRENDRA KUMAR, DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, SIB, DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
76. SHRI DIPESH JUNEJA, INSPECTOR GENERAL (HQ), DTE GENL ITBP CGO COMPLEX LODHI ROAD NEW DELHI, INDO TIBETAN BORDER POLICE
77. SHRI ANAND SWAROOP, INSPECTOR GENERAL (PROV.), DTE GENL ITBP CGO COMPLEX LODHI ROAD NEW DELHI, INDO TIBETAN BORDER POLICE
78. SHRI PREM LAL, SECOND IN COMMAND, NORTHERN FTR ITBP DISTT DEHRADUN UTTARAKHAND, INDO TIBETAN BORDER POLICE
79. SHRI RAKESH AGGARWAL, IG (PROV), HQ NSG, MEHRAM NAGAR, PALAM NEW DELH-110037I, NATIONAL SECURITY GUARD
80. SHRI SHYAM SINGH, INSPECTOR GENERAL, FTR HQR RANIKHET UTTARAKHAND, SASHASTRA SEEMA BAL
81. DR. NIRMAL KUMAR AZAD, INSPECTOR GENERAL, BPR&D, DELHI, BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT

82. SHRI ALOK MITTAL, INSPECTOR GENERAL, NIA HQ, NEW DELHI, NATIONAL INVESTIGATION AGENCY
83. SHRI SURJEET SINGH GULERIA, DIG (PROC), HQ DG NDRF, CGO COMPLEX NEW DELHI-110003, NDRF
84. SHRI RAJEEV SABHARWAL, JOINT DIRECTOR, SVP NPA HYDERABAD, SVP NPA
85. SHRI P NAGABHUSHANAM, SUB INSPECTOR (GD), SVP NPA HYDERABAD, SVP NPA
86. SHRI AKHIL KUMAR, DIRECTOR, MEA, 3079, B, JNB, JANPATH, MEA, NEW DELHI, MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
87. SHRI GOLLA VALLEPU SANJEEVA RAYUDU, INSPECTOR, CIB, SECUNDERABAD, M/O RAILWAYS
88. SHRI RAMESHWAR SINGH THAKUR, DEPUTY DIRECTOR, WILDLIFE CRIME CONTROL BUREAU, MINISTRY OF ENVIRONMENT FORESTS AND CLIMATE CHANGE, NEW DELHI, ENV. FOREST & CLIMATE CHANGE

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rule governing the grant of Presidents Police Medal for Distinguished Service.

A. RAI  
Officer on Special Duty

No. 104-Pres/2016—The President is pleased to award the Police Medal for Meritorious Service on the occasion of the Independence Day, 2016 to the under mentioned officers :—

1. SHRI KARIYAPPA JAGANNADHA REDDY, ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
2. SHRI DUDEKULA CHINNA HUSSAIN, ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE, GUNTUR, ANDHRA PRADESH
3. SHRI BADIPALLI SREENIVASULU, SUB DIVISIONAL POLICE OFFICER, GUDUR, ANDHRA PRADESH
4. SHRI K. PRAKASH RAO, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, NELLORE, ANDHRA PRADESH
5. SHRI G. RAJEEV KUMAR, ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE (AIR PORT), VIJAYAWADA, ANDHRA PRADESH
6. SHRI V. GANESH BABU, ADDITIONAL COMMANDANT, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
7. SHRI T. POUL RAJ, RESERVE SUB INSPECTOR, VENKATAGIRI, ANDHRA PRADESH
8. SHRI KARANAM CHANDRASEKHAR PILLAI, SUB INSPECTOR, TIRUPATHI, ANDHRA PRADESH
9. SHRI M. GIRINIVASA RAO, ARMED RESERVE SUB INSPECTOR, VIZIANAGARAM, ANDHRA PRADESH
10. SMT. M. SAROJA, WOMAN ASSISTANT SUB INSPECTOR, VIJAYAWADA, ANDHRA PRADESH
11. SHRI JABAPOLU RAMACHANDRAIAH, ARMED RESERVE SUB INSPECTOR, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
12. SHRI MERUGUMUVVALA DHANARAJU, ASSISTANT SUB INSPECTOR, GHAGALLU, ANDHRA PRADESH
13. SHRI CH. PAPA RAO, HEAD CONSTABLE, VIZIANAGARAM, ANDHRA PRADESH
14. SHRI RAMA KOTI NAIK, HEAD CONSTABLE, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
15. SHRI APUR BITIN, DIGP, NAMSAL, ARUNACHAL PRADESH

16. SHRI TAB TECHI, DY. SP, ZIRO, ARUNACHAL PRADESH
17. SHRI DURGA MOHAN BAISHYA, SUPDT OF POLICE, COMMUNICATION APRO, HQ, ULUBARI, GUWAHATI-781007, ASSAM
18. SHRI ASWINI NARZARI, SUPDT OF POLICE, APRO, GUWAHATI, ASSAM
19. SHRI ANIL CHANDRA SARMAH, SUB INSPECTOR OF POLICE(UB), DHEMAJI, ASSAM
20. SHRI TAHER UDDIN AHMED, SUB INSPECTOR (RM), APRO HEADQUARTERS GUWAHATI, ASSAM
21. SHRI KISHORE SINGH RAI, SUB INSPECTOR OF POLICE AB, 1ST A.P BN, LIGIRIPUKHURI, NAZIRA-785685, ASSAM
22. SHRI PRAFULLA BORUAH, ASSTT SUB INSPECTOR (OPR), SANKAR, TILLA BOP, DIPHU KARBI-ANGLONG, ASSAM
23. SHRI BHAGABAN TALUKDAR, ASSTT SUB INSPECTOR (UB), POLICE COMMISSIONERATE, GUWAHATI, ASSAM
24. SHRI RIPUN DUTTA, ASSTT SUB INSPECTOR OF POLICE (UB), PTC DERGAON, ASSAM
25. SHRI JATIN CH DEKA, ASI CLK, THIRD AP BATTALION TITABAR JORHAT, ASSAM
26. SHRI SATYAJIT DEY, ASSTT SUB INSPECTOR OF POLICE (UB), CID, ULUBARI, GUWAHATI, ASSAM
27. SHRI DHARMENDRA BORAH, ASSTT SUB INSPECTOR (CLERK), FIRST AP BATTALION LIGIRIPUKHURI, NAZIRA-785685, ASSAM
28. SHRI KAILASH SARMAH, HAVILDER AB, PTC DERGAON, ASSAM
29. SHRI THANESWAR GOGOI, HAVILDER AB, GOLAGHAT, ASSAM
30. SHRI KUMUD RANJAN DAS, CONSTABLE (OPR), SUKHCHAR POLICE RADIO STATION, DHUBRI, ASSAM
31. SHRI ABON KHANIKAR, AB CONSTABLE, THIRD AP BATTALION TITABAR JORHAT ASSAM
32. SMT. MADHURI MECH, WOMEN POLICE CONSTABLE (AB), POLICE COMMISSIONERATE GUWAHATI, ASSAM
33. SHRI GHANA KANTA BARUAH, UB CONSTABLE, SPECIAL BRANCH HQR, ASSAM, KAHILIPARA, GUWAHATI, ASSAM
34. SHRI ASHWINI KUMAR, SP, SAHARSA, BIHAR
35. SHRI PADMAKAR PANDEY, STENO SI BPA, PATNA, BIHAR
36. SMT. SUNITA KUMARI, SI, CID, PATNA, BIHAR
37. SHRI MUSAFIR SINGH YADAV, SI (ARMS), BMP-16, PATNA, BIHAR
38. SHRI MOKHTAR SINGH, SI (ARMS), BMP-16, PATNA, BIHAR
39. SHRI RAJRAM TIWARI, ASI, DGP, OLD SECRETARIATE, PATNA -800015, BIHAR
40. SHRI PRAMOD KUMAR SINHA, HAVALDAR, BMP - 14, PATNA, BIHAR
41. SHRI RAGHAV MISHRA, ASI, VIGILANCE INVESTIGATION BUREAU PATNA -800001, BIHAR
42. SHRI SANTOSH KUMAR SINGH, ASI, VIGILANCE INVESTIGATION BUREAU, 6, CIRCULAR ROAD, PATNA, BIHAR
43. SHRI AJAY PRATAP SINGH, HAVILDAR, VIGILANCE INVESTIGATION BUREAU 6, CIRCULAR ROAD, PATNA, BIHAR
44. SHRI KAMLOCHAN KASHYAP, SP, DANTEWADA, CHHATTISGARH
45. SHRI BUDHAN SINGH DHRUW, SP, KORIYA, CHHATTISGARH

46. SHRI MOTI LAL KOTWANI, SP, CM SECURITY, RAIPUR, CHHATTISGARH
47. SHRI BRIJESH PATHROLIYA, INSPECTOR FINGER PRINTS, CID PHQ NAYA RAIPUR, CHHATTISGARH
48. SMT. NAMITA TEKAM, SUB INSPECTOR, DANTEWADA, CHHATTISGARH
49. SHRI DILIP KUMAR RANA, PLATOON COMMANDER, FIRST BN BHILAI, CHHATTISGARH
50. SHRI CHHITAR SINGH JAAT, ASI, KABIRDHAM, CHHATTISGARH
51. SHRI JUGAL KISHOR SAPAHA, HEAD CONSTABLE, RAIPUR, CHHATTISGARH
52. SHRI LAKHMANI SINGH, HEAD CONSTABLE, RAIPUR, CHHATTISGARH
53. SHRI PAREJ LAL SINHA, HEAD CONSTABLE, PTS RAJNANDGAON, CHHATTISGARH
54. SHRI RAVINDER KUMAR TYAGI, ACP, SUB DIVISON MODEL TOWN, NORTH WEST DISTRICT, NCT OF DELHI
55. SHRI LALIT MOHAN NEGI, INSPECTOR, NDR SPECIAL CELL, NCT OF DELHI
56. SHRI HRIDAYA BHUSHAN, INSPECTOR, NDR SPECIAL CELL, NCT OF DELHI
57. SHRI RAMESH KUMAR SHARMA, SUB INSPECTOR, SPECIAL CELL NORTHERN RANGE, NCT OF DELHI
58. SHRI DHARAMVIR BHARADWAJ, SUB INSPECTOR, SECURITY, NCT OF DELHI
59. SMT KAUSHAL PANDEY, SUB INSPECTOR (LOOK AFTER INSPECTOR), PS VIVEK VIHAR, EAST DISTRICT, NCT OF DELHI
60. SHRI RAMESH KUMAR, SUB INSPECTOR, TRAFFIC, NCT OF DELHI
61. SHRI KARTAR SINGH, ASI, POLICE CONTROL ROOM, NCT OF DELHI
62. SHRI DHARAMBIR SINGH, SUB INSPECTOR(AD-HOC), CAW NORTH WEST, NCT OF DELHI
63. SHRI AVTAR SINGH, HEAD CONSTABLE, PERSONAL SECTION CP OFFICE, NCT OF DELHI
64. SHRI NARENDER PAL SINGH, HEAD CONSTABLE, CRIME BRANCH PS KAMLA MARKET, DELHI, NCT OF DELHI
65. SHRI BALA NATH, HEAD CONSTABLE, PRO BRANCH PHQ, NCT OF DELHI
66. SHRI SHYAM BABU, HEAD CONSTABLE, CRIME BRANCH DELHI, NCT OF DELHI
67. SHRI SATENDER KUMAR, CONSTABLE, POLICE CONTROL ROOM, NCT OF DELHI
68. SHRI SAJJAD ALI, CONSTABLE, VINAY MARG NEW DELHI, NCT OF DELHI
69. SMT JASBIR KAUR, WOMEN CONSTABLE, SOUTH DISTRICT, NCT OF DELHI
70. SHRI VISHRAM U. BORKAR, SUPERINTENDENT OF POLICE, POLICE HEAD QUARTES, PANAJI, GOA
71. SHRI MAHESH GAONKAR, SDPO, MAPUSA, GOA
72. MS. SUNITA SAVLO SAWANT, DY SP, SDPO, PONDA, SDPO PONDA, GOA
73. SHRI B S JEBALIA, INSPECTOR GENERAL OF POLICE (PRISON), AHMEDABAD, GUJARAT
74. SHRI VIJAYPALSINH RAMJILAL YADAV, DYSP, SRPF, BHACHAU, KUTCH, GUJARAT
75. SHRI MADHUSUDAN M DAMOR, DYSP (WIRELESS), ADDL DGPOLICE (TECH SER) GANDHINAGAR, GUJARAT
76. SHRI MARU PALJIBHAI PREMJBHAI, INSPECTOR, SRPF GR FIFTEEN, ONGC, MEHSANA, GUJARAT
77. SHRI MAHENDRASINH SARDARSINH GOHIL, SUB INSPECTOR, SOG, JUNAGADH, GUJARAT
78. SHRI PUNIYA RAJENDRASINGH SARDARSINGH, SUB INSPECTOR, SRPF, MEHSANA, GUJARAT



79. SHRI NANALAL KARAMSHI MANVAR, ASI, LCB, PORBANDAR, GUJARAT
80. SHRI ANAVADIYA SHANTILAL MEVABHAI, ASI, SRPF, ONGC, MEHSANA, GUJARAT
81. SHRI VASANTRAY KANTILAL MEHTA, ASI, ACB, AMRELI, GUJARAT
82. SHRI DASHARATHBHAI BEACHERBHAI SOLANKI, ASI, GUJARAT POLICE ACADEMY, KARAI, GANDHINAGAR, GUJARAT
83. SHRI PARMAR BHAGVANBHAI, HEAD CONSTABLE, GANDHINAGAR, GUJARAT
84. SHRI SAIYED AKHTARHUSEN JALALUDDIN, HEAD CONSTABLE, CRIME BRANCH, AHMEDABAD CITY, GUJARAT
85. SHRI AJIT DALPATRAM DUBAL, HEAD CONSTABLE, PANCHKOSHI, JAMNAGAR, GUJARAT
86. SHRI JAMANBHAI MEGHAJIBHAI KANJARIYA, HEAD CONSTABLE, SRPF, CHELA, JAMNAGAR, GUJARAT
87. SHRI GUNVATSINH HAMIRSINH RATHOD, CONSTABLE, SRPF, NADIAD, GUJARAT
88. SHRI DILIP MANILAL AGRAVAT, INTELLIGENCE OFFICER, DGP INTELLIGENCE, GANDHINAGAR, GUJARAT
89. SHRI GURDIP SINGH SHANKER SINGH SAINI, INTELLIGENCE OFFICER, DGP, IB, GANDHINAGAR, GUJARAT
90. DR. KUSHAL PAL SINGH, DIRECTOR GENERAL OF POLICE, , HARYANA, PANCHKULA, HARYANA
91. DR. M. RAVI KIRAN, INSPECTOR GENERAL OF POLICE (SVB), PANCHKULA(HR), HARYANA
92. SHRI SANJAY KUMAR, INSPECTOR GENERAL OF POLICE, ROHTAK RANGE (HR), HARYANA
93. SHRI DHARAMVIR, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE (CID), MANESAR, GURGAON (HR), HARYANA
94. SHRI RAJ ROOP, INSPECTOR, HPA, MADHUBAN (HR), HARYANA
95. SHRI INDER PAL, INSPECTOR (ORP), CID, SONIPAT (HR), HARYANA
96. SHRI SAT PAL, SUB INSPECTOR, HPA, MADHUBAN (HR), HARYANA
97. SHRI KIRPAL SINGH, SUB INSPECTOR(EXEMPTTEE), AMBALA (HR), HARYANA
98. SHRI RANJIT SINGH, ASI, SCRB, MADHUBAN (HR), HARYANA
99. SHRI RAJBIR SINGH, ASI (EXEMPTTEE), SVB, PANCHKULA (HR), HARYANA
100. SHRI VINOD KUMAR DHAWAN, SP, STATE CID, HIMACHAL PRADESH
101. SHRI MUKESH KUMAR, HC, STATE CID, HIMACHAL PRADESH
102. SHRI NAND LAL, HC, MANDI, HIMACHAL PRADESH
103. SHRI MOHD SHAFI SHAH, SUB-INSPECTOR, PS HANDWARA, JAMMU AND KASHMIR
104. SHRI DEPUTY LAL SALOTRA, DY SP, TECH. HQRS, SRINAGAR, JAMMU AND KASHMIR
105. SHRI ABAS ALI SHAH, ASI, ZAPHQ, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR
106. SHRI TARSEM SINGH CHIB, ISNPR(S), ZPHQ, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR
107. SHRI RIYAZ AHMAD SHAH, ASI, ZPHQ, SRINAGAR, JAMMU AND KASHMIR
108. SHRI KULDEEP RAJ, ASI, IRP 19TH KATHUA, JAMMU AND KASHMIR
109. SHRI PREDEMEN KUMAR TIKOO, DY SP, CID SB JAMMU, JAMMU AND KASHMIR
110. SHRI VEERINDER KUMAR BHAT, DY SP, VOJ, JAMMU AND KASHMIR

111. SHRI MOHAMMAD SALEEM KHAN, ADDL. SP, SECURITY KASHMIR, JAMMU AND KASHMIR
112. SHRI BODH RAJ, DY SP, CD UDHAMPUR, JAMMU AND KASHMIR
113. SHRI RAVAIL SINGH CHOUDHARY, DY. SP, IR 19TH KATHUA, JAMMU AND KASHMIR
114. SHRI PAWAN KUMAR GUPTA, DIRECTOR PROSECUTION, PHQ J&K, JAMMU AND KASHMIR
115. SHRI FAROOQ AHMAD KHAN, SI, PC SRINAGAR, JAMMU AND KASHMIR
116. SHRI BHAGWANT SINGH, DY. SP, RLY HQRS J&K, JAMMU AND KASHMIR
117. SHRI GHULAM RUBANI SHAH, ASI, DPO SRINAGAR, JAMMU AND KASHMIR
118. SHRI VIJAY PAL SINGH, DY SP, SKPA UDHAMPUR, JAMMU AND KASHMIR
119. SHRI GULZAR AHMAD SHEIKH, ASI, CRIME KASHMIR, JAMMU AND KASHMIR
120. SMT. ASHA MISHRA, ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE, DEOGHAR, JHARKHAND
121. SHRI SHAMU TIU, HAVILDAR, POLICE LINE, DEOGHAR, JHARKHAND
122. SHRI MAHESH SINGH, ASSISTANT SUB INSPECTOR, RANCHI, DEPUTED POLICE HQRS, RANCHI, JHARKHAND
123. SHRI BINODANAND JHA, ASSISTANT SUB INSPECTOR, SADAR COURT, HAZARIBAGH, JHARKHAND
124. SMT. VISHNU KUMARI, ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE, HAZARIBAGH, JHARKHAND
125. SHRI SUSHIL SAH, ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE, BARKAGAON PS, HAZARIBAGH, JHARKHAND
126. SHRI SUNIL KUMAR SINGH, HAVILDAR, P. LINE, HAZARIBAGH, JHARKHAND
127. SHRI BRAHMDEV MAHATO, CONSTABLE, 968, DARU PS, HAZARIBAGH, JHARKHAND
128. SHRI MITHLESH KUMAR, ASSISTANT SUB INSPECTOR, JJ(STF) DHURWA, RANCHI-834004, JHARKHAND
129. SHRI KAMAL BAHADUR LIMBOO, SUB INSPECTOR OF POLICE (ARMED), JHARKHAND ARMED POLICE FIRST BATTALION, JHARKHAND
130. SHRI BUDHRAM THAPA, HAVILDAR, JHARKHAND ARMED POLICE FIRST BATTALION, JHARKHAND
131. SHRI ANAND KUMAR SINGH, HAVILDAR, JHARKHAND ARMED POLICE, SIXTH BATTALION, JHARKHAND
132. SHRI PRAHLAD SINGH, HAVILDAR, INDIAN RESERVE 3 BATTALION, JHARKHAND
133. SHRI M N NAGARAJ, SP, DIST. POLICE OFFICE NAVANAGAR, BAGALKOTE, KARNATAKA
134. SHRI MANJUNATH ANNIGERI, SP SIT KLA, BENGALURU, KARNATAKA
135. SHRI S BADRINATH, ACP, K R PURAM SUB DN BENGALURU, KARNATAKA
136. SHRI VINAY ANANT GAONKAR, ACP, CUBBON PARK SUB DN, 1ST FLOOR, ASHOKNAGER POLICE STATION, COMMISSIRIAT ROAD, BENGALURU, KARNATAKA
137. SHRI V MARIYAPPA, ACP, TRAFFIC SOUTH SUB DN, SOUTH END CIRCLE, BENGALURU, KARNATAKA
138. SHRI SOMALINGAPPA, ACP, NORTH SUB DN HUBBALI CITY, KARNATAKA
139. SHRI SIDDALINGAIAH C A, PI, KLA KOLAR, KARNATAKA, KARNATAKA
140. SHRI M SHANTHARAJ, PI WIRELESS, CHECK OFFICE, WIRELESS HQS BENGALURU, KARNATAKA

141. SHRI PRAMOD S DHAGE, PI WIRELESS, CONTROL ROOM BENGALURU DISTRICT, KARNATAKA
142. SHRI SREEDHAR DODDI, PI, TOWN PS HOSAPETE BALLARI DIST, PIN-5832001, KARNATAKA
143. SHRI K. S PRANESHAMURTHY, PSI, STATE INTELLIGENCE BENGALURU, KARNATAKA
144. SHRI P NAGARAJA, ASI, GANDASI PS HASSAN DIST, KARNATAKA
145. SHRI L T MUDDURAJU URS, ARSI, CHIKKAMANGALURU DISTRICT, KARNATAKA
146. SHRI PADMANABHA C K, ASI, DCB CHIKKAMAGALUR DISTRICT, KARNATAKA
147. SHRI A M PALAGAPPA, ARSI, 3RD BN, KSRP BENGALURU, KARNATAKA
148. SHRI K E MATHEW, AHC, DAR SHIMOGGA DIST, KARNATAKA
149. SHRI HIRYANNAIAH C G, AHC, DAR CHIKKAMAGALURU DIST, KARNATAKA
150. SHRI JACOB THOMAS, DIRECTOR VIGILANCE & ANTI- CORRUPTION BUREAU, THIRUVANANTHAPURAM - 695033, KERALA
151. SHRI P A VARGHESE, DYSP, PERINTHALMANNA SUB DIVISION, MALAPPURAM -679322, KERALA
152. SHRI T MOHANAN NAIR, ASST COMMISSIONER OF POLICE, TRAFFICE, NORTH SUBDIVISION THIRUVANANTHAPURAM CITY, KERALA
153. SHRI KURIKESH MATHEW, DEPUTY COMMANDANT, MSP, MALAPPURAM, KERALA
154. SHRI V AJITH, DYSP SBCID, KOTTAYAM, KERALA
155. SHRI V. V THRIVIKRAMAN NAMBOOTHIRY, SI, SBCID, KOTTAYAM, KERALA
156. SHRI K L ANIL, SENIOR CIVIL POLICE OFFICER, SCRB PATTOM, KERALA
157. SHRI N JAYACHANDRAN, DRIVER HC T 9073 (ASI GR.), POLICE HEADQUARTERS THIRUVANANTHAPURAM, KERALA
158. SHRI R. MAHESH, DYSP, VACB TVPM THIRUVANANTHAPURAM, KERALA
159. SHRI M. J. ANTONY, ASI, VACB ALAPPUZHA UNIT, KERALA
160. SHRI PRITAM SINGH UIKEY, COMDT 8TH BN SAF, CHHINDWARA MP, MADHYA PRADESH
161. SHRI AVINASH SINGH, COMDT 25TH BN SAF, BHOPAL, MADHYA PRADESH
162. SHRI RAM KIRTI SHUKLA, ASST COMDT 7TH BN SAF, BHOPAL, MADHYA PRADESH
163. SHRI SHARDA PRASAD CHOUDHARY, INSPCETOR ZONAL SP OFFICE SB, JABALPUR, MADHYA PRADESH
164. SHRI ALOK VERMA, INSPECTOR RADIO, BHOPAL, MADHYA PRADESH
165. SHRI NANDLAL YADAV, PLATOON COMMANDER RAPTC, INDORE, MADHYA PRADESH
166. SHRI VEER BAHADUR SINGH, PLATOON COMMANDER 9TH BN SAF, REWA, MADHYA PRADESH
167. SHRI RAVINDRA KUMAR SHARMA, SECTION COMMNDER 29TH BN SAF, DATIA, MADHYA PRADESH
168. SHRI ONKAR SINGH, HEAD CONSTABLE- 639 DRP LINE, SEHORE, MADHYA PRADESH
169. SHRI DINESH PRASAD SHUKLA, HEAD CONSTABLE - 118, 23RD BN SAF, BHOPAL, MADHYA PRADESH
170. SHRI RAJENDRA SINGH KHUSWAH, HEAD CONSTABLE-616, P.S KOTWALI, GUNA, MADHYA PRADESH
171. SHRI VED PRAKASH SHARMA, HEAD CONSTABLE-646, 5TH BN SAF, MOREN, MADHYA PRADESH

172. SHRI ASHOK KUMAR TIWARI, CONSTABLE SPE, GWALIOR, MADHYA PRADESH
173. SHRI RAM SIYA BAGHEL, CONSTABLE 361, 2ND BN SAF, GWALIOR, MADHYA PRADESH
174. SHRI MOHAMMAD AFSAR KHAN, INSPECTOR (M), PA TO ADG COMPLAINT, PHQ, BHOPAL, MADHYA PRADESH
175. SHRI SATISH KUMAR MISHRA, INSPECTOR M SB, INDORE, MADHYA PRADESH
176. SMT. SHOBHA GADPANDE, SUBEDAR M TRAINING PHQ, BHOPAL, MADHYA PRADESH
177. SHRI SANJAY HINURAO SHINDE, DY CAMMR OF POLICE, ZONE III THANE CITY, MAHARASHTRA
178. SHRI SHRIPRAKASH MARUTI WAGHMARE, DY COMMUR OF POLICE, ARMED POLICE II TARDEO MUMBAI CITY, MAHARASHTRA
179. SHRI RAJENDRA GANPAT DABHADE, DY COMMISSIONER OF POLICE, ZONE -I, NASHIK CITY, MAHARASHTRA
180. SHRI RAVINDRASINGH SANTOSHSINGH PARDESHI, COMMANDANT, SRPF GR XI NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA
181. SHRI BHAGWAN GOPAJI YASHOD, ADDL SUPTD OF POLICE, PALGHAR, MAHARASHTRA
182. SHRI BALKRISHNA MOTIRAM YADAV, DY COMMUR OF POLICE, WIRELESS MUMBAI, MAHARASHTRA
183. SHRI SHRIDHAR GOPALRAO KHANDARE, ASST COMMANDANT, SRPF GR-IV NAGRPUR, MAHARASHTRA
184. SHRI NITIN CHAMPATRAO KOUSADIKAR, ASSTT COMMISSIONER OF POLICE, CONTROL ROOM NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA
185. SHRI SUNIL SADASHIV BAJARE, SR POLICE INSPECTOR, PANVEL CITY POLICE STATION NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA
186. SHRI FEROZ MUBARAK PATEL, ASST POLICE INSPECTOR, OFFICE OF COMMUR OF POLICE MUMBAI CITY, MAHARASHTRA
187. SHRI NARAYAN NAMDEO WARE, POLICE SUB-INSPECTOR, SAFALE POLICE STATION DIST PALGHAR, MAHARASHTRA
188. SHRI ARVIND DEVMAN DEVARE, POLICE SUB INSPECTOR, CHALISGAON PS DIST JALGAON, MAHARASHTRA
189. SHRI VIDHYADHAR JAYSING GHORPADE, POLICE SUB INSPECTOR, CST RLY P STATION MUMBAI, MAHARASHTRA
190. SHRI DADA JAGANNATH AVGHADE, POLICE SUB INSPECTOR, CRIME BRANCH NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA
191. SHRI ABASAHEB JIJABA SUMBE, POLICE SUB INSPECTOR (WIRELESS), OFFICE OF THE ADGP DIRECTOR OF POLICE WIRELESS PUNE, MAHARASHTRA
192. SHRI UTTAM TUKARAM JADHAV, ASI, CONTROL ROOM DIST LATUR, MAHARASHTRA
193. SHRI DAMODAR SONU MOHITE, ASST SUB INSPECTOR, MOTAR TRANSPORT DIVISION PUNE CITY, MAHARASHTRA
194. SHRI PRAKASH GANGADHAR TARODEKAR, ASST SUB INSPECTOR, POLICE STATION KINWAT NANDED, MAHARASHTRA
195. SHRI SHANTARAM RAMDAS WANKHEDE, ASST POLICE SUB INSPECTOR, READER BR SP OFFICE JALGAON, MAHARASHTRA
196. SHRI ANIL MADHUKARRAO DANGAT, ASI, ADDL SP OFFICE GADCHIROLI, MAHARASHTRA
197. SHRI SAMBHAJI NARAYAN DESHMUKH, ASST POLICE SUB INSPECTOR, SPECIAL BRANCH THANE, MAHARASHTRA

198. SHRI PRAKASH DATTATRAY KOKATE, POLICE HEAD CONSTABLE DRIVER, POLICE HQ KOLHAPUR, MAHARASHTRA
199. SHRI RAVINDRA BHAGWAN MAYEKAR, HEAD CONSTABLE, DINDOSHI TRAFFIC DIV MUMBAI CITY, MAHARASHTRA
200. SHRI HRIDAYANATH NARAYAN SALVI, HEAD CONSTABLE, MOTOR TRANSPORT SECTION NASHIK, MAHARASHTRA
201. SHRI GANGADHAR PANDIT CHOUDHARI, HEAD CONSTABLE, HEAD QUARTER AKOLA, MAHARASHTRA
202. SHRI SANJAY BALAJI SHINDE, INTELIGENCE OFFICER/ HEAD CONSTABLE, SID MUMBAI, MAHARASHTRA
203. SHRI SHARADACHARAN HARINARAYAN TIWARI, HEAD CONSTABLE, POLICE HEAD QUARTER, AMRAVATI CITY, MAHARASHTRA
204. SHRI SANDIPKUMAR BHIKURAO RAIKAR, HEAD CONSTABLE, KALWA POLICE STATION, THANE CITY, MAHARASHTRA
205. SHRI SANJAY IRANNA HUNDEKARI, HEAD CONSTABLE, SOLAPUR CITY, MAHARASHTRA
206. SHRI RAJU SHAMRAO BANSODE, HEAD CONSTABLE (WRITER), DETECTION CRIME BRANCH MUMBAI, MAHARASHTRA
207. SHRI PRALHAD UTTAM MADANE, HEAD CONSTABLE, MRA POLICE STATION MUMBAI CITY, MAHARASHTRA
208. SHRI PRADIP VISHWANATH BADGUJAR, HEAD CONSTABLE, BDDS JALGAON, MAHARASHTRA
209. SHRI RAMESH PANDURANG SHINDE, HEAD CONSTABLE, TRAFFIC CONTROL BRANCH, MUMBAI, MAHARASHTRA
210. SHRI ARUN DADA JADHAV, HEAD CONSTABLE, DETECTION CRIME BRANCH MUMBAI, MAHARASHTRA
211. SHRI NAMDEO NIVRUTTI RENUSE, HEAD CONSTABLE, SPECIAL BRANCH PUNE CITY, MAHARASHTRA
212. SMT. SANGITA VASANT SAVRATKAR, HEAD CONSTABLE, CID (CRIME), PUNE, MAHARASHTRA
213. SHRI GURUNATH PANDURANG MALI, HEAD CONSTABLE, ATS MUMBAI, MAHARASHTRA
214. SHRI VYANKATESH DINKAR KULKARNI, POLICE NAIK, ANTI CORRUPTION BUREAU, NASHIK RANGE, MAHARASHTRA
215. SHRI HIJAM GYANESHWAR SINGH, DEPUTY COMMANDANT, 7TH MR KHABEISOI, MANIPUR
216. SHRI S GUNI SINGH, SUB-INSPECTOR, CID (SB), MANIPUR
217. SHRI SONGLIANTHANG VAIPHEI, INSPECTOR, MPTC, PANGEI- 795114, MANIPUR
218. SHRI LUNKHOSEI HAOKIP, HAVILDAR, 2ND BN MR, IMPHAL, MANIPUR
219. SHRI KHUNDRAKPAM DEBANANDA SINGH, SI, CID(SB), IMPHAL, MANIPUR
220. SHRI A S MASONGAM SHIMRAY, INSPECTOR, SENAPATI DISTRICT, MANIPUR
221. SHRI RYMPHANG PDE, DY. SUPERINTENDENT OF POLICE, RI - BHOI (HQR), MEGHALAYA
222. SHRI EMDORBHA KYNDIAH, RESERVE INSPECTOR, FIRST MPL BN, MEGHALAYA
223. SHRI JOHNSON MARAK, SUBEDAR MAJOR(SM), FIRST MLP BN, MEGHALAYA
224. SHRI JANARDHANAN AP, AB INSPECTOR, COMMANDANT OFFICE GOERAGRE, MEGHALAYA

225. SHRI LACHAI BASUMATARY, HEAD CONSTABLE, LAITUMKHRAH TRAFFIC BRANCH, MEGHALAYA
226. SHRI C LALZAHNGOA, SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE, KOLASIB DISTRICT, MIZORAM
227. SHRI C LALNUNMAWIA, S.P. MAMIT, PIN-796441, MIZORAM
228. SHRI ZOSANG LIANA, SUPERINTENDENT OF POLICE, LUNGLEI DISTRICT, MIZORAM
229. SHRI ZORAMSANGA RALTE, ASSTT. COMMANDANT, 1ST BN. MAP, ARMED VENG, AIZAWL PIN: 796008, MIZORAM
230. SHRI C. LALREMLIANA, INSPECTOR OF POLICE, CONFIDENTIAL BRANCH, PHQ, OFFICE OF THE AIG OF POLICE-I OFFICE, PHQ, MIZORAM, KHATLA, AIZAWL, MIZORAM
231. SHRI AJIT KUMAR DASH, DY. SP (HANDWRITING), VIGILANCE DIRECTORATE, CUTTACK, ODISHA
232. SHRI SANJEEB KUMAR SATAPATHY, INSPECTOR, BHUBANESWAR, KHARAVELNGAR P.S., ODISHA
233. SHRI BISWANATH TARINI, INSPECTOR, SPECIAL BRANCH, BHUBANESWAR, ODISHA
234. MISS BHARGABI PRUSTY, SI, VIGILANCE DIRECTORATE, CUTTACK, ODISHA
235. SHRI ANJAN KUMAR MISHRA, ASI, VIGILANCE DIRECTORATE, CUTTACK, ODISHA
236. SHRI BIJAYA KUMAR SAHU, ASI, O/O COMMISSIONER OF POLICE BHUBANESWAR, ODISHA
237. SHRI CHITTARANJAN NAYAK, ASI, O/O COMMISSIONER OF POLICE BHUBANESWAR, ODISHA
238. SHRI BANA BIHARI MOHANTY, CONSTABLE, PMT CUTTACK, ODISHA
239. SHRI MOHAMMED MATIUR RAHEMAN, CONSTABLE, CP HQRS, BHUBANESWAR, ODISHA
240. SHRI GAHIRUDDIN KHAN, CONSTABLE, DPO KHORDHA, ODISHA
241. SHRI SLIVERIUS LAKRA, SEPOY 7TH BN OSAP BATTALION, BHUBANESWAR, ODISHA
242. SHRI JASKARAN SINGH, DIG, CRIME, PUNJAB, CHANDIGARH, PUNJAB
243. SHRI BHUPINDER SINGH, AIG, PUNJAB STATE NARCOTICS CONTROL BUREAU LUDHIANA, PUNJAB
244. SHRI ARUN SAINI, AIG, ADMINISTRATION PUNJAB, CHANDIGARH, PUNJAB
245. SHRI PARMJIT SINGH GORAYA, SUPERINTENDENT OF POLICE, INVESTIGATION PATIALA, PUNJAB
246. SHRI GURCHARAN SINGH, INSPECTOR, INCHARGE CIA STAFF S A S NAGAR MOHALI, PUNJAB
247. SHRI TARLOCHAN SINGH, INSPECTOR, S A S NAGAR MOHALI, PUNJAB
248. SHRI NARINDER PAL, INSPECTOR, INTELLIGENCE HQRS, CHANDIGARH, PUNJAB
249. SHRI LAKHBIR SINGH, SUB INSPECTOR, CID UNIT AMRITSAR, PUNJAB
250. SHRI INDERJIT SINGH, SUB INSPETOR, SHO POLICE STATION GRP LUDHIANA, PUNJAB
251. SHRI MANGAL SINGH, SUB INSPECTOR, ISTC KAPURTHALA, PUNJAB
252. SHRI GURCHARAN SINGH, SUB INSPECTOR, RTC PAP JALANDHAR CANTT, PUNJAB
253. SHRI HARJINDER SINGH, SI ( LR), READER TO DIG PATIALA RANGE PATIALA, PUNJAB
254. SHRI JAGMAIL SINGH, ASI, TRAFFIC POLICE MANSA, PUNJAB
255. SHRI BALWINDER KUMAR, ASI, OASI SEVENTH BATTALION PAP JALANDHAR, PUNJAB
256. SHRI KULWINDER SINGH, ASI, RTC PAP, JALANDHAR CANTT, PUNJAB

257. SHRI MADAN LAL, HEAD CONSTABLE, PRTC JAHAN KHELAN, PUNJAB
258. SHRI BHANWAR LAL MEENA, DIGP, ANTI TERRORIST SQUAD JAIPUR, RAJASTHAN
259. SHRI VISHAL SINGH, PC, 13 BN RAC CHAINPURA JAIPUR, RAJASTHAN
260. SHRI KESHAV KUMAR, SI, POLICE TELECOMMUNICION JAIPUR RAJASTHAN, RAJASTHAN
261. SHRI RAVINDRA KUMAR, ASI, POLICE LINE KOTA RURAL, RAJASTHAN
262. SHRI MANGHI LAL VISHNOI, ASI, POLICE STATION PIPAR JODHPUR RURAL, RAJASTHAN
263. SHRI MOHAN SINGH BHATI, ASI, POLICE STATION SANKRA JAISALMER, RAJASTHAN
264. SHRI ANIL KUMAR, HC THIRTEEN, 5TH BN RAC JAIPUR, RAJASTHAN
265. SHRI BHANWAR SINGH, HC FOURTY TWO, 10TH RAC BIKANER, RAJASTHAN
266. SHRI RAMBABU SINGH, HC, 11 BN WAZIRABAD DELHI, RAJASTHAN
267. SHRI DHARU RAM, HC, PTC JODHPUR, RAJASTHAN
268. SHRI KAILASH CHANDRA GURJAR, HC, CID SSB JAIPUR, RAJASTHAN
269. SHRI RAKESH KUMAR, HC, OFFICE OF THE POLICE DY COMM (HQ) JAIPUR, RAJASTHAN
270. SHRI GHEESA LAL BAJIA, CONSTABLE, 1ST RAC JODHPUR, RAJASTHAN
271. SHRI MANGU SINGH, CONSTABLE, 2ND RAC KOTA, RAJASTHAN
272. SHRI PRAHALAD CHAND SHARMA, CONSTABLE THERTY SEVAN, SCRB JAIPUR, RAJASTHAN
273. SHRI ACHAL SINGH RAJPUT, CONSTABLE, PTS BIKANER, RAJASTHAN
274. SHRI SONAM TENZING BHUTIA, SSP, CID, PHQ, GANGTOK, SIKKIM
275. SHRI CHUNG CHUNG BHUTIA, SI, 3RD IRBN, BHQ RANIPOL, 737135, SIKKIM
276. SHRI H M JAYARAM -, INSPECTOR GENERAL OF POLICE, OPERATIONS CHENNAI, TAMIL NADU
277. SHRI A ARUN, DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, TRICHY RANGE TRICHY, TAMIL NADU
278. SHRI C. CHANDRASEKAR, DIG CHIEF VIGILANCE OFFICER, TAMIL NADU NEWSPRINT AND PAPERS LIMITED KAGITHAPURAM KARUR DISTRICT, TAMIL NADU
279. SHRI J RAVINDRAN, COMMANDANT, TAMIL NADU SPECIAL POLICE XV BATTALION SEVUR VELLORE, TAMIL NADU
280. SHRI V JAYAKUMAR, DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE, ARMED RESERVE II ST THOMAS MOUNT CHENNAI, TAMIL NADU
281. SHRI M RANGARAJAN, ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE, HEADQUARTERS THIRUVANNAMALAI, TAMIL NADU
282. SHRI N RAJARAJAN, ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE, CORE CELL IN SECURITY BRANCH CID CHENNAI, TAMIL NADU
283. SHRI S MARIRAJAN, ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE, SID CRIME BRANCH CID MADURAI, TAMIL NADU
284. SHRI A. V. MATHI, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, CRIME RECORDS BUREAU TRICHY, TAMIL NADU
285. SHRI K PARANTHAMAN, ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, SRMC RANGE WEST ZONE GREATER CHENNAI, TAMIL NADU
286. SHRI R. VIJAYA RAGAVAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, CC II VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION CHENNAI, TAMIL NADU

287. SHRI M. MUTHU SANKARALINGAM, ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, INTELLIGENCE SECTION MADURAI CITY, TAMIL NADU
288. SHRI K. ARUL AMARAN, ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, CANTONMENT CRIME RANGE TRICHY CITY, TAMIL NADU
289. SHRI K. RAJASEKAR, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, CHIEF OFFICE CONTROL ROOM CHENNAI, TAMIL NADU
290. SHRI S. MUTHUKUMAR, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, SPECIAL BRANCH CID HEADQUARTERS CHENNAI, TAMIL NADU
291. SHRI K. RAVI, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, SIC VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION CHENNAI, TAMIL NADU
292. SHRI B. PARAMASIVAN, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, SIU COIMBATORE, TAMIL NADU
293. SHRI SUBRAMANIAM MURUGESAN, INSPECTOR OF POLICE, KODUMUDI PS ERODE DISTRICT, TAMIL NADU
294. SHRI S. KRISHNAMOORTHY, INSPECTOR OF POLICE, VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION VILLUPURAM, TAMIL NADU
295. SHRI P. PERIASAMY, INSPECTOR OF POLICE MTO, TAMIL NADU SPECIAL POLICE XIV BATTALION PALANI, TAMIL NADU
296. SHRI M BASKARAN, INSPECTOR OF POLICE TECHNICAL, POLICE TELECOMMUNICATION BRANCH CHENNAI, TAMIL NADU
297. SHRI T.R. KESAVARAM -, SPECIAL SUB INSPECTOR OF POLICE, VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION RAMANATHAPURAM, TAMIL NADU
298. SHRI YERRABATI SRINIVASA RAO, COMMNDT, SEVENTH BATTALLION, TSSP, NIZAMABAD DICHPALLY, TELANGANA
299. SHRI CHINTAKUNTALA NAROTHAM REDDY, ADDL SP, OFFICE OF REGIONAL V & E OFFICER, RAMACHANDRAPURAM, MEDAK, TELANGANA
300. SHRI KRISHNA SWAMY NATARAJAN BALAJI, ASSISTANT COMMANDANT, FIFTEENTH BATTALION, TSSP, SATTUPALLIY KHAMMAM, TELANGANA
301. SHRI POTHARLANKA MURALI KRISHNA, ADDL SP SIB, HYDERABAD, TELANGANA
302. SHRI SHAIK MOHAMMED NIZAMUDDIN, ACP, PASSPORT VERIFICATION CELL, HYDERABAD, TELANGANA
303. SHRI AMGOTH BALAKOTI, DSP, GADWAL, MAHABUBNAGAR, TELANGANA
304. SHRI ANGARA VENKATA SATYANARAYANA, INSPECTOR SB, , CYBERABAD, HYDERABAD, TELANGANA
305. SHRI DHALADHUL VEERANAGAI AH, ASI, INTELLIGENCE, , HYDERABAD, TELANGANA
306. SHRI V PANDURANGA RAO, ASI 3000, CI CELL, HYDERABAD, TELANGANA
307. SHRI MOHHAMED ABDUL NAYEEM, HC 448, FIRST BATTALION TSSP, HYDERABAD, TELANGANA
308. SHRI DOMAKONDA BALAKRISHNA, HC 340, INTELLIGENCE, HYDERABAD, TELANGANA
309. SHRI KRISHNANKUTTY VIJAYAM SREEJESH, DIG HQ & CID, AGARTALA, TRIPURA-799001, TRIPURA
310. SHRI SANDHIRAM DEBBARMA, SUBEDAR (GD), 7TH BN TSR(IR-VI) HQ, SANGKUMABARI, JAMPUIJALA SEPAHIJALA, TRIPURA-799102.TSR JAMPUIJALA, TRIPURA
311. SHRI GENDANLAL GWARI, SUBEDAR (GD), SUBASHNAGAR, KANCHANPUR, NORTH TRIPURA-799270



312. SHRI NARAYAN CHANDRA GHOSH, SUB INSPECTOR, UDAIPUR S B CAMP, AGARTALA WEST, TRIPURA-799001
313. SHRI PHANI BHUSAN DAS, DYSP (TPS) GR-II, BISHRAMGANJ, TRIPURA-799102,
314. SHRI SANTI BHUSAN BHUIYA, INSPECTOR, KALYANPUR PS, KHOWAI, TRIPURA-799203
315. SHRI NILABJA CHOUDHARY, DIG RANGE, KANPUR, UTTAR PRADESH
316. SHRI ARUN KUMAR GUPTA, DIG INT, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
317. SHRI PREM NARAYAN, DIG, CB, CID, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
318. SHRI VIJAY KUMAR GAUTAM, ADDL SP, BAREILLY, UTTAR PRADESH
319. SHRI MIRZA MANZAR BAIG, ADDL SP, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
320. SHRI RAHUL RAJ, ADDL SP, AMBEDKAR NAGAR, UTTAR PRADESH
321. SHRI SHAFEEQ AHMAD, ADDL SP, BARABANKI, UTTAR PRADESH
322. SHRI RADHEY SHYAM, ADDL SP, CB CID, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
323. DR. DHARMVEER SINGH, ADDL SP, BIJNORE, UTTAR PRADESH
324. SMT. KALPNA SAXENA, ADDL SP, PAC 41 BN, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH
325. SHRI ASHOK KUMAR, ADDL SP, MIRZAPUR, UTTAR PRADESH
326. SHRI RADHEY MOHAN BHARDWAJ, ADDL SP, KASGANJ, UTTAR PRADESH
327. SHRI SHIV NARAYAN, DSP, BASTI, UTTAR PRADESH
328. SHRI DATTEL SINGH GARBYAL, DSP, ETAH, UTTAR PRADESH
329. SHRI OM PRAKASH TRIPATHI, DSP, GRP, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH
330. SHRI VEER BHAN SINGH, DSP LIU, SAHARANPUR, UTTAR PRADESH
331. SHRI DEVENDRA NATH SHUKLA, DSP, GORAKHPUR, UTTAR PRADESH
332. SHRI SOMDUTT SHARMA, DSP, ALIGARH, UTTAR PRADESH
333. SHRI VIJAY SHANKAR TIWARI, DSP, ALLAHABAD, UTTAR PRADESH
334. SMT. RAKESH BALA TYAGI, DSP/ZO INT, SAHARANPUR, UTTAR PRADESH
335. SHRI KALYAN SINGH, DSP, JHANSI, UTTAR PRADESH
336. SHRI AJAY KUMAR KULSHRESTHA, DSP, BALRAMPUR, UTTAR PRADESH
337. SHRI PUTAN SINGH, INSPECTOR, SIT, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
338. SHRI IRSHAD AHMAD, COMPANY COMMANDER, AAZAMGARH, UTTAR PRADESH
339. SHRI PHOOL CHANDRA YADAV, RESERVE INSPECTOR, HAMIRPUR, UTTAR PRADESH
340. SHRI HARISH CHANDRA YADAV, COMPANY COMMANDER, 34 BN PAC, VARANASI, UTTAR PRADESH
341. SMT. SAVITRI YADAV, INSPECTOR INT HQ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
342. SHRI NAJMUL HASAN, RESERVE INSPECTOR, HARDOI, UTTAR PRADESH
343. SHRI AWADH SINGH, QUAETER MASTER, 49 BN PAC, G B NAGAR, UTTAR PRADESH
344. SHRI FANINDRA NATH RAI, INSP SECURITY HQ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
345. SHRI RAMESH KUMAR, PLATOON COMMANDER, 35 BN PAC, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
346. SHRI BHAGAUTI CHARAN BUDHAULIYA, SUB INSPECTOR, RADIO HQ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
347. SHRI AMAR BAHADUR SINGH, SUB INSPECTOR (AP), 35 BN PAC, LUCKNOW, UTTAR PRADESH

348. SHRI SATYAPAL SINGH RAGHAV, SUB INSPECTOR HU, ALIGARH, UTTAR PRADESH
349. SHRI BRAHAMADEEN, PLATOON COMMANDER, 33 BN PAC, JHASHI, UTTAR PRADESH
350. SHRI SHIV NARAYAN RAI, SUB INSPECTOR, AP, BHADOHI, UTTAR PRADESH
351. SHRI SHRIRAM, HEAD CONSTABLE, INT HQ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
352. SHRI SACHCHIDANAND MISHRA, HEAD CONSTABLE, CB CID, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
353. SHRI CHOTA SINGH, HEAD CONSTABLE, 6 BN PAC, MERRUT, UTTAR PRADESH
354. SHRI RAM DARSH SINGH, HEAD CONSTABLE, 36 BN PAC, VARANASI, UTTAR PRADESH
355. SHRI BAIRAM SINGH, HEAD CONSTABLE, ALIGARH, UTTAR PRADESH
356. SHRI BRIJ BHUSHAN RAI, HEAD CONSTABLE, DISTRICT-SONBHADRA, UTTAR PRADESH
357. SHRI ANIL KUMAR SRIVASTAVA, HEAD OPERATOR, RADIO HQ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
358. SHRI HARI LAL, HEAD CONSTABLE, DISTRICT-SITAPUR, UTTAR PRADESH
359. SHRI RAKESH KUMAR SRIVASTAVA, HEAD OPERATOR, RADIO HQ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
360. SHRI VIRENDRA RAI, HEAD CONSTABLE, 48 BN PAC, SBR, UTTAR PRADESH
361. SHRI SURYABAKASH SINGH, HEAD CONSTABLE, 12 BN PAC, FHR, UTTAR PRADESH
362. SHRI TEJ NARAYAN SINGH, HEAD CONSTABLE, SPECIAL ENQUIRY, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
363. SHRI RAMESH KUMAR SINGH, HEAD CONSTABLE, DISTRICT-KAUSHAMBI, UTTAR PRADESH
364. SHRI SANGRAM SINGH YADAV, HEAD CONSTABLE, 48 BN PAC, SBR, UTTAR PRADESH
365. SHRI DUSHYANT -, HEAD CONSTABLE (MT), DISTRICT-BULANDSHAHR, UTTAR PRADESH
366. SHRI RAJENDRA SINGH, HEAD CONSTABLE, 43 BN, PAC, ETA, UTTAR PRADESH
367. SHRI AMARNATH VERMA, HEAD CONSTABLE, 35 BN PAC, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
368. SHRI VIJAY PRATAP YADAV, HEAD CONSTABLE, DISTRICT-BALARAMPUR, UTTAR PRADESH
369. SHRI HANUMANT SINGH, CONSTABLE (DRIVER), DISTRICT-RAEBARELI, UTTAR PRADESH
370. SHRI RAJESH KUMAR SHARMA, CONSTABLE, DISTRICT-AMROHA, UTTAR PRADESH
371. SHRI SURESH CHANDRA, CONSTABLE (DRIVER), STF, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
372. SHRI MUTTUR YADAV, CONSTABLE, DISTRICT-AZAMGARH, UTTAR PRADESH
373. SHRI AMRIT LAL, CONSTABLE, DISTRICT-KANPUR DEHAT, UTTAR PRADESH
374. SHRI NAHAR SINGH PAL, CONSTABLE, DISTRICT-KANNAUJ, UTTAR PRADESH
375. SHRI RAM DAYAL UPADHYAY, CONSTABLE, GRP, ALLAHABAD, UTTAR PRADESH
376. SHRI RAMANAND MISHRA, CONSTABLE, DISTRICT-SANT KABIR NAGAR, UTTAR PRADESH
377. SHRI VED PRAKASH SHUKLA, CONSTABLE, DISTRICT-KUSHINAGAR, UTTAR PRADESH
378. SHRI MAHENDRA KUMAR TRIPATHI, CONSTABLE, DISTRICT-ALLAHABAD, UTTAR PRADESH
379. SHRI AMAR BAHADUR SINGH, CONSTABLE, DISTRICT-VARANASI, UTTAR PRADESH
380. SHRI LALTA PRASAD, CONSTABLE, DISTRICT-RAMPUR, UTTAR PRADESH

381. SMT. GULABKALI -, CONSTABLE, DISTRICT-MAHOBA, UTTAR PRADESH
382. SHRI VINAY KUMAR RAI, CONSTABLE, DISTRICT-GORAKHPUR, UTTAR PRADESH
383. SHRI KISHOR SINHA, SUB INSPECTOR (M), UP VIGILANCE, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
384. SMT. MITHLESH SINGH, INSPECTOR (M), PHQ, ALLAHABAD, UTTAR PRADESH
385. SHRI MAHENDRA KUMAR PANT, INSPECTOR (M)/CA, DGP HQ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
386. SHRI VINOD KUMAR TIWARI, INSPECTOR (M), DGP HQ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
387. SHRI INDRAPAL -, INSPECTOR (M)/CA, TECHNICAL SERVICES, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
388. SHRI DEVENDRA SINGH RAWAT, DY SP, DISTRICT HARIDWAR, UTTARAKHAND
389. SHRI BHUPAL SINGH RAWAT, DY SP, ZONAL OFFICER UDHAMSINGH NAGAR, UTTARAKHAND
390. SHRI KESHAV RAM TAMTA, SI MT, POLICE HQRS, UTTARAKHAND-248001
391. SHRI NARAYAN DUTT, PC (VS), 31 BN, PAC, RUDRAPUR, UTTARAKHAND
392. SHRI DEVENDRA LAL, SI (VS)AP, POLICE HQRS, DEHRADUN, UTTARAKHAND-248001
393. SHRI MAHENDER SINGH POONIA, INSPECTOR GENERAL OF POLICE (WELFARE) WEST BENGAL, POLICE DIRECTORATE, BHABANI BHAWAN, ALIPORE, KOLKATA-700027, WEST BENGAL
394. SHRI KALYAN KUMAR MALLICK, SPECIAL INSPECTOR GENERAL AND DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE ENFORCEMENT BRANCH, BHABANI BHAWAN, ALIPORE KOLKATA, WEST BENGAL
395. SHRI ANAND KUMAR, SPECIAL INSPECTOR GENERAL AND DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (HQ) WB, , WBPB BHABANI BHAWAN, ALIPURE, KOLKATA-27, WEST BENGAL
396. SHRI TRIPURARI ATHARV, SPECIAL INSPECTOR GENERAL AND DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, ARMED POLICE, BARRACKPORE, WEST BENGAL
397. SHRI SUBRATA KUMAR MITRA, DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, PRESIDENCY RANGE, BHABANI BHAWAN ALIPORE KOLKATA-27, WEST BENGAL
398. SHRI RAJIB GANGOPADHYAY, ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, COMBAT BATTALION POLICE TRAINING SCHOOL KOLKATA, WEST BENGAL
399. SHRI QUAZI ABDUL KADER, ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, CENTRAL DIVISION KOLKATA, WEST BENGAL
400. SHRI BODHAYAN ROY, ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, PORT DIVISION KOLKATA, WEST BENGAL
401. SHRI SUBRATA BHATTACHARJEE, INSPECTOR OF POLICE, HEADQUARTERS FORCE LALBAZAR KOLKATA, WEST BENGAL
402. SHRI SUBHENDU BARIK, INSPECTOR OF POLICE, SOUTH DIVISION, 34, PARK STREET, KOLKATA-16, WEST BENGAL
403. SHRI SUDARSAN DAS, INSPECTOR OF POLICE, SPECIAL BRANCH KOLKATA, WEST BENGAL
404. SMT. BAKUL RANI MITRA, INSPECTRESS OF POLICE, DETECTIVE DEPARTMENT, 18 LALBAZAR STREET, KOLKATA, WEST BENGAL
405. SHRI DEBDULAL GHOSH, SI OF POLICE, IB WEST BENGAL, 13 LOSRD SINHA RD KOLKATA-700071, WEST BENGAL
406. SHRI KINKAR CHAKRABORTY, SI (AB) OF POLICE, KMDA BUILDING NEAR HOWRAH RLY STATION, KOLKATA BUS STAND (SUBWAY GATE NO.5), HOWRAH-711106, WEST BENGAL

407. SHRI MD GOLAM HOSSAIN, SI OF POLICE, PORT DIVISION KOLKATA, WEST BENGAL
408. SHRI TAPAS KUMAR DUBE, ASI OF POLICE, DURGAPUR EF LINE, ASANSOL DURGAPUR, WEST BENGAL
409. SHRI PARIKSHIT MONDAL, ASI OF POLICE, ASANSOL TRAFFIC GUARD ASANSOL DURGAPUR, WEST BENGAL
410. SHRI SANAM KUMAR THAPA, HAVILDAR, EFR SECOND BN, PO, SALUA, PSH, MDP., WEST BENGAL
411. SHRI PRADIP SARKAR, POLICE DRIVER, WIRELESS BRANCH KOLKATA, WEST BENGAL
412. SHRI NILADRI SARKAR, CONSTABLE, DD SILIGURI, DJG-734001, WEST BENGAL
413. SHRI RAM GOPAL, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE/TRAFFIC, SECURITY AND TRAFFIC LINES, SECTOR TWENTY NINE, CHANDIGARH
414. SHRI RAGHBIR SINGH GILL, HEAD CONSTABLE, ASSISTANT COURT PARIVE OFFICER POLICE HEADQUARTERS, SECTOR NINE, CHANDIGARH
415. SHRI BIKRAM SINGH, HEAD CONSTABLE, CID CHANDIGARH-160009 POLICE HEADQUARTERS, SECTOR NINETEEN, CHANDIGARH
416. SHRI PRAMOD KUMAR MISHRA, SUPERINTENDENT OF POLICE, DADRA AND NAGAR HAVELI, SILVASSA, DADRA AND NAGAR HAVELI
417. SHRI ANIL DHARMSHI VAJA, HEAD CONSTABLE, DAMAN, DAMAN AND DIU
418. SHRI S VENKATASAMY, SUPERINTENDENT OF POLICE (CID), O/O IGP, PUDUCHERRY
419. SHRI CHINTA KODANDA RAM, INSPECTOR OF POLICE, GRAND BAZZAR POLICE STATION, O/O IGP, PUDUCHERRY
420. SHRI ANIL KUMAR SINGH, WARRANT OFFICER (GD), HQ IGAR (NORTH), KOHIMA, NAGALAND, ASSAM RIFLES
421. SHRI DHIRENDRA SINGH, SUBEDAR MAJOR (CLERK), HQ 6 SECTOR, DIMAPUR NAGALAND, ASSAM RIFLES
422. SHRI BAL BIR RANA, WARRANT OFFICER, 5, ZUNHEBOTO, NAGALAND, ASSAM RIFLES
423. SHRI JAGDISH SINGH, HAVILDAR (GD), 32, DIMAPUR, NAGALAND, ASSAM RIFLES
424. SHRI KEDAR SINGH, SUBEDAR (GD), AGARTALA, TRIPURA, ASSAM RIFLES
425. SHRI KRISHNA BAHADUR SAHI, SUBEDAR (GD), 39, AIZWAL, MIZORAM, ASSAM RIFLES
426. SHRI LACHHAM SINGH, SUBEDAR (GD), 2 ASSAM RIFLES, MANIPUR- 932002, ASSAM RIFLES
427. SHRI Y. KATОВI SEMA, NAIB SUBEDAR (GD), 34, MULHOICHI, MANIPUR, ASSAM RIFLES
428. SHRI MAHIMAN SINGH, NAIB SUBDEAR (GD), 42 ASSAM RIFLES, JAIRAMPUR, ARUNACHAL PRADESH, ASSAM RIFLES
429. SHRI VASUDEVAN VIJAYAN, NAIB SUBEDAR (CLERK), HQ DGAR, SHILLONG , MEGHALAYA, ASSAM RIFLES
430. SHRI GANESH KUMAR JASU, SUPERINTENDENT, HQ DGAR, SHILLONG, MEGHALAYA, ASSAM RIFLES
431. SHRI MOHANDAS P., NAIB SUBEDAR (CLERK), HQ DGAR, SHILLONG, MEGHALAYA, ASSAM RIFLES
432. SHRI RANJIT KUMAR ACHARY, SECOND-IN-COMMAND, HQ DGAR, SHILLONG, MEGHALAYA, ASSAM RIFLES
433. DR. KAUSHAL KISHORE, DEPUTY INSPECTOR GENERAL (MEDICAL)/ MS, CH BSF, AIZWAL, MIZORAM, BORDER SECURITY FORCE

434. SHRI INDRA KUMAR MEHTA, COMMANDANT, BSF ACADEMY TEKANPUR, GWALIOR (MP)-475005, BORDER SECURITY FORCE
435. SHRI SINDHU KUMAR, COMMANDANT, 14 BN BSF, KHASIAMANGAL, TELIAMURA, TRIPURA, BORDER SECURITY FORCE
436. SHRI INDER PRAKASH BHATIA, COMMANDANT (NOW DIG), 132 BN BSF, MADHOPUR, PATHANKOT, PUNJAB, BORDER SECURITY FORCE
437. SHRI RAJIV KUMAR DUA, COMMANDANT, HQ DG BSF, ADM DTE, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110 003., BORDER SECURITY FORCE
438. SHRI ANIL KUMAR THAKUR, COMMANDANT, 181 BN BSF, OLD AIR FIELD, TURIAL, AIZWAL, MIZORAM, BORDER SECURITY FORCE
439. SHRI SANDEEP KUMAR SINHA, COMMANDANT, 115 BN BSF, DANTIWADA, DISTT-BANASKANTHA, GUJARAT, BORDER SECURITY FORCE
440. SHRI AJIT SINGH, DEPUTY COMMANDANT, 81 BN BSF, SEEMANAGAR, DISRR- NADIA, (WB), BORDER SECURITY FORCE
441. SHRI NARENDER KUMAR CHOWDHARY, DEPUTY COMMANDANT, 168 BN BSF, GOKULNAGAR, PO-BISLALGARH, TRIPURA, BORDER SECURITY FORCE
442. SHRI GEORGE J TIRKEY, DEPUTY COMMANDANT, 9 BN BSF, SAMBA (J&K)-184121, BORDER SECURITY FORCE
443. SHRI OM PRAKASH CHAHAR, DEPUTY COMMANDANT, 112 BN BSF, SRIKARANPUR, DISTT- SRIGANGANAGAR (RJ), BORDER SECURITY FORCE
444. SHRI RAM AVTAR SINGH, DEPUTY COMMANDANT, 52 BN BSF, RAISINGH NAGAR (RAJASTHAN)-335057, BORDER SECURITY FORCE
445. SHRI AMAL KUMAR SAHA, DEPUTY COMMANDANT, 144 BN BSF, KALYANI, DISTT-NADIA, WEST BENGAL, BORDER SECURITY FORCE
446. SHRI ARUN KUMAR PANDEY, DY COMMANDANT, 90 BN BSF, ABOHAR, DISTT-FAZILKA, PUNJAB, BORDER SECURITY FORCE
447. SHRI AVANINDRA KUMAR YADAV, DEPUTY COMMANDANT, 83 BN BSF, ROSHANBAGH, DISTT- MURSHIDABAD (WB), BORDER SECURITY FORCE
448. SHRI DARSHAN SINGH, DY COMMANDANT, 154 BN BSF, KHASA, DISTT- AMRITSAR, PUNJAB, BORDER SECURITY FORCE
449. SHRI MAHESH CHAND, ASSISTANT COMMANDANT (GD), 19 BN BSF, MAWPAT, SHILLONG, MEGHALAYA-793012, BORDER SECURITY FORCE
450. SMT. SUSHIL GIRDHAR, SENIOR PS, HQ DG BSF, NEW DELHI, BORDER SECURITY FORCE
451. SHRI VIJAY SINGH CHAUHAN, ASSISTANT COMMANDANT (MINISTERIAL), SHQ BSF BARMER, RAJASTHAN, BORDER SECURITY FORCE
452. SHRI PRITHIPAL SINGH SANDHU, ASSISTANT COMMANDANT (MINISTERIAL), FTR HQ BSF JALANDHAR, PUNJAB, BORDER SECURITY FORCE
453. SHRI PUKHA RAM BISHNOI, ASSISTANT COMMANDANT (MINISTRIAL), FTR HQ BSF KASHMIR, BORDER SECURITY FORCE
454. SHRI MOHINDER SINGH, INSPECTOR, 110 BN BSF, JAWAHARNAGAR, TRIPURA, BORDER SECURITY FORCE
455. SHRI SUMER SINGH, INSPECTOR (GD), 99 BN BSF MELTERAM, LUNGLEI, BORDER SECURITY FORCE
456. SHRI KHUSH KARAN SINGH, INSPECTOR (GD), 70 BN BSF, AJNALA, PUNJAB, BORDER SECURITY FORCE
457. SHRI SURENDRA BAHADUR GURUNG, INSPECTOR (BAND), TC&S BSF HAZARIBAGH, JHARKHAND, BORDER SECURITY FORCE

458. SHRI SHAMBHU SINGH, INSPECTOR (GD), STC BSF BANGALROE, BORDER SECURITY FORCE
459. SHRI KRISHNA BIRUA, INSPECTOR, 74 BN BSF, NALKATA, TRIPURA, BORDER SECURITY FORCE
460. SHRI PURAN SINGH, INSPECTOR (GD), 48 BN BSF, KHASIMANGAL, TRIPURA, BORDER SECURITY FORCE
461. SHRI JAI SINGH SAHARAN, INSPECTOR (MINISTERIAL), STC BSF UDHAMPUR, BORDER SECURITY FORCE
462. SHRI ARUNESH KUMAR SHARMA, INSPECTOR (MINISTERIAL), 126 BN BSF, PAINTHEE, SAMBA, (J&K), BORDER SECURITY FORCE
463. SHRI SANGAPPA ABYAL, INSPECTOR (MINISTERIAL), STC BSF BANGALROE, BORDER SECURITY FORCE
464. SHRI RAJ SINGH RATHI, INSPECTOR (CIPHER), SHQ BSF KISHANGANJ, BIHAR, BORDER SECURITY FORCE
465. SHRI BALACHANDRAN P S, INSPECTOR (CIPHER), SHQ BSF PANISAGAR, TRIPURA, BORDER SECURITY FORCE
466. SHRI TAPAN KUMAR DAS, SUB INSPECTOR (GD), 9 BN BSF, SAMBA (J&K), BORDER SECURITY FORCE
467. SHRI PHOOL SINGH, SUB INSPECTOR (GD), 192 BN BSF, R S PURA, JAMMU, BORDER SECURITY FORCE
468. SHRI PREM RAM, SUB INSPECTOR (GD), 191 BN BSF, KHEMKARAN, PUNJAB, BORDER SECURITY FORCE
469. SHRI DAYA RAM, SUB INSPECTOR (GD), 120 BN BSF, KITTAMPALAYAM, COIMBATORE (TN), BORDER SECURITY FORCE
470. SHRI HOSHIAR SINGH, SUB INSPECTOR (GD), 90 BN BSF, ABOHAR (PUNJAB), BORDER SECURITY FORCE
471. SHRI PAL SINGH, SUB INSPECTOR(GD), 70 BN BSF, AJNALA, PUNJAB, BORDER SECURITY FORCE
472. SHRI LALAN PRASAD RAI, SUB INSPECTOR (GD), TC & S BSF HAZARIBAGH (JHARKHAND), BORDER SECURITY FORCE
473. SHRI RAGHUBIR SINGH, SUB INSPECTOR (RADIO MECHANIC), FTR HQ BSF JAMMU, BORDER SECURITY FORCE
474. SHRI KANCHAN KUMAR PANTANTY, SUB INSPECTOR (CIPHER), 53 BN BSF, MASIMPUR, ASSAM, BORDER SECURITY FORCE
475. SHRI JAGRAJ SINGH, SUB INSPECTOR (AUTO ELECTRICIAN), SHQ BSF GURDASPUR (PUNJAB), BORDER SECURITY FORCE
476. SHRI SWAPAN KUMAR CHAKRABORTY, HEAD CONSTABLE (GD), 71 BN BSF, PANBARI, ASSAM, BORDER SECURITY FORCE
477. SHRI HARBANS SINGH RAWAT, CONSTABLE (DAFTRY), SHQ BSF BANDIPUR, J&K, BORDER SECURITY FORCE
478. SHRI SHRI RAM, CONSTABLE (COOK), 38 BN BSF, TANGDHAR, KUPWARA (J&K), BORDER SECURITY FORCE
479. SHRI ASHWANI KUMAR CHAND, DIG, AC I DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
480. SHRI NAVJYOTI GOGOI, DIG, GUWAHATI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
481. SHRI SUBHASH RAM RUP SINGH, ADDITIONAL S P, CBI, SCB MUMBAI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

482. SHRI NAGESH MURLIDHAR PARAB, DSP, CBI SU MUMBAI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
483. SHRI SURENDER SINGH, DSP, EO II, CBI, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
484. SHRI NEERAJ AGARWAL, DSP, BS & FC MUMBAI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
485. SHRI ATUL HAJELA, DSP, ACB, CBI, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
486. SHRI SANJAY KUMAR DHALL, DSP, STF, CBI, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
487. SHRI LOVERSON KURUVILA, DSP, ACB CHENNAI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
488. SHRI MAHARSHI RAY HAJONG, DSP, ACB, CBI, GUWAHATI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
489. SHRI ARVIND DADAJI MORE, INSPECTOR, ACB, CBI, NAGPUR, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
490. SHRI SUBHASH CHANDER, INSPECTOR, ACB, CBI, CHANDIGARH, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
491. SHRI TEJ PRAKASH DEVRANI, INSPECTOR, ACB, CBI, DEHRADUN, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
492. SHRI SANJAY SHARMA, INSPECTOR OF POLICE, SC III, CBI, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
493. SMT. GEETA PAUL, ASI, EO III, CBI, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
494. SHRI KULJEET SINGH, HEAD CONSTABLE, CBI HQ, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
495. SHRI BANI SINGH, CONSTABLE, CBI HQ, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
496. SHRI SANDEEP KUMAR SHARMA, CONSTABLE, AC II, CBI, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
497. SHRI SATNARAIN, CONSTABLE, SC I, CBI, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
498. SHRI DEVASHISH BOSE, STENO GR II, CBI HQ, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
499. SHRI NIMAI CHANDRA MONDAL, HEAD CONSTABLE, ACB, CBI, KOLKATA, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
500. SHRI RAMESH CHAND, HEAD CONSTABLE, INFORMATION SECTION, CBI HQ, NEW DELHI, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
501. SHRI RAJASHEKARA T, INSPECTOR, ACB, CBI, BANGALORE, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
502. SHRI AIKODAN BALAKRISHNAN, HEAD CONSTABLE, ACB, CBI, GOA, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
503. SHRI GOUTAM CHANDRA DAS, HEAD CONSTABLE, ACB, CBI, BBSR, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
504. SMT. VITSONEINUO KHAMO, DY INSPECTOR GENERAL, CISF RTC ARAKKONAM, TAMILNADU, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
505. SHRI RAVINDRA KUMAR SINGH, SENIOR COMMANDANT, CISF UNIT JAIPUR AIRPORT RAJASTHAN, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
506. SHRI HARJINDER SINGH, COMMANDANT LOCAL RANK, CISF VII RB KISHTWAR J&K, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

507. SHRI SANJAY KUMAR, ASST COMMANDANT, CISF UNIT NNP MYSORE, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
508. SHRI PARAMJIT SINGH, ASST COMMANDANT, CISF ZONAL WORKSHOP GHAZIABAD, U.P., CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
509. SHRI MAHESH PRASAD MISHRA, ASST COMMANDANT JAO, CISF THIRD RB BHILAI, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
510. SHRI GOUTAM HAZRA, INSPECTOR EXECUTIVE, CISF NES HQRS KOLKATA W.B., CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
511. SHRI BISWAJIT GHOSH, INSPECTOR EXECUTIVE, CISF NEZ HQRS KOLKATA W.B., CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
512. SHRI SURINDER SINGH NEGI, INSPECTOR MINISTERIAL, CISF VII RB KISHTWAR, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
513. SHRI S VENKATESAN, SUB INSPECTOR MINISTERIAL, CISF DOS HQRS BANGALORE, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
514. SMT. SIPRA ACHERJEE, SUB INSPECTOR MINISTERIAL, CISF UNIT DSP DURGAPUR W.B., CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
515. SHRI K VADIVALAGAN, ASST SUB INSPECTOR, CISF UNIT ELECTRONIC CITY BANGALORE, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
516. SHRI T H ARJUNAN, ASST SUB INSPECTOR, CISF UNIT NLC NEYVELI, TAMILNADU, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
517. SHRI INDER NARAIN, ASST SUB INSPECTOR, CISF UNIT NEW DELHI AIRPORT, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
518. SHRI PRAMOD KUMAR AWASTHI, ASST SUB INSPECTOR, CISF UNIT BSP BHILAI, CHATTISGARH, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
519. SHRI PARAS RAM, ASST SUB INSPECTOR, CISF UNIT DMRC DELHI, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
520. SMT. SHINY DOMINIC, ASST SUB INSPECTOR, CISF UNIT ONGC NAZIRA, ASSAM, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
521. SHRI K SASI KUMAR, HEAD CONSTABLE, CISF UNIT LPSC VALIAMALA, KERALA, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
522. SHRI NARMADA PRASAD GOUR, HEAD CONSTABLE, CISF UNIT ONGC AHMEDABAD, (GUJ.), CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
523. SHRI DIPTI RANJAN MOHAPATRA, HEAD CONSTABLE, CISF UNIT VPT VISAKHAPATNAM, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
524. SHRI S RAJASEKARAN, HEAD CONSTABLE, CISF UNIT CHENNAI AIRPORT, TAMILNADU, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
525. SHRI BHUPENDRA MISHRA, HEAD CONSTABLE, CISF UNIT PUNE AIRPORT, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
526. SHRI JAGDISH PRASAD, HEAD CONSTABLE, CISF UNIT JAIPUR AIRPORT, RAJASTHAN, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
527. DR. (MRS). VANITHA MOORTHY, COMDT CMO SG, COMPOSIT HOSPITAL, GC CAMPUS, AVADI, CHENNAI - 65, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
528. SHRI SHANKAR DUTT PANDEY, COMMANDANT, 2 SIG BN, PO- KSHOGIRI, HYDERABAD (TLANGANA) - 500005, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
529. SHRI SUSHIL KUMAR MISHRA, COMMANDANT, 70 BN, BAWANA DELHI- 110039, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE



530. SHRI VINAY KUMAR SINGH, COMMANDANT, RTC, RAJGIR EXTNSION GC, MOKAMAGHAT, BIHAR- 803303, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
531. SHRI PRAVEEN KUMAR SINGH, COMMANDANT, 122 BN, CHHATARPUR MHRAULI, ANDRIAMOR, NEW DELHI- 110030, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
532. SHRI MANAS RANJAN, COMMANDANT, DIRECTORATE GENERAL, CGO COMPLEX. LODHI ROAD, NEW DELHI-03, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
533. SHRI DALVINDER SINGH GREWAL, COMMANDANT, 181 BN, CRPF, RADAR STATION, (CARAR-I-SHARIF), BUDGAM (J&K)- 191112, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
534. SHRI PANKAJ KUMAR, COMMANDANT, 11 BN, NEW BLOCK COLONY, LATHAR (JHARKHAND)- 829206, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
535. SHRI RAJENDRA PRASAD, COMMANDANT, DIRECTORATE GENERAL CGO COMPLEX, LODHI ROAD, NEW DELHI-03, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
536. SHRI ZAKIR HASAN KHAN, SECOND IN COMMAND, 117 BN, HOTEL SHEHJAAR, WAZIRBAGH, SRINAGAR (J&K) - 190008, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
537. SHRI MUKESH KUMAR TYAGI, SECOND IN COMMAND, O/O DIG, CRPF, RANG KOOTAH ZTC NAGROTA, JAMMU, J&K, -181221, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
538. SHRI SWARN SINGH, SECOND IN COMMAND, O/O IG, JAMMU SEC, BANTLAB, JAMMU , (J&K)- 181123, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
539. SHRI VIJAY KUMAR, SECOND IN COMMAND, O/O DIG, RANGE SILIGURI, WB- 734012, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
540. SHRI DARBARA SINGH, DY COMMANDANT, GROUP CENTR, CRPF, HIMSHIKHA, PINJORE, PANCHKULA HARYANA - 134104, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
541. SHRI RAMESHWAR SINGH, DY COMMANDANT, 16 BN, RANCH BANGER, MATHURA, UP - 281006, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
542. SHRI SUNDER LAL YADAV, DY COMMANDANT, 27 BN, BAWANA DELHI - 110039, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
543. SHRI SHYAM SINGH, DY COMMANDANT, 116 BN, MAMAI, PAHALGAM J&K - 192126, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
544. SHRI RAMASHRAY SHUKLA, DY COMMANDANT, 36 BN, KHONSA, TIRAP (ARUNACHAL PRADESH ), CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
545. SHRI AMAN SINGH, ASSTT COMMANDANT, GROUP CNTR, KATHGODAM, NAINITAL, UK, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
546. SHRI RAJENDRA PRASAD, ASSTT COMDT, 30 BN, ASSAM KOTTON MILL COMPLEX, CHARIDUAR, SONITPUR TEJPUR (ASSAM) -784103, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
547. SHRI RAVINDER SINGH, INSP / GD, GROUP CNTR, SARAIKHAS, KARTARPUR, JALLANDHAR PUNJAB - 144805, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
548. SHRI SHEKHARANAND SHARMA, INSP /GD, GROUP CENTRE, KATHGODAM , NAINITAL UK, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
549. SHRI JAGTAR SINGH, INSP/ GD, GROUP CENTRE, KOOTAH ZTC NAGROTA, SAINIK SCHOOL ROAD, JAMMU, J&K - 181221, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
550. SHRI GOPAL JI YADAV, INSP /GD, GROUP CNTR, MOKAMAGHAT BIHAR -803303, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
551. SHRI VED PRAKASH, INSP / GD, GROOUP CENTRE, GURGAON HARYANA -122001, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
552. SHRI RAM PRAKASH, INSP / GD, GROUP CENTRE, GURGAON HARYANA -122001, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

553. SHRI SAMDAR SINGH, INSP/ GD, 124 BN, SALBAGAN, AGARTALA TRIPURA -799012, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
554. SHRI FAROOQ AHMED, INSP / GD, 185 BN, TRAL, PULWAMA J&K - 919213, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
555. SHRI MOHD YUSUF SHAH, INSP / GD, GROUP CENTRE, GOVIND APARTMNT, JEEVAN VIHAR COLONY, TLABANDHA, RAIPUR CHHATISGARH -492007, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
556. SHRI PRABODH KUMAR SAHA, INSP / GD, 124 BN, SALBAGAN, AGARTALA TRIPURA - 799012, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
557. SHRI RAMESH KUMAR PANDEY, INSP / GD, 10 BN, B.T. C. HOWLY BARPETA ASSAM - 781316, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
558. SHRI BALBIR SINGH, INSP / GD, 84 BN, FCI CAMP, CHATHA, JAMMU (J&K) - 180009, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
559. SHRI PREM PRAKASH YADAV, INSP / GD, 27 BN, BAWANA DELHI -110039, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
560. SHRI ONKAR CHAND, INSP /GD, 181 BN, RADAR STATION, (CHARAR - I - SHARIF) BUDGAM J&K - 191112, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
561. SHRI DILIP KUMAR MOHANTY, INSP /GD, GROUP CENTRE, BHUBNESWAR ODISHA - 751011, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
562. SHRI RAMESH CHAND, INSP /GD, 177 BN, ITI COMPLX, AMARGARH, SOPORE, BARAMULA J&K -933177, C/O 56 APO, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
563. SHRI RAJ KUMAR, INSP /GD, GROUP CENTRE, SRINAGAR J&K -190001, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
564. SHRI MAHADEV TIGGA, SI /GD, CTC (T&IT), TIRIL ASHRAM, RANCHI JHARKHAND - 834004, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
565. SHRI PRAHLAD DEV BERMA, SI GD, O/O IG, TRIPURA SECTOR, PO - USHA BAZAR, AIRPORT ROAD, AGARTALA TRIPURA -799009, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
566. SHRI BIJAYA KUMAR SAHU, SI / GD, 227 BN, KARANPUR, JAGDALPUR (CHHATISGARH) - 494001, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
567. SHRI JAGMAL SINGH, SI / GD, 27 BN, BAWANA DELHI -110039, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
568. SHRI KRISHAN SWAROOP, ASI / GD, 23 BN, KARAM NAGAR, SRINAGAR J&K -190010, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
569. SHRI RAJU N S, HC / GD, GROUP CENTRE, PALLIPURAM TRIVANDRUM KERALA -695316, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
570. SMT. SULOCHANA K.V, ASI / GD MAHILA, RCRUIT TRAINING CENTRE, ARAVANCHAL, PRINGOME , KANNUR, KERALA -670307, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
571. SHRI BHAGAT SINGH, INSP /TECH, 1 SIG BN, GC CAMPUS, JHARODA KALAN NEW DELHI - 110072, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
572. MR. SHRI NIWAS, INSP/ CRYPTO, DIRECTORATE GENERAL CRPF, NEW DELHI -03, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
573. SHRI K KUMAR, INSP / RO, 2 SIG BN, PO - KESHOGIRI, HYDERABAD (TELANGANA) - 500005, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
574. SHRI JAWAHAR PRASAD, INSP / ARMR, CENTRE WEAPON STORE-III, SILIGURI, PO - SUSHRATA NAGAR, DARJEELING WB -734012, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
575. SHRI SUREN CHANDRA GOGOI, SI / BAND, GROUP CENTRE, LANGING, IMPHAL, MANIPUR -795113, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

576. SHRI NARPAT SINGH, SI / MT, 67 BN, GROUND, SHILLONG MEGHALAYA -793001, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
577. SHRI TANKESHWAR GAYAN, SI / MT, COUNTR INSURGENCY AND ANTI TRRORIST SCHOOL, UDHARBAND, SILCHAR ASSAM, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
578. SHRI RANDHIR SINGH, SI / TAILOR, GROUP CENTRE, VILL - KHEWRA, PO-BAHALGARH, SONEPAT HARYANA -131021, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
579. SHRI V.RAJAN, HC / MOCHI, GROUP CENTRE, TARA;U GC CAMPUS, YLAHANKA, BANGALORE (KARNATAKA -560064, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
580. SHRI LAKSHMI SHANKAR, CT/ BARBER, GROUP CENTRE, AMTHIO TRISUNDI, PO-RAMAGANJ, AMETHI UP -228159, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
581. SHRI RAM MURTI TIWARI, CT/ COOK, CENTRAL TRAINING COLGE, MUDKHD, NANDED MAHARASHTRA, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
582. SHRI RAJDIN, CT/ WASHER MAN, PARLIAMENTARY DUTY GROUP, KALKAJI OKHLA PHASE-I, NEW DELHI -110019, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
583. SHRI BARUN BANDYOPADHYAY, ASSTT COMDT / MIN, GROUP CENTRE, SILIGURI WB - 734012, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
584. SHRI SABYASACHI CHATTOPADHYAY, ASSTT COMDT/ MIN, O/O IG, WESTERN SECTOR, NEW MUMBAI MAHARASHTRA -400614, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
585. SHRI JASWINDER SINGH, JOINT DEPUTY DIRECTOR, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
586. SHRI VASANT KUMAR REUBEN, JOINT DEPUTY DIRECTOR /NP, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
587. SHRI SANTHOSH KRISHNAN NAIR, ASSISTANT DIRECTOR, BOI, KOCHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
588. SHRI PRAKASH CHANDRA SAVJIBHAI SOLANKI, ASSISTANT DIRECTOR, SIB, , AHMEDABAD, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
589. SHRI ASHOK KUMAR TANWAR, ASSISTANT DIRECTOR, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
590. SHRI ROUSANG VALTE, ASSISTANT DIRECTOR, SIB, IMPHAL, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
591. SHRI RAMESH VISHWANATHAN, ASSISTANT DIRECTOR, SIB, CHENNAI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
592. SHRI PRAKASH RAMASESHAN NELLAPALLY, ASSISTANT DIRECTOR /TECH, SIB, CHENNAI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
593. SHRI RAJEEV ANANTRAO WANKHADE, DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, SIB, AHMEDABAD, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
594. SHRI BHARAT BHUSHAN GUPTA, DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, SIB, BHOPAL, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
595. SHRI ASHUTOSH SHARMA, DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, SIB, MEERUT, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
596. SHRI PEEUSH RAWAT, DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
597. SHRI RAJESH KUMAR, DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, SIB, CHANDIGARH, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
598. SHRI KURUVADA MURALI MOHAN, DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, SIB, VIJAYAWADA, MINISTRY OF HOME AFFAIRS

599. SHRI HEERA SINGH KHATI, DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, SIB, DEHRADUN, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
600. SHRI ARUN KUMAR SHUKLA, DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, SIB, LUCKNOW, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
601. SHRI ANUP KATARIA, DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
602. SHRI YOGENDRA PAL SINGH, DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
603. SHRI DINESH KUMAR RATHI, SECTION OFFICER, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
604. SHRI LOKESH KUMAR SHARMA, SECTION OFFICER, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
605. SHRI VIKAS NARULA, PRIVATE SECRETARY, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
606. SHRI VIJAY KUMAR NAGPAL, PRIVATE SECRETARY, SRINAGAR, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
607. SHRI NAVDEEP SAXENA, ASSISTANT SECTION OFFICER, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
608. SHRI SANJAY TALWAR, ASSISTANT SECTION OFFICER, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
609. SHRI HARENDRA DAS, JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER-I/G, NEW DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
610. SHRI BABU LAL MEENA, JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER -I/TECH, SIB, JAIPUR, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
611. SHRI RAJESH KUMAR PATARIYA, DY INSPECTOR GENERAL, DTE GENL ITBP CGO COMPLEX LODHI ROAD NEW DELHI, INDO TIBETAN BORDER POLICE
612. SHRI MANDHIR EKKA, DY INSPECTOR GENERAL, RTC KIMIN ITBP DISTT KIMIN ARUNACHAL PRADESH, INDO TIBETAN BORDER POLICE
613. SHRI SANJEEV KUMAR SINGH, COMMANDANT, FORTY EIGHT BN ITBP SISIYA DISTT KATI HAR BIHAR, INDO TIBETAN BORDER POLICE
614. SHRI BANWARI LAL, SECOND IN COMMAND, RTC SIVAGANGAI PADMATHUR DISTT SIVAGANGAI TAMILNADU, INDO TIBETAN BORDER POLICE
615. SHRI SATBINDER SINGH, ASSISTANT COMMANDANT, 15 BN ITBP GARHI DISTT UDHAMPUR, J & K, INDO TIBETAN BORDER POLICE
616. SHRI BHARAT SINGH NEGI, ASSISTANT COMMANDANT (OFFICE), SHQ DEHRADUN ITBP DISTT DEHRADUN UTTRAKHAND, INDO TIBETAN BORDER POLICE
617. SMT. RAJNI RAWAT, ASSISTANT COMMANDANT (ESC), SHQ ITANAGAR DISTT ITANAGAR ARUNACHAL PRADESH, INDO TIBETAN BORDER POLICE
618. SHRI RAMESH CHANDER, SECTION OFFICER, DTE GENL ITBP CGO COMPLEX LODHI ROAD NEW DELHI, INDO TIBETAN BORDER POLICE
619. SHRI KISHORI LAL, INSPECTOR, CTC ITBP PO SAHDOLI DISTT ALWAR RAJASTHAN, INDO TIBETAN BORDER POLICE
620. SHRI JAIDEV SINGH, INSPECTOR, BTC BHANU ITBP PO BHANU DISTT PANCHKULA HARAYANA, INDO TIBETAN BORDER POLICE
621. SHRI ISHWAR SINGH KUNWAR, SUB INSPECTOR, DTE GENL ITBP CGO COMPLEX LODHI ROAD NEW DELHI, INDO TIBETAN BORDER POLICE
622. SHRI JAIPAUL SINGH, ASSISTANT SUB INSPECTOR, ELEVENTH BN ITBP PEGONG SIKKIM, INDO TIBETAN BORDER POLICE

623. SHRI MOHSEN SHAHEDI, GROUP COMMANDER, HQ NSG PALAM, NEW DELHI, NATIONAL SECURITY GUARD
624. SHRI BAHADUR SINGH NEGI, GROUP COMMANDER, TRG CENTRE, NSG, MANESAR, NATIONAL SECURITY GUARD
625. SHRI VIRENDER SINGH RAWAT, TEAM COMMANDER (SO), HQ NSG PALAM, NEW DELHI, NATIONAL SECURITY GUARD
626. SHRI E. SREEDHAR, ASSTT COMMANDER-I(MIN), HQ NSG, PALAM, NEW DELHI, NATIONAL SECURITY GUARD
627. SHRI P KALAIYARASAN, ASSTT COMMANDER-I (MIN), HQ NSG, CAMP RK PURAM, NEW DELHI, NATIONAL SECURITY GUARD
628. SHRI DALIP SINGH AMBESH, GROUP COMDR, 11 SRG NSG MANESAR, NATIONAL SECURITY GUARD
629. SHRI VIKAS KUMAR ARORA, DY INSPECTOR GENERAL, FHQ SSB RK PURAM NEW DELHI, SASHASTRA SEEMA BAL
630. SHRI VINOD KUMAR SHARMA, DY INSPECTOR GENERAL, FHQ SSB RK PURAM NEW DELHI, SASHASTRA SEEMA BAL
631. SMT. SULEKHA DAS, AREA ORGANISER, SHQ SSB PURNEA BIHAR, SASHASTRA SEEMA BAL
632. SHRI VIJAY SINGH JAMWAL, DY COMMANDANT, SIXTY SIX BN SSB (JAMMU), SASHASTRA SEEMA BAL
633. SHRI AJAY SHARMA, DEPUTY COMMANDANT, FHQ SSB RK PURAM NEW DELHI, SASHASTRA SEEMA BAL
634. SHRI DHARANI BORAH, ASSISTANT COMMANDANT, THIRTY BN SSB DIRANG (AP), SASHASTRA SEEMA BAL
635. SHRI ANIL KUMAR THAKUR, ASSISTANT COMMANDANT, SIXTY SEVEN BN SSB SHAMSHI (HP), SASHASTRA SEEMA BAL
636. SHRI JAGDISH RAM, INSPECTOR (GD), TRAINING CENTRE SSB KUMARSAIN (HP), SASHASTRA SEEMA BAL
637. SHRI BALBIR SINGH, SUB INSPECTOR (GD), MTC SSB SHIMLA (HP), SASHASTRA SEEMA BAL
638. SHRI AJAY KUMAR, ASI (GD), TWENTY FOUR BN SSB KEWTI (CHHATTISGARH), SASHASTRA SEEMA BAL
639. SHRI PHU TSHERING BHUTIA, ASI (GD), SHQ SSB GANGTOK (SIKKIM), SASHASTRA SEEMA BAL
640. SHRI SURESH CHANDRA PANT, DY FIELD OFFICER (G), FHQ SSB R K PURAM NEW DELHI, SASHASTRA SEEMA BAL
641. SHRI DHOOP SINGH MAAN, AIG, SPG HQRS, NEW DELHI, SPECIAL PROTECTION GROUP
642. SHRI SUDHANSHU SINGH, AIG, SPG HQRS, NEW DELHI, SPECIAL PROTECTION GROUP
643. SHRI AJAY VEER SINGH KALIYAR, AIG, SPG HQRS, NEW DELHI, SPECIAL PROTECTION GROUP
644. SHRI ANEESH SIROHI, AIG, NEW DELHI, SPECIAL PROTECTION GROUP
645. SHRI MAHESH CHANDRA JOSHI, AIG, SPG HQRS, NEW DELHI, SPECIAL PROTECTION GROUP
646. SHRI ANAND SINGH, SO-I, SPG HQRS, NEW DELHI, SPECIAL PROTECTION GROUP
647. SHRI RAJEEV KUMAR, SSA, SPG HQRS, NEW DELHI, SPECIAL PROTECTION GROUP
648. SHRI DINKAR KUMAR, SSA, SPG HQRS, NEW DELHI, SPECIAL PROTECTION GROUP

649. SHRI BISHNU BAHADUR CHETRI, HEAD CONSTABLE (GD), NEPA, UMSAW, UMIAM, MEGHALAYA, NORTH EASTERN POLICE ACADEMY
650. DR. SELVARAJ KARTHIKEYAN, ASSISTANT DIRECTOR, BPR&D, DELHI, BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT
651. SHRI RANVEER SINGH GAHLOT, DYSP, CDTS, JAIPUR, BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT
652. SHRI DEVAJYOTI RAY, DEPUTY DIRECTOR, NCB HQ, NEW DELHI, NCB
653. SHRI SANJEEV KUMAR SAXENA, DEPUTY DIRECTOR, NCRB, R.K. PURAM, NEW DELHI, NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU
654. SHRI SANJAY CHAKRABORTY, ASSISTANT SUB INSPECTOR ( FINGER PRINT), NCRB, R.K. PURAM, NEW DELHI, NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU
655. SHRI INCHODIKARAN REMIGIOUS KURILLOSE, DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE, NEW DELHI, NHRC
656. SHRI SATYA NAND PANDEY, SUPERINTENDENT OF POLICE, NIA HQ NEW DELHI, NATIONAL INVESTIGATION AGENCY
657. SHRI VIKRAMAN P, DY SP, NIA KOCHI, NATIONAL INVESTIGATION AGENCY
658. SHRI BRAJ BHUSHAN PATHAK, INSPECTOR, INSPECTOR NIA HQ NEW DELHI, NATIONAL INVESTIGATION AGENCY
659. SHRI SATISH KUMAR SASTRI, SECOND IN COMMAND, 01, BN, NDRF, PATGAON, AZARA, KAMRUP, GUWAHATI ASSAM, NDRF
660. SHRI MAHASHER HUSSAIN, AC, 08 BN, NDRF, GHAZIABAD UP-201002, NDRF
661. SHRI S RAGHAVENDRA, INSPECTOR MIN, HQ DG NDRF NEW DELHI, NDRF
662. SHRI SURESH KUMAR YADAV, INSPECTOR, 7TH, BN, NDRF, BATHINDA PUNJAB, NDRF
663. SHRI BHAWANI SINGH RATHORE, SUB INSPECTOR, B/ 5TH NDRF SUDUMBAR, PUNE MAHARASHTRA, PIN-412109, NDRF
664. SHRI RAVINDRA M.L, ASSISTANT DIRECTOR(TAC), SVP NPA HYDERABAD, SVP NPA
665. SHRI PRAKASH CHAND RATHOR, INSPECTOR (GD), SVP NPA HYDERABAD, SVP NPA
666. SHRI M R REDDY, HEAD CONSTABLE/ADI, SVP NPA HYDERABAD, SVP NPA
667. SHRI MAN SINGH THAPA, HEAD CONSTABLE(BAND), SVP NPA HYDERABAD, SVP NPA
668. SHRI RIKHI RAM, SUB INSPECTOR, ITBP, DELHI, MINISTRY OF HOME AFFAIRS
669. SHRI AJOY SADANY, ADDL. CHIEF SECURITY COMMISSIONER, NW RAILWAY, JAIPUR, M/O RAILWAYS
670. SHRI VIJAY KUMAR KHATARKAR, ADDL. CHIEF SECURITY COMMISSIONER, NE RAILWAY, GORAKHPUR, M/O RAILWAYS
671. SHRI R P TOMAR, ASSISTANT SECURITY COMMISSIONER, RPF, AGRA, M/O RAILWAYS
672. SHRI FARID AHMED, INSPECTOR, EASTERN RAILWAY, KOLKATA, M/O RAILWAYS
673. SHRI VISHWAMBHAR NATH DWIVEDI, INSPECTOR, NORTH CENTRAL RAILWAY, ALLAHABAD, M/O RAILWAYS
674. SHRI BINODA BIHARI SAMANTARA, SUB INSPECTOR (MINISTRIAL), 10 BN RPSF, DHANBAD, M/O RAILWAYS
675. SHRI R SURESH, SUB INSPECTOR (MINISTRIAL), 7TH BN, RPSF, MOULLALI, M/O RAILWAYS
676. SHRI V SATYANARAYANA, SUB INSPECTOR, SIRPURKAGAZNAGAR, SECUNDERABAD, M/O RAILWAYS
677. SHRI MADAN LAL, SUB INSPECTOR, CRIME CELL, JODHPUR, M/O RAILWAYS

678. SHRI SUBHASIS GUPTA, ASI, EASTERN RAILWAY, CHITTARANJAN, M/O RAILWAYS
679. SHRI RAJARAM -, ASI, NER RAILWAY, ALLAHABAD, M/O RAILWAYS
680. SHRI BALMIK PRASAD PATEL, ASI, HABIBGANJ, BHOPAL, M/O RAILWAYS
681. SHRI JAYANTA KOLAY, HEAD CONSTABLE, EASTERN RAILWAY, KOLKATA, M/O RAILWAYS
682. SHRI SURESH MAHTO, SW (GR-II), 6TH BN, RPSF, NEW DELHI, M/O RAILWAYS
683. SHRI SANJEEB KUMAR PATJOSHI, JOINT SECRETARY, M/O PANCHAYATI RAJ, GOI, , JEEVAN PRAKASH BUILDING, 11TH FLOOR 25, KASTURBA GANDHI MARG, NEW DELHI, MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rule governing the grant of Police Medal for Meritorious Service.

A. RAI  
Officer on Special Duty

#### MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi-110011, the 7th September 2016

#### RESOLUTION

No. E-11011/1/2014-Hindi—Ministry of Textiles, Government of India, consequent upon the change in portfolios of ministers, has decided to partially modify the composition of Hindi Salahakar Samiti of the Ministry in supersession of its resolution of even number dated 12.03.2015. Now the Chairman and Vice -Chairman of the committee will be as under :

- |    |                                |               |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | Minister of Textiles           | Chairman      |
| 2. | Minister of state for Textiles | Vice-Chairman |

#### ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all members of the committee, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, NITI Aayog, Comptroller and Auditor General of India, A.G.C.R and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GEETA NARAYAN  
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, ए न.आई.टी. फरीदाबाद में  
अपलोड ए वं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.  
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in